



टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन भारत के 15 खिलाड़ियों को मिलेगे 5-5 करोड़, कोच द्रविड़ को 2.5 करोड़

मॉस्को में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत, आज होगी राष्ट्रपति पुतिन संग बैठक

22वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे भारत और रूस के राष्ट्राध्यक्ष, मजबूत होंगे द्विपक्षीय संबंध और सामरिक भागीदारी

हरिभूमि ब्यूरो » नई दिल्ली

अपनी दो दिवसीय यात्रा के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार शाम रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे। यहां हवाईअड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया गया। रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंट्रोव ने प्रधानमंत्री की अगुवाई की। इसके बाद उन्हें रूसी सैन्यबलों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में एक निजी रात्रिभोज दिया। मॉस्को में भारतीय समुदाय ने भी पीएम का जोरदार अंदाज में स्वागत किया। इसके » शेष पेज 5 पर



रूसी सैन्यबलों ने पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया।

पीएम मोदी की पुतिन से हुई मुलाकात



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में रूस और ऑस्ट्रिया की इन दोनों यात्राओं को लेकर कहा कि अगले तीन दिनों तक मैं रूस और ऑस्ट्रिया में रहूंगा। ये यात्राएं इन दोनों देशों के साथ संबंधों को और मजबूत करने का एक शानदार अवसर होगा। जिनके साथ भारत की पुरानी दोस्ती है। मैं इन देशों में रहने वाले भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करने के लिए भी उत्सुक हूँ। प्रधानमंत्री की रूस यात्रा को लेकर रूस में भारत के » शेष पेज 5 पर

द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगी मजबूती

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में रूस और ऑस्ट्रिया की इन दोनों यात्राओं को लेकर कहा कि अगले तीन दिनों तक मैं रूस और ऑस्ट्रिया में रहूंगा। ये यात्राएं इन दोनों देशों के साथ संबंधों को और मजबूत करने का एक शानदार अवसर होगा। जिनके साथ भारत की पुरानी दोस्ती है। मैं इन देशों में रहने वाले भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करने के लिए भी उत्सुक हूँ। प्रधानमंत्री की रूस यात्रा को लेकर रूस में भारत के » शेष पेज 5 पर

एक दशक में मजबूत हुई सामरिक भागीदारी

उधर, रूस रवानगी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि बीते दस वर्षों में भारत और रूस के बीच विशेष और विशिष्ट सामरिक भागीदारी काफी आगे बढ़ी है। इसमें ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन और लोगों का लोगों को संबंधों को लेकर भी बेहतर ढंग से आदान-प्रदान किया गया है। मैं अपने मित्र और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े हुए सभी पहलुओं की समीक्षा करने के लिए तैयार हूँ। इस दौरान दोनों के बीच कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों को » शेष पेज 5 पर

inh
छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश का
सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल देखें
TATA PLAY | airtel
चैनल नं. 1155 | चैनल नं. 366

हरिभूमि
खहेली
आज के अंक के साथ

खबर संक्षेप

नीट-यूजी : महाराष्ट्र में एक व्यक्ति गिरफ्तार

नई दिल्ली। सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) में कथित 'हेरफेर' करने के आरोप में एक व्यक्ति को महाराष्ट्र के लातूर से गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस मामले में अबतक नौ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

घर में रखी लोड्डे रायफल से बच्चे की मौत

लखनऊ। कृष्णा नगर में 12 वर्षीय शिवा और अपने ममेरे भाई दिव्य दोनों खेल रहे थे। इस दौरान लोड्डे रायफल से खेलने लगे। आपसी छीना-झपटी में ट्रिगर पर उंगली चली गई और फायर हो गया। गोली सीधे शिवा के पेट में जा लगी। शिवा को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, दो को बचाया

गुवाहाटी। गुवाहाटी पुलिस ने एक अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए असम, बिहार और पश्चिम बंगाल के चार लोगों को गिरफ्तार किया तथा दो नाबालिग लड़कियों को बचा लिया। गुप्तचर आनुवंशिक विज्ञान ब्राह्म ने यह जानकारी दी।

एनटीए को दोबारा नीट-यूजी परीक्षा कराने का आदेश देने का आग्रह करने वाली याचिका पर बोला सुप्रीम कोर्ट

यह तो साफ है कि पेपर 'लीक' हुआ पर आउट होने की सीमा देखनी होगी

लीक की इस सीमा को देखने के बाद ही दोबारा परीक्षा लेने का हो सकता है फैसला क्योंकि, यह 23 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है

मामले में जो कुछ भी हुआ, उसकी जांच देश भर के विशेषज्ञों की एक बहु-अनुशासनात्मक समिति से कराई जानी चाहिए

एजेसी » नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को नीट-यूजी परीक्षा में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। याचिका में पांच मई को हुई परीक्षा रद्द करने, एनटीए को दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देने और अनियमितताओं के संबंध में कोर्ट की निगरानी में जांच किए जाने की मांग की गई।

कुछ याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट से दोबारा परीक्षा कराए जाने की मांग करते हुए कहा कि कसूरवार और बेकसूरों की पहचान करना संभव नहीं है। इस » शेष पेज 5 पर

» सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि केंद्र और एनटीए ने इस गड़बड़ी से किन किन छात्रों को फायदा पहुंचा? यह जानने के लिए क्या कार्रवाई की?

याचिकाओं में क्या मांग?

- 1 पांच मई को हुई परीक्षा रद्द की जाए दोबारा परीक्षा ली जाए
- 2 अनियमितताओं के संबंध में कोर्ट की निगरानी में जांच हो



कैसे संदेह पैदा हुआ?

पांच मई को हुई परीक्षा में कुल 67 छात्रों ने पूरे 720 अंक प्राप्त किए। यह एनटीए के इतिहास में अमूर्तपूर्व था। इसमें सूची में हरियाणा केंद्र के छह छात्र शामिल हैं। इसके बाद परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर संदेह शुरू हुआ। आरोप लगाया गया कि कृपांक के चलते 67 छात्रों को शीर्ष रैंक मिली। इसके बाद एनटीए ने एक जुलाई को संशोधित परिणाम घोषित किया। इसके बाद नीट-यूजी में शीर्ष रैंक वाले अभ्यर्थियों की संख्या 67 से घटकर 61 हो गई।

एनटीए मान चुका है कि पेपर लीक हुआ?

कोर्ट की सबूत वाली बात पर वकील ने आगे कहा कि एक तरफ एनटीए कह रहा है कि छोटे पैमाने पर गड़बड़ी हुई लेकिन दूसरी तरफ अलग-अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। इस पर कोर्ट ने पूछा कि यदि एनटीए मान चुकी है कि पेपर लीक हुआ? सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि एक जगह पर ऐसा मामला सामने आया है, उस मामले में भी आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है और जिन लोगों को फायदा मिला उनकी पहचान हो चुकी है।

शीर्ष कोर्ट ने सरकार पर दागे सवाल

- लीक होने के कारण कितने छात्रों के परिणाम रोकें गए? कोर्ट ने पूछा कि ये छात्र कहां हैं?
- भौगोलिक तौर पर ये छात्र कहां कहां हैं? क्या हम अभी भी गलत काम करने वालों का पता लगा रहे हैं और क्या हम लाभार्थियों की पहचान कर भी पाए हैं?
- हम ऐसे लोगों की पहचान कैसे करेंगे, जिन्हें इस धांधली का फायदा हुआ है? क्या हम काउंसिलिंग होने देंगे और अब तक क्या हुआ है?

कोर्ट ने दिए कई अहम निर्देश

- साइबर फोरेंसिक यूनिट को शामिल करने, एआई का उपयोग करके गलत काम करने वालों की संख्या का पता लगाने और उनके लिए फिर से परीक्षा की संभावना तलाशने के बारे में पूछा।
- कोर्ट ने सीबीआई को जांच की स्थिति बताते हुए रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।
- कोर्ट ने एनटीए को निर्देश दिया कि वह बताए कि प्रश्नपत्र पहली बार कब लीक हुआ। वह प्रश्नपत्र लीक होने की घटना और 5 मई को परीक्षा आयोजित होने के बीच की समय अवधि के बारे में भी बताए।

फिर 'डूब' गई मुंबई...बीएमसी निरुत्तर



50 उड़ानें रद्द, ट्रेन सेवाएं प्रभावित, स्कूल बंद हुए

मुंबई। हर बार बारिश आती है और मुंबई डूब जाती है। इतने बड़े लोग यहां रहते हैं पर कोई यहां के सीवेज प्लान को फिर से नहीं बनवा सका। मुंबई महानगर पालिका बारिश के सामने फिर से निरुत्तर है। पिछले 24 घंटों में मुंबई और उसके आस-पास के इलाकों में भारी बारिश हो रही है। शहर के कुछ इलाकों में सोमवार को रात 1 बजे से सुबह 7 बजे तक छह घंटों के भीतर 300 मिमी से » शेष पेज 5 पर

सैनी ने चुनाव प्रभारी धर्मेन्द्र प्रधान से भी की भेंट

नड्डा से मिले सीएम नायब कई मुद्दों पर की गई चर्चा

हरिभूमि ब्यूरो » नई दिल्ली

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं के बीच हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष की संभावित नियुक्ति के अलावा विधानसभा चुनाव से जुड़े मुद्दों पर बात हुई। फिलहाल नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। शाम



को हनुड्डा से ही मुलाकात से पहले सैनी ने हरियाणा भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेन्द्र प्रधान से भी भेंट की। चर्चा है कि आगामी 16 जुलाई को केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह महेन्द्रगढ़ में चुनावी दौरा करेंगे। भाजपा » शेष पेज 5 पर

उत्तराखंड कांग्रेस के 'ओवरहॉलिंग' की तैयारी, रावत समेत कई निपटेंगे

शिथिर सोनी » नई दिल्ली

उत्तराखंड कांग्रेस की लगातार खस्ता होती हालत पर शीर्ष नेतृत्व संजीदा हो गया है। जब देशभर में कांग्रेस की सेहत सुधरी है उत्तराखंड में पहले से बदनत रह रहा है। लोकसभा की पहले भी पांचों सीटें भाजपा ने जीती थीं, इस बार भी सभी पांच सीटें भाजपा जीतने में सफल हुईं। पीएल पुनिया के नेतृत्व वाली फेक्ट फाईंडिंग टीम जिस आधार पर रिपोर्ट तैयार कर रही है वो लुजपुंज



हरिभूमि विशेष

होती सांगठनिक स्थिति और बड़े नेताओं के बीच आपसी समन्वय का सर्वथा अभाव की ओर स्पष्ट इशारा कर रहा है। शुरुआती रिपोर्ट में कुछ नेताओं के कथन को उद्धृत करते हुए इस बात का साफ जिक्र किया गया है कि वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश

रावत समूचे आम चुनाव के वक्त सुबे के किसी इलाके में पार्टी प्रचार के लिए नहीं गए। हरीश रावत अपने बेटे वीरेंद्र को जिताने के लिए हरिद्वार में पसीना बहाते रहे। फिर भी वीरेंद्र 1 लाख 64 हजार वोटों के बड़े मार्जिन से भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से हार गए। शीर्ष नेतृत्व ने त्रिवेन्द्र सिंह रावत के खिलाफ हरीश रावत को लड़ने की सलाह दी थी। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने नेतृत्व को इस बात के लिए मना लिया था कि वे बेटे को जिता कर ले आएंगे। न वे बेटे को जिता पाए न पार्टी की कोई अन्य सीटों पर » शेष पेज 5 पर

इसरो की प्लानिंग है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 से ऑपरेशनल हो जाए

भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का नया डिजाइन आया सामने, 52 टन के 5 मॉड्यूल में... रहेंगे 6 लोग

इसकी ऊंचाई में इतना गैप इसलिए रखा गया है ताकि स्पेस में आने वाले पथरों कचरों और उल्कापिंडों से टकराने की नौबत में इसे ऊपर-नीचे किया जा सके

एजेसी » नई दिल्ली

भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का लेटेस्ट डिजाइन सामने आ गया है। इसमें 5 मेटालिक मॉड्यूल्स होंगे। इसका वजन दोगुने से ज्यादा कर दिया गया है। यह अब करीब 52 टन का होगा। यह 27 मीटर लंबा यानी 88.58 फीट और 20 मीटर चौड़ा यानी 65.61 फीट का होगा। जिसमें अधिकतम 6 एस्ट्रोनॉट्स रह सकते हैं। » शेष पेज 5 पर



400-450 किमी की ऊंचाई पर लगाएगा चक्कर

स्टेशन पर प्रोपेलेंट रीफ्यूइलिंग और सर्विसिंग की व्यवस्था होगी। नए तरह के एलियेक्ट्रिकल और कम्प्यूटेशन सिस्टम लगाए जाएंगे। साथ ही इन्वर्शियल कंट्रोल सिस्टम होगा। यह स्पेस स्टेशन धरती से ऊपर 400 से 450 किलोमीटर के ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। ऊंचाई में इतना गैप इसलिए रखा गया है ताकि स्पेस में आने वाले पथरों, कचरों और उल्कापिंडों से टकराने की नौबत में इसे ऊपर नीचे किया जा सके।

बिल बोले-2040 तक भारत का होगा स्पेस स्टेशन
पिछले साल ही अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा प्रमुख बिल नेल्सन भारत दौरे पर आए थे। बिल नेल्सन ने उस समय कहा था कि भारत के पास 2040 तक अपना स्पेस स्टेशन होगा। लेकिन संभावना है कि यह काम इससे काफी पहले पूरा हो जाए। यह एक कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन होगा। अगर भारत चाहेगा तो अमेरिका और नासा उनकी मदद के लिए पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन, यह फैसला भारत » शेष पेज 5 पर

सेना के वाहन पर आतंकी हमला

कटुआ में 5 जवान शहीद 6 घायल, मुठभेड़ जारी

घायलों का सेना के अस्पताल में इलाज चल रहा



हरिभूमि ब्यूरो » नई दिल्ली

जम्मू-कश्मीर के कटुआ जिले में आतंकवादियों ने सेना के वाहन पर हमला किया। इसमें सेना के चार जवान शहीद हो गए और छह अन्य घायल हैं। घायलों का सेना के अस्पताल में इलाज जारी है। यह घटना कटुआ के लोहि मल्हार ब्लॉक के मचहेड़ी क्षेत्र के बडनोटा गांव की है। इस हमले में आतंकियों ने न केवल सेना के वाहन पर गोलीबारी की। बल्कि उस पर एक ग्रेनेड भी फेंका। यह खबर लिखे जाने तक घाटी में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ चल रही थी। उधर, सूत्रों ने कहा कि इस हमले में तीन से चार आतंकी शामिल हैं। यहां बता दें कि बीते करीब साठ दिनों में सेना के

वाहन पर आतंकियों द्वारा किया गया यह दूसरा हमला है। इससे पहले पूंछ के शाहसितार इलाके में वायुसेना के काफिले पर भी आतंकवादियों ने हमला किया था। इसमें वायुसेना का कॉर्पोरल विक्की पहाड़े नामक एक जवान शहीद हो गया था और चार अन्य जवान घायल हुए थे। यह हमला उस वक्त हुआ जब वायुसेना का काफिला सुरनकोट इलाके में सुनाई टॉप की ओर बढ़ रहा था। बीते रविवार को भी आतंकवादियों ने राजौरी जिले के मंजाकोट इलाके में सेना के एक कैप पर हमला किया था। इसमें बल का एक जवान घायल हो गया था। हमले के बाद आतंकी घने जंगलों में भाग गए थे। सेना व अन्य सुरक्षाबल इनकी तलाश में इलाके में सघन तलाशी अभियान चला रहे हैं।

नर्सिंग होम में अग्नि सुरक्षा अनुपालन की जांच के लिए समिति गठित करें: हाईकोर्ट

एजेंसी ► नई दिल्ली

दिल्ली हाईकोर्ट ने लोगों, कर्मचारियों और मरीजों की सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए प्राधिकारियों को अग्नि सुरक्षा नियमों के अनुपालन के संबंध में शहर के कई नर्सिंग होम का निरीक्षण करने के लिए एक संयुक्त समिति गठित करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति संजीव नरला ने 2019 में दिल्ली सरकार द्वारा गठित एक उच्च-समिति से अग्नि सुरक्षा समेत विभिन्न कानूनों के अनुपालन के संबंध में नर्सिंग होम की स्थिति की समीक्षा करने और अदालत में एक अंतिम रिपोर्ट सौंपने

स्थिति की समीक्षा करने और एक अंतिम रिपोर्ट सौंपने का निर्देश



और तीन (दिल्ली दमकल सेवा) के साथ ही प्रतिवादी संख्या चार - दिल्ली विकास प्राधिकरण को आज से दो सप्ताह के लिए सभी नर्सिंग होम का निरीक्षण करने के लिए एक

सूची उपलब्ध कराए। उसने कहा कि जनता खासकर स्टॉफ और मरीजों की सुरक्षा सर्वोपरि है। नतीजतन, अदालत की तत्काल प्राथमिकता जन सुरक्षा सुनिश्चित करना और यह सुनिश्चित करना है कि कानून के अनुसार अग्नि सुरक्षा के मूलभूत उपकरण निजी नर्सिंग होम के परिसरों में उपलब्ध हों। प्राधिकारिता दिल्ली चिकित्सा संघ ने 2022 में दायर अपनी याचिका में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा अगस्त 2019 में जारी एक नोटिस को चुनौती दी है जिसमें दिल्ली दमकल सेवा को दिल्ली में सभी

निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम द्वारा उपलब्ध अग्नि सुरक्षा कदमों का ऑडिट करने का अनुरोध किया गया है।

अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी

याचिकाकर्ता ने कहा कि यह दिल्ली में निजी नर्सिंग होम के हितों का प्रतिनिधित्व करता है और तर्क दिया कि अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त करने का आदेश उन नर्सिंग होम पर लागू नहीं होता है जो आवासीय क्षेत्रों में 'मिश्रित-उपयोग' वाली भूमि पर संचालित किए जा रहे हैं। इस मामले पर अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी।

मानवता व धर्म के लिए भगवद् गीता: डीयू के हिंदू अध्ययन केंद्र में नए विषय आने की संभावना

एजेंसी. नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) का हिंदू अध्ययन केंद्र अपने विद्यार्थियों को वैकल्पिक विषयों के रूप में वैदिक साहित्य का परिचय, उपनिषद् परिचय, धर्म और रिलिजियन जैसे विकल्प देने की योजना बना रहा है। अपने पाठ्यक्रम का विस्तार करने और छात्रों को विकल्पों की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराने के लिए विभाग ने हिंदू अध्ययन में विशेषज्ञता हासिल करने के इच्छुक छात्रों के लिए छह नए वैकल्पिक विषय शुरू करने का प्रस्ताव दिया है और विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद से इनके अनुमोदन की प्रतीक्षा है। डीयू की अकादमिक परिषद की बैठक 12 जुलाई को होगी है। विशेषज्ञ हिंदू अध्ययन केंद्र की शासी निकाय की सिफारिशों के आधार पर प्रस्तावित है। अधिकारी ने बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त, हिंदू अध्ययन केंद्र अब हिंदू धर्म के विभिन्न पहलुओं पर विषय शुरू करने की योजना बना रहा है। इनमें मानवता के लिए भगवद् गीता, हिंदू विचार और पुराण परिचय पर शोधपत्र भी शामिल होंगे। प्रस्तावित वैकल्पिक विषयों के शिक्षण उद्देश्य में कहा गया है कि हिंदू विचारों पर आधारित शोध पत्र को उद्देश्य छात्रों को प्राचीन व आधुनिक समय के प्रतिष्ठित हिंदू विचारों के प्रमुख विचारों से परिचित कराना है। इनके अलावा, धर्म और रिलिजियन विषय पश्चिमी धर्मिक परंपराओं से तुलना करते हुए हिंदू अध्ययन और धर्म की आधारभूत अवधारणाओं का परिचय देते हुए उनका विकास करेगा।

मेट्रो में कथित पॉकेट मार की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

हरिभूमि न्यूज़ ► नई दिल्ली

दिल्ली मेट्रो के अंदर अक्सर कई ऐसे वाक्य होते रहे हैं जिसका वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चलता है। ऐसा ही एक नया वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक तथाकथित पॉकेट मार की एक व्यक्ति पिटाई कर रहा है। पिटाई खा रहा आरोपी लड़का बार बार माफी मांग रहा है।

उत्तम वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक युवक है जिसे एक अंधेड़ उम का व्यक्ति लात व थपड़ मार रहा है। जबकि आरोपी लड़का हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कर रहा है अंकल जी गलती नहीं हुई आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। जबकि अंधेड़ व्यक्ति अपने कंधे पर लटके हुए बैग को दूसरे यात्री को देता है और



लड़के को पहले लात मारता है। इस दौरान भी आरोपी लड़का माफी मांगते हुए दोबारा ऐसा कार्य (पॉकेटमार) नहीं करने की बात दोहराता रहता है। इसी बीच अंधेड़ व्यक्ति उसे थपड़ मारता है। जबकि वीडियो में आवाज भी आ रही है कि उसका मुंह दिखाओ लोगों को पता चले यह पर्स मारते हैं। इस पूरे मामले के दौरान कई सहयात्री मजे से अपने फोन से इस घटना को कैद कर रहे हैं। इस वीडियो की पुष्टि हरिभूमि नहीं करता कि यह कब, कहाँ और

'अपमानजनक' टिप्पणी के मामले में दिल्ली पुलिस ने लिखा पत्र

एक्स से महुआ मोड़रा की 'हटाई' जा चुकी टिप्पणी का विवरण मांगा

एजेंसी ► नई दिल्ली

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की प्रमुख रेखा शर्मा के बारे में 'अपमानजनक' टिप्पणी को लेकर तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोड़रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के एक दिन बाद, दिल्ली पुलिस ने सोमवार को सोशल मीडिया कंपनी 'एक्स' से लोकसभा सदस्य की अब हटाई जा चुकी टिप्पणी का विवरण मांगा।

मोड़रा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 79 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो किसी महिला का गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द का इस्तेमाल, भाव-भंगिमा या कृत्य करने से संबंधित है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता ने 'एक्स' पर पोस्ट किये गए एक वीडियो पर यह टिप्पणी की थी। वीडियो में, शर्मा उत्तर प्रदेश के हाथरस में मची भगदड़ स्थल पर चार जुलाई को



जाती हुई दिख रही थीं। हालांकि, मोड़रा ने बाद में उस पोस्ट को हटा दिया, जिसमें एनसीडब्ल्यू प्रमुख के साथ छटा पकड़ एक व्यक्ति के चलने का जिक्र किया गया था। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने 'एक्स' को पत्र लिखा है और 'सोशल मीडिया कंपनी से जवाब मिलने का इंतजार है। सूत्रों ने बताया कि पोस्ट का विवरण जांच के लिए जरूरी है, हालांकि जांचकर्ता इसका 'स्क्रीनशॉट' पहले ही ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर, आगामी दिनों में मोड़रा को तलब किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस



की 'इंटेलिजेंस प्युन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस यूनिट' को मालने की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूर्व में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि पुलिस आयुक्त को एनसीडब्ल्यू द्वारा दी गई एक शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी में कहा गया है कि एनसीडब्ल्यू ने मोड़रा की 'अपमानजनक टिप्पणी' का स्वतः संज्ञान लिया है। प्राथमिकी में कहा गया है कि मोड़रा की अभद्र टिप्पणी बेहद अपमानजनक है और यह गरिमापूर्ण जीवन जीने के महिलाओं के अधिकार का उल्लंघन करती है।

नहाते समय किशोरी का वीडियो बनाने का आरोपी गिरफ्तार

एजेंसी ► नई दिल्ली

दिल्ली के कापसहेड़ा इलाके में एक नाबालिग लड़की का नहाते समय वीडियो बनाने के आरोप में 25 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के निवासी अनूप कुमार के रूप में हुई है। वह दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के एक फार्माहाउस में माली का काम करता था।

पुलिस उपायुक्त (दक्षिण-पश्चिम) राहित मीना के अनुसार, 15 वर्षीय लड़की ने शिकायत दर्ज कराई कि वह सात जुलाई को दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सलापुर खेड़ा स्थित अपने घर में नहा रही थी, तभी उसे बाहर किसी की

मोड़रा की अहसास हुआ। उन्होंने कहा कि लड़की के शोर मचाने पर कुमार भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन नाबालिग के परिवार के सदस्यों और कुछ पड़ोसियों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि कापसहेड़ा थाने की एक टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध को पकड़ लिया। मीना ने कहा कि जब उसके मोबाइल फोन की जांच की गई तो उसमें कुछ आपत्तिजनक वीडियो मिले। पुलिस ने बताया कि आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 77 (किसी महिला की सहमति के बिना उसकी निजी तस्वीरें बनाना, देखना या प्रसारित करना) और यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम अधिनियम की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

आबकारी नीति घोटाला : के कविता 'डिफॉल्ट' जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंची

नई दिल्ली। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के कविता ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े अटॉर्नी के मामले में 'डिफॉल्ट' जमानत के अनुरोध के साथ सोमवार को दिल्ली की एक अदालत का रुख किया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश कान्हेरी बावेजा ने जमानत याचिका पर सीबीआई का रुख जानना चाहा, जिसमें दावा किया गया था कि कविता को 'डिफॉल्ट' जमानत दी जानी चाहिए, क्योंकि जांच एजेंसी ने 60 दिनों की निर्धारित समय सीमा के भीतर 'असुर्य' आरोपपत्र दखिल किया है। वहीं, निवृत्ती अदालत ने मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दखिल तीसरे आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के संबंध में भी आदेश सुरक्षित रखा। जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी, जबकि निवृत्ती अदालत ने कहा कि वह आरोपपत्र पर संज्ञान के मुद्दे पर 15 जुलाई को आदेश सुनाएगी। सीबीआई ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के दक्षिण रव की बेटी कविता को अप्रैल में तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। प्रकृत निदेशालय (ईडी) द्वारा कथित घोटाला मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद से वह तिहाड़ में बंद है।

शिक्षित युवा-सम्मानित व कुशल हुआ

कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा कौशल भवन, पॉस्ट नं. आई.पी-2, सेक्टर-3, मार्ग चौक, पंचकुला। www.itihiaryana.gov.in

आई.टी.आई. पास उम्मीदवारों को अप्रेंटिसशिप करने का सुनहरा अवसर हरियाणा सरकार के अधीन सभी विभागों, बोर्ड, कॉरपोरेशन एवं निगमों आदि के कार्यालयों में अप्रेंटिस एक्ट, 1961 के तहत ट्रेड अप्रेंटिस लगने के लिए आई.टी.आई. पास इच्छुक उम्मीदवार पोर्टल www.apprenticeshipindia.gov.in पर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड कार्यालयों में अप्रेंटिस लगने हेतु पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2024 की प्रथम अनुसूची के द्वितीय चरण के लिए दिनांक 13.07.2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। द्वितीय चरण के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदनों ही विचार किया जाएगा जिसका विस्तृत विवरण विभागिय बैकसाइट www.itihiaryana.gov.in पर उपलब्ध है। आई.टी.आई. पास उम्मीदवार हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी हो या दसवाँ कक्षा हरियाणा राज्य से पास की हो या उम्मीदवार चंडीगढ़ (यू.टी.) का स्थाई निवासी हो और उसने हरियाणा या चंडीगढ़ में स्थित, किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से एन.सी.वी.टी. / एस.सी.वी.टी. के तहत आई.टी.आई. कोर्स पास किया हो। प्रत्येक प्रतिष्ठान में अप्रेंटिसशिप हेतु उपलब्ध सीटों के प्रति 20 प्रतिशत सीटों पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को एवं 27 प्रतिशत सीटों के प्रति पिछड़ी श्रेणी के उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन में स्वयं की Email ID, अपना मोबाइल नं. व अपना आधार नंबर सही दर्ज करें। पोर्टल द्वारा सभी सूचनाएं उम्मीदवारों को ई.मेल. / मोबाइल नं. पर ही भेजी जाएगी। किसी भी जानकारी के लिए निकतम राजकीय आई.टी.आई. संस्थान में संपर्क कर सकते हैं।

प्री.आर.टी.ए-1065/11/112/2025/27593/88/7 दि. 08.07.24 महानिदेशक

व्यक्ति की हत्या करने के मामले में तीन गिरफ्तार

एजेंसी ► नई दिल्ली

उत्तरी दिल्ली में पैसों के विवाद में 38 वर्षीय व्यक्ति की हत्या करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों के मुताबिक, आरोपियों की पहचान चंद्रपाल भाटी (48) और उसके दो दोस्तों विनय भाटी (24) और ओमबीर सिंह भाटी (36) के रूप में हुई है। उत्तर दिल्ली के पुलिस उपउपनि (डीसीपी) एम.के. मीना ने कहा कि पांच जुलाई को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास एक शख्स की हत्या की सूचना कोतवाली थाने को मिली थी। मौके पर एक टीम भेजी गई और मृतक को पहचान गौरव ठाकुर के रूप में हुई, जो रेलवे स्टेशन के पास छोटी दुकानों को पानी बेचता था। डीसीपी के मुताबिक, दो टीम गठित की गई

तथा 30-35 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की गई। उन्होंने बताया कि टीम को पता चला कि ठाकुर को आखिरी बार चार जुलाई को चंद्रपाल, विनय और ओमबीर के साथ देखा गया था। पुलिस के अनुसार, तीनों को रविवार को

दिल्ली के सीमापुरी और उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से पकड़ा गया। पुलिस ने बताया कि तीनों ने दावा किया कि ठाकुर ने चंद्रपाल भाटी से उधार लिए ढाई लाख रुपये वापस नहीं किए थे। डीसीपी ने बताया कि चंद्रपाल ने अपने साथियों ओमबीर और विनय के साथ मिलकर दो देसी तमचों का इंतजाम किया और ठाकुर को शराब पीने के लिए बुलाया तथा इसी दौरान चंद्रपाल ने उसकी गर्दन में गोली मार दी और वहां से फरार हो गया। डीसीपी ने बताया कि उनके पास से दो देसी तमचे और एक कार बरामद की गई है।

IndusInd Bank

Office address: 43, Bhageria House, New Friends Colony, New Delhi - 25

Hypothecated Repossessed Vehicle Auction/Sale Notice to General Public

IndusInd Bank Ltd. is inviting Quotations in sealed Envelope from General Public for the auction of below vehicles as per below mentioned Specification on "AS IS WHERE IS BASIS" Vehicle's Model & Registration No. Given Below

Deal No	Customer Name	Registration No	Engine No	Chassis No	Model	Year of Mfg
DAS00836G	VIPIN	DL1LAJ4093	275CNG17HXXSAB762	MAT556002MVH45508	Tata Ace Gold Cng Bs V	2022
DAS00841G	GUDDU	DL1LAJ3037	275CNG17NXXSG2405	MAT556004VMN67758	Tata Ace Gold Cng+ Bsvi	2022
DAS00709G	ASHOK	DL1LAH4374	LHN6D20561	MA1FN21LHRN6D0740	M & M Supro Minitruck Rls Cng Bs Vi	2020
DNG02031G	JAI	DL1LAB0722	275CNG16ARVY503895	MAT445315JVA02087	ACE GOODS 0.75 TON	2022
DNG02354G	RAJESHKUMAR	DL1LAF8766	G12BN1026365	MA3ZELF1T00219733	MARUTI SUPER CARRY CNG BS VI	2021
DNG02401G	MANOJ	DL1LAG1373	275CNG17PYXSD5859	MAT556002MVP67403	TATAACE GOLD CNG BS VI	2022
DNG02834G	SAJID	DL1LAL5384	275CNG18GVXSB8989	MAT556012PVG37672	TATAACE GOLD CNG BS VI	2023
DDV01562G	RAMESH	UP16HT6885	275CNG17PYXSD9336	MAT556002MVP68611	TATAACE GOLD CNG 3S VI	2022
DDP02081G	KAILASH	HR73B8837	AZXWPC33231	MD2847AX5PWC29263	BAJAJ RE CNG 4S FI BS VI	2023
DDP01922G	SALAUDDIN	HR74B6797	AZXWPL79481	MD2347AX3PWL3282	BAJAJ RE CNG 4S FI BS VI	2023
DAAD2693G	SIDDHARTH	UP80HT0931	AZXWPC32499	MD2847AX5PWC29038	BAJAJ RE CNG 4S FI BS VI	2023
DAAD2543G	AKASH	UP80GT4991	AZXWVH91707	MD2B25AX2NWJH34085	BAJAJ MAXIMA CARGO CNG	2022
DAAD2584G	SUNVEER	UP80GT7538	AZXWPM12181	MD2B25AX2PWW39228	BAJAJ MAXIMA CARGO CNG	2023
DJS00249G	IRSHAD	UP19A02116	1.5CRAL05GXSS93028	MAT453542F7J15249	Tata Intra V30 Bs Vi	2022
DDF01502L	S AJAY	AS01NC0185	E446CDMA012255	MC2ERLRCOMA188324	EICHER 2110 L CBC 22FT CBR PRM 7S BS VI	2021
DDF01605L	S RAVI	HR33AB1551	E416NCMG354888	MC2EBGRCOMG493513	EICHER PRO 2095 XP G HSD PS CNG BS VI	2021
DDM01162L	K RAVI	DL1LW3833	497TC92JUY833187	MAT453542F7J15249	TATA LPT 709 EX BS IV	2023
DDM01192L	B NARESH	DL1LAJ5655	NPH011140P	MB1AA23E1PRNF0919	AL DOST CNG LS FSD BS 6	2023
DDP00768L	S NARENDER	HR73B5647	3.3LNG05AWX503013	MAT843002P7A02293	TATA 1815 LPT DCR 48 HSD 155 B6 M5	2022
DDV01997L	V YIRENDRA	UP14LT8018	3.8SGJ79EXX81113	MAT812028M5F09237	TATA 1109G LPT 49 HSD CNG BS VI	2023
DDV02256L	K SHARIK	UP16KT1584	K12NNA000512	MA3JD708BPAB14588	MARUTI ECCO CARGO CNG BS6	2023
DDZ02282L	A CHABED	DL1LAJ2160	UKN1J28522	MA1ZNY2UKJN1J84480	BOLEPRO PIK-UP CNG PS BS VI	2022
DSG000496L	K MUKESH	DL1LAJ0293	UKN1G27373	MA12P2UKJN1G71074	BMT PLUS CNG PS BS VI	2022

The Person who are willing to purchase above Mentioned vehicles may contact IndusInd Bank Ltd. to above mentioned and submit the Quotation in special format within 7 days of this Publication Notice. It shall be the responsibility of the purchaser to pay the tax arrears, Parking of the vehicle. He will also be responsible to Complete all the RTO formalities relating to ownership transfer his name. Bank will not be responsible for any dispute relating to the vehicle after its sale, bank has authority to cancel the auction at any stage without giving any prior notice. The Vehicle will be sold to higher Bidder and the decision of bank shall be Final & Binding to all in this regards.

Please : New Delhi

Contact Person : Yogesh Saini, Mob.No: 8560862245

निवारी कांड : सुरेंद्र कोली को बरी करने के आदेश के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई को सहमत हुआ सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के राजकीय निवारी हत्याकांड में सुरेंद्र कोली को बरी करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सुनवाई के लिए सोमवार को सहमत जताई। न्यायमूर्ति बी आर जगई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने हाईकोर्ट के 16 अक्टूबर, 2023 के फैसले के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की अलग-अलग याचिकाओं पर कोली से जवाब मांगा। शीर्ष अदालत ने मई में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाले एक पॉइंट के पिता की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई थी।

हरियाणा लोक सेवा आयोग

बेज नं. 1-10, ब्लॉक-बी, सेक्टर-4, पंचकुला

विज्ञापन सं. 17/2024 प्रकाशन की तिथि : 06.07.2024

आयोग निम्नानुसार विवरण सहित निम्नलिखित पद के लिये पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है :-

i) पद का नाम : महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा में न्यूट्रीशियनस्ट (महिला) राजपत्रित।

ii) पदों का श्रेणीवार विभाजन :

श्रेणियां	पदों की सं.
सामान्य / अनारक्षित	01
कुल	01

(ए) ऑनलाइन आवेदन जमा करवाने हेतु प्रारम्भिक तिथि : 10.07.2024

(बी) ऑनलाइन आवेदन जमा करवाने हेतु अन्तिम तिथि : 30.07.2024 अप. 11:55 बजे तक

(सी) शुल्क जमा हेतु अन्तिम तिथि : 30.07.2024 अप. 11:55 बजे तक

अधिक जानकारी के लिये <http://hpsc.gov.in> पर लॉग ऑन करें।

हस्ता/- सचिव

दिनांक : 05.07.2024 हरियाणा लोक सेवा आयोग

संवाद-1156/13/258/2025/27554/88/7 दि. 08.07.24 पंचकुला

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग

बेज नं. 67-70, सेक्टर-2, पंचकुला-134151

(www.hssc.gov.in)

सार्वजनिक सूचना

ग्रुप-डी पदों, विज्ञा. सं. 01/2023 हेतु करेक्शन पोर्टल ऑफ (सीईटी)-2023, हरियाणा के सम्बन्ध में उम्मीदवारों को सूचना

सूचना दिनांक 06.07.2024 के तहत सीईटी ग्रुप-डी के संशोधित परिणाम की घोषणा के संदर्भ में, उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि दर्शाई गई उनकी श्रेणियां बिल्कुल वही हैं जो दिनांक 12.01.2024 को एनटीए द्वारा घोषित परिणाम में थी।

इसके अतिरिक्त, यह उम्मीदवारों की जानकारी हेतु है कि उनकी श्रेणी के सम्बन्ध में उम्मीदवारों से आग्रहों पर विचार करते हुए, आयोग ने एक बार फिर सीईटी-ग्रुप डी हेतु करेक्शन पोर्टल लॉच करने का निर्णय लिया है। उम्मीदवारों को 06.07.2024 से 08.07.2024 (अप. 11:59 बजे) तक लिंक <https://groupdcorrection.hryssc.com> का उपयोग करते हुए करेक्शन पोर्टल पर पधारने का परामर्श दिया जाता है। उम्मीदवारों को विज्ञा. सं. 01/2023 के अरूप कट ऑफ तिथि को या इससे पूर्व जारी किये गये उनके दावे के समर्थन में वैध दस्तावेज अपलोड करना अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए।

उम्मीदवारों द्वारा लॉगइन के पश्चात करेक्शन पोर्टल में दर्शाये अनुसार श्रेणियां, 26.02.2024 से 29.02.2024 तक खुले करेक्शन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त वैध दस्तावेज द्वारा समर्थित उम्मीदवारों के आग्रहों के पश्चात जैसे अद्यतन किए गए थे, वे हैं। जिन उम्मीदवारों को अब भी उनकी श्रेणी से सम्बन्धित कोई शिकायत है, उपरोक्त लिंक पर पधार कर इसको जमा करवा सकते हैं।

श्रेणी के करेक्शन के सम्बन्ध में कोई आग्रह आयोग के कार्यालय में भौतिक रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

स्थान : पंचकुला हस्ता/- सचिव

दिनांक : 06 जुलाई 2024 हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग

संवाद-1159/13/635/2025/27590/88/7 दि. 08.07.24 पंचकुला

पावरग्रिड POWERGRID

सूचना

1. उपरोक्त नामित आवेदक ने केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के सम्म चरती क्षेत्र के लिए केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत-संचार योजना में 22 प्रतिशत अंशों के लिए 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ के निर्धारण सह जुड़ने अथवा अथ 2024-29 टैरिफ ब्लॉक के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ के निर्धारण हेतु आवेदन किया है।

2. उपरोक्त पाठ्य प्रणाली की संयुक्त परिचयपत्रों के सम्बन्ध में: (1) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (2) वायुपु विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (3) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (4) पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (5) हरियाणा पावर प्रजेक्ट्स सेंटर (6) जम्मू कश्मीर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (7) उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (8) बीएचएस यमुना पावर लिमिटेड (9) बीएचएस राजधानी पावर लिमिटेड (10) उत्तर प्रदेश विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (11) ब्रह्मपुत्र विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (सीईटी) (12) उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (13) नार्थ सेंट्रल रेलवे (14) नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (15) हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बॉर्ड।

3. क्र.सं. उल्लेख विवरण

1	परिचयपत्र की स्वीकृत कृप पंजी लागत (रुपये करोड़ में)	246.56 करोड़
2	वाणिज्यिक परिचयपत्र की निर्धारित तिथि	04.11.2021
3	वाणिज्यिक परिचयपत्र की तिथि	01.04.2024
4	DOCO पर सूचीगत लागत (रुपये करोड़ में)	197.40 करोड़

4. टैरिफ का निर्धारण: 2019-24 (एचसीटी 2 अंश) और 2024-29 (एचसीटी): (रु. लाख में)

संचालित का नाम	2019-20	2020-21
----------------	---------	---------

खबर संक्षेप

डीटीसी ने शुरू किया मोहल्ला बस सेवा का परिचालन

नई दिल्ली। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने दिल्ली के लोगों के लिए मोहल्ला बस सेवा का परिचालन शुरू कर दिया है। इस बारे में डीटीसी के जनसंपर्क प्रबन्धक राकेश कुमार ने बताया कि निगम ने पहली मोहल्ला बस सेवा प्रयोग के रूप में शुरू कर दी है। इस पहल के तहत डीटीसी ने 9 मीटर प्रोटो टाइप इलेक्ट्रिक बस के माध्यम से रूट संख्या एमएस-1 के रूप में चलाया है। यह रूट यमुनापार स्थित अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन से मयूर विहार तक चलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि रूट संख्या एमएस-1 अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन से मयूर विहार फेज-3 पैपर मार्केट तक चलेगी। जिसमें पहली मोहल्ला बस सेवा एमएस-1 अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन से शुरू होकर वाया मयूर विहार फेस-1 मेट्रो स्टेशन, त्रिलोकपुरी-36 ब्लॉक, त्रिलोकपुरी-26 ब्लॉक, त्रिलोकपुरी-13 ब्लॉक, चाँद सिनेमा, कल्याणपुरी क्रॉसिंग, कंडोली मोड़, राजवीर कॉलोनी पुल नंबर-1, गाजीपुर थाना, घड़ोली एक्सटेंशन, सपेरा बस्ती से होकर मयूर विहार फेस-3 पैपर मार्केट पहुंचेगी।

कई दिन बाद अमोनिया की मात्रा हुई सामान्य

नई दिल्ली। यमुना नदी में कई दिनों बाद अमोनिया की मात्रा सामान्य होने के बाद सोमवार को वजीराबाद जल शोधन संयंत्र अपनी पूरी क्षमता के साथ चला। जिसके बाद वजीराबाद जल शोधन संयंत्र ने अपनी तय क्षमता 131 एमजीडी से अधिक कच्चे जल का शोधन किया। इस बारे में डीजेबी के समर एक्शन प्लान से जुड़े एक आला अधिकारी ने बताया कि अब यमुना में अमोनिया की मात्रा सामान्य स्तर पर आ गई है। अमोनिया घटने के बाद वजीराबाद जल संयंत्र ने अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य करना शुरू कर दिया है। अधिकारी की माने तो सोमवार को संयंत्र ने अपनी तय क्षमता से एक एमजीडी ज्यादा 132 एमजीडी कच्चे जल का शोधन किया। जिसके बाद वजीराबाद संयंत्र से जुड़े क्षेत्रों में पाइप लाइन से की जाने वाली आपूर्ति भी सामान्य हो गई है। बता दें कि यमुना में बुधवार शाम अमोनिया की मात्रा बढ़ने से वजीराबाद संयंत्र में जल शोधन का कार्य बुरी तरह प्रभावित हो गया था। शोधन प्रभावित होने से दर्जनों क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो रही थी।

मोहम्मद जुलूस के मार्गों पर नीचे लटकते बिजली के तारों को व्यवस्थित किया जाए : इमरान

हरिभूमि न्यूज ►► नई दिल्ली

दिल्ली के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री व बल्लिमानन के विधायक इमरान हुसैन ने आगामी मुहर्रम के सफल आयोजन को लेकर दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों/ एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में मंत्री इमरान हुसैन ने बीएसईएस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि एरिया में कोई भी तार नीचे लटकता न पाया जाये एवं जुलूस मार्गों का सक्रिय रूप से निरीक्षण किया जाना चाहिए और सभी कम हाइट वाले तारों को तुरंत व्यवस्थित किया जाये। इसके साथ ही बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों/मास्ट लाइटों को ठीक करने तथा जुलूस मार्ग धार्मिक स्थलों सहित पूरे एरिया में



खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने समीक्षा बैठक में बीएसईएस के अधिकारियों को दिए निर्देश

अतिरिक्त स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। इस बैठक में राजस्व विभाग, बीएसईएस, स्वास्थ्य, वन विभाग, एमसीडी, दिल्ली जल बोर्ड, हॉर्टिकल्चर, पीडब्ल्यूडी और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान धार्मिक समिती के सदस्य भी मौजूद रहे।

शिक्षा मंत्री आतिथी ने तबादले के आदेश के पीछे भाजपा की साजिश का लगाया आरोप

ये शिक्षक 10 वर्ष से अधिक समय से एक ही स्कूल में हैं तैनात

हरिभूमि न्यूज ►► नई दिल्ली

दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेशों पर कार्रवाई करते हुए पांच हजार शिक्षकों के तबादले का आदेश सोमवार को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया। ये शिक्षक 10 वर्ष से अधिक समय से एक ही स्कूल में तैनात हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिथी ने तबादले के आदेश के पीछे भाजपा की साजिश का आरोप लगाया।

गौरतलब है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रविवार को मुख्य सचिव नरेश कुमार को तबादले के आदेश को कुछ वक्त के लिए स्थगित करने का निर्देश दिया। यह तबादला आदेश पिछले सप्ताह जारी किया गया था। उपराज्यपाल ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दिल्ली इकाई के नेताओं और शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद एक अंतरिम उपाय के रूप में तबादले के आदेश को कुछ वक्त के लिए स्थगित रखने का निर्देश दिया।

वहीं दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिथी ने सोमवार को आयोजित प्रेसवार्ता में आरोप लगाया कि दिल्ली में हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्ष में सरकारी विद्यालयों को



भाजपा जितने भी षडयंत्र कर लें लेकिन हम दिल्लीवालों के लिए लड़ते रहेंगे

उन्होंने कहा कि, भाजपा दिल्ली वालों को परेशान करने के लिए, उनके काम रोकने के लिए चाहे जितने भी षडयंत्र कर लें, लेकिन अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली वालों के लिए लड़ती रहेगी। हमें चाहे जितना संघर्ष करना पड़े हम दिल्लीवालों के लिये लड़ते रहेंगे। आतिथी ने कहा कि, मैं भाजपा से कहना चाहती हूँ कि, ये दिल्ली सरकार के स्कूलों की बर्बाद करने के लिए कितने भी षडयंत्र रच लें लेकिन जब तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो दिल्लीवालों के लिए लड़ते रहेंगे, उनके काम करते रहेंगे।

बदलकर रख दिया है। यहां पढ़ रहे विद्यार्थियों के नतीजे कीर्तिमान बना रहे हैं। भाजपा को यह बदलाव हजम नहीं हो रहा इसलिए शिक्षा के इस क्रांतिकारी बदलाव को दबाने के लिए भाजपा ने शिक्षकों के तबादले की साजिश रची। उन्होंने आदेश वापस लिये जाने के लिए दिल्ली के लोगों को शुभकामनाएं भी दीं।

आतिथी ने कहा कि आज दिल्ली के शिक्षक और जनता जीत गई। शिक्षा विभाग ने एक आधिकारिक आदेश में कहा कि शिक्षा निदेशालय द्वारा हाल ही में जारी तबादले के आदेश के मामले में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। यह अभ्यावेदन उन शिक्षकों से संबंधित हैं, जो एक ही स्कूल में 10 वर्ष से अधिक समय तक कार्यरत हैं। आदेश के मुताबिक अभ्यावेदनों को पढ़ने और प्रतिनिधिमंडल की बातें सुनने के

बाद सक्षम प्राधिकारी ने एक समिति गठित करने का फैसला किया है, जिसमें सभी हितधारकों के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल होंगे ताकि मामले पर समग्र, सहानुभूतिपूर्ण और निष्पक्ष दृष्टिकोण तैयार किया जा सके। आदेश में बताया गया कि इसलिए अगले आदेश तक दो जुलाई 2024 को जारी शिक्षकों के तबादले के आदेश को स्थगित किया जाता है।

भाजपा अपने शासित राज्यों में दिल्ली की तरह नहीं ला पाई शिक्षा क्रांति

आतिथी ने कहा कि ऐसी शिक्षा क्रांति भाजपा अपने शासित किसी राज्य में नहीं ला पाई है। भाजपा शासित गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश इन सभी राज्यों में सरकारी स्कूल जिसे टूटे-फूटे हाल में है। यहां गरीब से गरीब परिवार भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेजना चाहते। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल सरकार है, जिसके 10 साल की मेहनत की बदौलत आज दिल्ली में सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर है, उनके नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर है। पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकालकर सरकारी स्कूलों में एडमिशन करवा रहे हैं।

सिसोदिया और आतिथी ने दिल्ली की स्कूल शिक्षा प्रणाली को कर दिया है क्षतिग्रस्त : भाजपा

नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनोष सिसोदिया और शिक्षा मंत्री आतिथी की जोड़ी ने दिल्ली की स्कूल शिक्षा प्रणाली को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है। उन्होंने न तो नियमित शिक्षकों की भर्ती की है और न ही अतिथि शिक्षकों की। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को लेकर उक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि इसके बजाय, सिसोदिया और आतिथी ने शिक्षकों को गैर-शिक्षण कार्यों में तैनात कर दिया है, जिससे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षक-छात्र अनुपात सबसे खराब हो गया है। चौकाने वाली बात यह है कि स्कूल शिक्षकों को लिपिकीय कार्य करने, कानूनी सहायकों के रूप में काम करने और वरिष्ठ अधिकारियों के ओएसडी के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। 16 हजार शिक्षकों की कमी के बावजूद सिसोदिया-आतिथी की जोड़ी ने लगभग 5000 शिक्षकों को शिक्षण कर्तव्यों से हटा दिया है। सचदेवा ने कहा कि यह अफसोसजनक है कि जिन्होंने दिव्य स्तरीय शिक्षा मॉडल विकसित करने का दावा किया है, उन्होंने वास्तव में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के मानक को कम कर दिया है। शिक्षक बेहद निराशाजनक परिस्थितियों में काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कक्षा 9 और 11 के छात्रों को फेल करने के लिए मजबूर किया जाता है। केजरीवाल सरकार स्कूलों का फंड दुरुपयोग कर पहली बार मतदाताओं को राजनीतिक रूप से प्रभावित कर रही है।

केजरीवाल सरकार शिक्षा सहित हर मुद्दे पर हुई बुरी तरह फेल साबित : देवेद

नई दिल्ली। शिक्षकों के तबादले के मुद्दे पर सोमवार को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेद यादव ने कहा कि गत 10 वर्षों में केजरीवाल सरकार शिक्षा सहित जनता से जुड़े हर विषय को हल करने में बुरी तरह फेल साबित हुई है। आज हालात यह हैं कि भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर शिक्षकों की द्रोणपुर की साधारण प्रकिया को बतौर राजनीतिक इवेंट बनाकर पेश कर रहे हैं। देवेद ने कहा कि राजधानी की मूल समस्याओं जैसे जल संकट, जल मराव, गंदगी, अष्टाचार से ध्यान अटकाने के लिए के द्रोणपुर पर जमकर राजनीति खेली। उन्होंने आश्चर्य जताते हुए कहा कि उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली सरकार के स्कूल के टीचरों के इतनी बड़ी संख्या में द्रोणपुर की जानकारी शिक्षा मंत्री को नहीं होना पूरी शिक्षा व्यवस्था पर केजरीवाल सरकार की निष्पक्षता और दृढ़ता का जीता जाना उदाहरण है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था भी चरमरा गई है। उन्होंने सवाल उठाए कि शिक्षा व्यवस्था में टीचरों के द्रोणपुर की प्रकिया वीष्कालीन अवकाश में होनी चाहिए थी। फिर ऐसे में उपराज्यपाल कार्यालय ने सेवानिवृत्त होने के समय ही द्रोणपुर क्यों किया, जिससे बच्चों को पढ़ाई का नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च शिक्षा व्यवस्था की दुहाई देने वाली शिक्षा मंत्री आतिथी शाब्द भूल गई हैं कि 10वीं और 12वीं के परीक्षामें दिल्ली शिक्षा पाठशाला पर फिर गई है। उन्होंने कहा कि एक षडयंत्र के तहत दिल्ली सरकार के स्कूलों के छात्रों की पढ़ाई को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसकी विंता न भाजपा को है और न ही शिक्षा मंत्री आतिथी को।

तीन जनों में एमसीडी ने चलाया पीला पंजा

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम में नए आयुक्त अश्विनी कुमार के पद संभालने के बाद दिल्ली में सड़कों पर बढ़ रहे स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण को लेकर दिल्ली नगर निगम प्रशासन सख्त दिख रहा है। इसे लेकर सोमवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत अतिक्रमण के विरुद्ध 3 जनों में निगम प्रशासन ने जैसीबी नशीन चलाई। नागरिक व्यवस्था और स्वच्छता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए निगम ने शाहदरा उत्तरी, नजफगढ़ और सिविल लाइन्स जनों में व्यापक स्तर पर यह अभियान चलाया और करीब दो किमी तक के मार्गों को स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण से मुक्त कराया। निगम प्रशासन ने बताया कि इसके तहत शाहदरा उत्तरी जोन ने सामान्य शाखा के नेतृत्व में मेट्रोनेस डिवीजन ने पुलिस बल की सहयता से स्थायी नागरिकों की लखित शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए सीलमपुर वाई संख्या 225 में फूट मार्केट, मंदिर रोड और उसके आस पास स्थानीय दुकानदारों और रेहड़ी पट्टरी वालों द्वारा अनाधिकृत रूप से फुटपाथ पर किये हुए लगभग दो किलोमीटर की दूरी तक के स्थाई और अस्थायी अतिक्रमण को जैसीबी और ट्रक की सहयता से हटाया। इस क्षेत्र में दोबारा अतिक्रमण न हो, इसके लिए सबन्धित लाइसेंसिंग इन्स्पेक्टर को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं।



'कांग्रेस ने हमेशा गरीबों को बसाने का किया काम'

हरिभूमि न्यूज ►► नई दिल्ली

यमुना खार में डीडीए द्वारा तोड़े गए रिहायशी निर्माण को लेकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी ने कभी गरीबों को उजाड़ने का कार्य नहीं किया है। बल्कि कांग्रेस ने हमेशा गरीबों को दिल्ली में बसाने का कार्य किया है। लेकिन केंद्र व दिल्ली सरकार गरीबों को उजाड़ रही है। इस बारे में प्रदेश अध्यक्ष देवेद यादव ने कहा कि 10 वर्ष केंद्र में यूपीए की सरकार और 15 वर्ष दिल्ली में कांग्रेस शोला दीक्षित सरकार ने कभी गरीबों पर आंच नहीं आने दी थी। वर्ष 2007 में अनाधिकृत कालोनियों पर बुलडोजर की तलवार लटकी थी उस समय यूपीए सरकार ने कानून बनाकर उन्हें संरक्षित किया जिसके



कारण दिल्ली के 45-50 लाख लोगों के घर सुरक्षित है। जबकि शोला दीक्षित सरकार ने प्रोविजनल सर्टिफिकेट देकर उनके मकानों को पूरी तरह से संरक्षित करने का काम किया था। लेकिन वर्तमान में केंद्र व दिल्ली सरकार मिलकर गरीबों को उजाड़ रही है। वहीं इस बारे में प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष चो. अनिल कुमार ने प्रेसवार्ता में कहा कि यमुना किनारे चिल्ला खार में खेती बाड़ी करके अपना जीवन चलाने वाले

लोगों को डीडीए ने उजाड़कर अमानवीय कार्य किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि डीडीए द्वारा कोर्ट के आधे आदेश का पालन करके यहां लगभग 200 घरों को उजाड़ दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब कोर्ट के आदेश स्पष्ट है कि इनको हटाने से पहले सरकार इनके पुर्नवास का इंतजाम किया जाए। बावजूद इसके बिना वैकल्पिक व्यवस्था के डीडीए ने शाम को नोटिस लगाया और सुबह पांच बजे

बुलडोजर चलाया। उन्होंने कहा कि ओखला बेराज से लेकर चिल्ला खार तक लगभग 1500 परिवार खेती बाड़ी करके अपना जीवन चला रहे हैं और सरकार इनके मकान तोड़ने पर उतारू है। चौ. अनिल ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा और आम आदमी पार्टी सरकारों ने गरीब झुग्गी झोपड़ी वालों पर सबसे ज्यादा प्रहार किया है। चाहे रेलवे पट्टी पर बसी झुग्गियां हो, निजामुद्दीन की झुग्गियां हो, शकूरबस्ती की झुग्गियां, संगम विहार आदि जहां पर भी दिल्ली सरकार, डीडीए अथवा दिल्ली नगर निगम ने बुलडोजर चलाया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा की तरह अब भी गरीबों की आवाज बनकर उनकी लड़ाई को सड़क से लेकर

केजरीवाल के सपने 'स्वच्छ और कूड़ा मुक्त दिल्ली' को करना है पूरा : महापौर

हरिभूमि न्यूज ►► नई दिल्ली

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 'स्वच्छ और कूड़ा मुक्त दिल्ली' के सपने को पूरा करना है। नागरिकों को भी निर्धारित स्थानों और संग्रह केंद्रों पर कूड़ा फेंककर सहयोग करना चाहिए। दिल्ली नगर निगम की महापौर डॉ. शैली ओबरोय ने नेता सदन मुकेश गोयल के साथ निगम मुख्यालय सिविक सेंटर में स्वच्छता मामले में निगम के आलाधिकारियों के साथ बैठक के बाद सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बातें कही। महापौर ने कहा कि जीवीपी (कचरा संवेदनशील बिंदु)



जनता का सहयोग भी जरूरी ताकि कूड़ा मुक्त हो सके दिल्ली

तीन जनों को किया जाएगा सम्मानित

महापौर ने कहा कि अच्छी सफाई और जीवीपी को खत्म करने वाले शीर्ष 3 जनों की सराहना की जाएगी और उन्हें सम्मानित किया जाएगा ताकि अधिकारियों और कर्मियों को अपने प्रयासों को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। पश्चिमी जोन में 12 जीवीपी हैं, जिनमें से 7 को सम्मानित किया गया है और 2 अंतर् जीवीपी हैं, जहां निगम द्वारा 24 घंटे के भीतर कचरा उठाया जाता है। करोल बाग जोन में 14 जीवीपी में से 3 को बंद कर दिया गया है, पेंटिंग से सुंदर बनाया गया है और कूड़ेदान लगाए गए हैं।

को खत्म करने और सौंदर्यीकरण एक नोडल अधिकारी नियुक्त के सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वार्ड में निर्देश दिए हैं। नरेला जोन में केवल

कचरा न फेंकने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए

महापौर ने कहा कि जिन क्षेत्रों में जीवीपी बंद हैं, वहां पेंटिंग होनी चाहिए, कूड़ेदान लगाए जाने चाहिए और नागरिकों को कचरा न फेंकने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एमसीडी द्वारा सभी जनों में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने और मजबूत करने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। सभी जनों के उपायुक्त और इंजीनियरिंग तथा डीईएसएस विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर यह निर्देश दिए हैं। महापौर ने बताया कि बैठक का उद्देश्य सफाई व्यवस्था को मजबूत करना और जीवीपी की समस्या का समाधान करना था। अधिकारियों ने महापौर को पिछले साल की तुलना में इस साल सम्मानित किए गए जीवीपी की संख्या, पहचान किए गए नए बिंदु और की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी।

एक ही मुख्य जीवीपी है, जहां 24 घंटे के भीतर कूड़ा एकत्र किया जाता है। वहीं, नेता सदन मुकेश गोयल ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे दिल्ली में सभी जीवीपी की जल्द से जल्द पहचान करके उन्हें

खत्म करें ताकि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके। मच्छर जनित बीमारियों और जलभराव की समस्या को रोकने के लिए जमीनी स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।

सफाई मामले में भाजपा ने नोडल ऑफिसर की नियुक्ति का किया स्वागत

नई दिल्ली। हम हर वार्ड में उचित सफाई सुनिश्चित करने के लिए नोडल ऑफिसर की नियुक्ति का स्वागत करते हैं, लेकिन यह नियुक्ति हमारे दावे को साबित करती है कि दिल्ली नगर निगम की सफाई सेवाएं ठप्प हो चुकी हैं। दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने महापौर डॉ शैली ओबरोय की प्रेसवार्ता के बाद यह ध्यान जार कर यह प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सोमवार को दिल्ली भाजपा का दावा सही साबित हुआ है कि दिल्ली की सड़कों से कचरा उठाना नहीं जा रहा है और सड़कों के किनारों पर और केंद्रीय सड़कों में टनों का कचरा देखा जा सकता है। प्रवक्ता कपूर ने कहा कि कचरे के नोडल ऑफिसर की नियुक्ति उसी दिशा में कदम है और आशा करते हैं कि अब हालात बेहतर होंगे।

मंत्रियों की समिति आज करेगी पेड़ कटने की साइट का दौरा

नई दिल्ली। दिल्ली के तीन मंत्रियों वाली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी (तथ्य खोज समिति) आज सुबह मंगलवार को करीब 11:30 बजे सार्क चौक, साहबरी छतरपुर स्थित साइट का दौरा करेगी जहां डीडीए द्वारा लगभग 1100 पेड़ काटे गए हैं। वाली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य सौरभ भारद्वाज ने सोमवार को सोशल मीडिया संघ एक्स पर यह जानकारी देते हुए लिखा कि एक्स पर पोस्ट किया फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आज सुबह करीब 11:30 बजे सार्क चौक, साहबरी छतरपुर में उस जगह का दौरा करेगी, जहां डीडीए द्वारा करीब 1100 पेड़ों को अंधे रूप से काटा गया है। सौरभ का आरोप है कि सड़क चौकीकरण के नाम पर रिज के इको-सेंसिटिव जेन में पेड़ों को अंधे रूप से काटा गया है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली के दक्षिणी रिज में 1100 पेड़ों की अंधे कटाई के महानजर, कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज, आतिथी और इमरान हुसैन की तीन सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया था। एक आधिकारिक वृक्षारोपण एवं वन मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि दक्षिणी रिज में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा पेड़ों की अंधे कटाई के माध्यम से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 का उल्लंघन हुआ है।

मच्छरों की पैदावार रोकने के लिए एमएस रोज करें अस्पतालों का दौरा

हरिभूमि न्यूज ►► नई दिल्ली

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सोमवार को डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों से निपटने एवं रोकथाम करने के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सभी एमएस को निर्देश दिया कि मच्छरों की पैदावार रोकने के लिए वह अपने अस्पतालों का रोज दौरा करें। वहीं इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पतालों के एमएस और एमडी को कई अहम निर्देश भी दिए हैं। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी और दिल्ली सरकार के तमाम अस्पतालों के एमएस और एमडी शामिल हुए।

सभी अधिकारियों ने अपने-अपने अस्पतालों में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से निपटने के लिए की गई तैयारी की विस्तृत जानकारी स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के समक्ष प्रस्तुत की। मंत्री सौरभ



भारद्वाज ने बैठक में मौजूद सभी अस्पतालों के एमएस और एमडी से एक-एक कर उनके अस्पतालों में डेंगू की रोकथाम के लिए तथा डेंगू और मलेरिया के मरीज के लिए की गई तैयारी की जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि अस्पतालों में नियमित रूप से मच्छरों के प्रजनन को रोकने हेतु अस्पताल में दवाइयां का छिड़काव किया जा रहा है। अस्पतालों में

मंत्री ने डेंगू संभावित क्षेत्रों में फॉगिंग और सफाई अभियानों को तेज करने के लिए निर्देश

डेंगू के मरीजों के लिए जरूरी दवाएं और बेडों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा

डेंगू के मरीजों के लिए पर्याप्त मात्रा में मच्छरदानियां उपलब्ध कराई जाएं

स्कूलों और सार्वजनिक स्थलों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने पर भी दिया गया जोर

डेंगू के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए नियमित निगरानी और समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी

डेंगू और मलेरिया जैसे मरीजों के लिए पर्याप्त दवाइयां तथा अन्य जरूरी सामानों की उपलब्धता है। बैठक में अधिकारियों ने

जनता को जागरूक करने के लिए चलाए जाएंगे अभियान

बैठक में भारद्वाज ने विभाग के अधिकारियों को डेंगू और मलेरिया के लक्षणों की पहचान के लिए तथा इससे बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश जारी किए। मंत्री भारद्वाज ने सभी अस्पतालों को भी निर्देश दिए कि वह अपने-अपने अस्पतालों में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी को पहचानने वाले लक्षणों की जानकारी लगाएं और जनता को डेंगू और मलेरिया के संबंध में जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मीडिया और सोशल मीडिया का सहारा लेने का भी सुझाव दिया। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि वह शिक्षा विभाग से संपर्क कर सभी स्कूलों में और सार्वजनिक स्थलों पर भी डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाएं। वहीं पिछली बैठक में स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के सभी स्कूलों के लिए निर्देश जारी किए थे, कि वह बच्चों को पूरी आस्तीन के कपड़े पहनने के निर्देश जारी करें और अपने स्कूल में साफ सफाई और दवाइयां का नियमित छिड़काव कराएं।

बताया डेंगू के मरीजों के लिए अलग से कुछ बेड आरक्षित किए गए हैं। जहां पर केवल और केवल डेंगू और मलेरिया जैसे मरीजों को ही रखा जाएगा, ताकि कोई मच्छर बेहतर तरीके से उभार कर लिया जा सके और साथ ही साथ अन्य मरीजों में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी न फैल सके। अस्पताल प्रशासन ने यह भी बताया कि

डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों को फैलाने से रोकने के लिए डेंगू के मरीजों के बेड के चारों तरफ एक नेट (जाल) की व्यवस्था का भी प्रबंध है, ताकि कोई मच्छर उन मरीजों को काट कर किसी दूसरे मरीज तक डेंगू और मलेरिया के बैक्टीरिया ना पहुंच सके और इन गंभीर बीमारियों की रोकथाम की जा सके।

खबर संक्षेप

आरआरटीएस कॉरिडोर का निरीक्षण

गाजियाबाद। एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक शलभ गोयल ने मेरठ साउथ स्टेशन से लेकर सराय काले खां स्टेशन दिल्ली तक आरआरटीएस कॉरिडोर का निरीक्षण किया। उनके साथ एनसीआरटीसी के निदेशक और अन्य अधिकारी मौजूद थे। निरीक्षण की शुरुआत मेरठ साउथ स्टेशन से हुई। मेरठ साउथ स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है और जल्द ही यहां नमो भारत ट्रेनों का संचालन शुरू होगा।

डेबिट कार्ड बदल लगाई 35 हजार की चपत

गुरुग्राम। सेक्टर-53 एरिया में दो युवकों ने डेबिट कार्ड बदलकर एक व्यक्ति को 35 हजार रुपये की चपत लगा दी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। मोहम्मद दाबिश ने कहा कि उसने अपने साथ काम करने वाले अजय शर्मा को रुपए निकालने के लिए डेबिट कार्ड दिया था। अजय से रुपए नहीं निकले। जिसके बाद बंधु पर खड़े दो युवकों ने डेबिट कार्ड चेक करने के बहाने लिया था।

सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर की गोली लगने से मौत

गाजियाबाद। थाना सिहाना गेट के नेहरू नगर में सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर रामेश्वर दयाल (78) की लाइसेंस बंदक से चली गोली से मौत हो गई। परिजनों ने घटना को हादसा बताया है पुलिस कहना है कि रिटायर्ड इंस्पेक्टर ने आत्महत्या की है। एसीपी नंदराम रवि कुमार सिंह ने बताया कि रामेश्वर दयाल 2006 में इंस्पेक्टर के पद से यूपी पुलिस से सेवानिवृत्त हुए थे।

कॉल गर्ल बुलाने पर युवक से की लूटपाट, गिरफ्तार

गुरुग्राम। सेक्टर-37 एरिया में युवक को अगवा कर उससे लूटपाट करने के मामले में सेक्टर-41 क्राइम ब्रांच ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। युवक ने इंटरनेट के जरिए कॉलिंग से संपर्क कर अपनी लोकेशन भेजी। कुछ देर बाद उसके पास कार में सवार एक लड़की व तीन युवक आए। एक युवक ने उससे पैसे मांगे तो कहासुनी हो गई। उन्होंने युवक जबरन रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवाए।

एक्सप्रेस-वे पर चलते डंपर में लगी आग

गुरुग्राम। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर उस वक्त हडकंप मच गया जब एक चलते डंपर में आग लग गई। गनीमत रही की ड्राइवर और कंडक्टर समय रहते डंपर से नीचे कूद गए और अपनी जान बचाई अन्यथा एक बड़ा हादसा हो जाता। सूचना मिलते ही दमकल विभाग को गाडियों मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। लेकिन इस बीच पूरा डंपर जलकर खाक हो गया।

चोरी के मोबाइल सहित आरोपी को किया गिरफ्तार

फरीदाबाद। अपराध शाखा बॉर्डर की टीम ने चोरी के मोबाइल सहित आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम गोलू है। क्राइम ब्रांच ने आरोपी को सराय एरिया से काबू किया था। आरोपी मोबाइल के कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। पृथक्करण करने पर उसने बताया कि यह मोबाइल उसने 26 जून को सराय एरिया में स्थित पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने आए एक ऑटो से चुराया था।

आयुक्त ने पुलिस कार्यप्रणाली को और बेहतर करने के लिए पुलिसकर्मियों से सुझाव मांगे

आपने क्षेत्र में अच्छा कार्य क करने वाले पुलिसकर्मियों को आयुक्त ने अपने कार्यालय में चाय पर चर्चा करते हुए उनके कार्यों के अनुभवों के बारे में जाना। पुलिस कार्यप्रणाली को बेहतर करने के लिए उनसे सुझाव मांगे।

हरिभूमि न्यूज फरीदाबाद
पुलिस आयुक्त राकेश कुमार आर्य द्वारा ड्यूटी के दौरान श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों को होसला अफजाई करने के लिए हीरो ऑफ द वीक अभियान शुरू किया गया था। जिसमें सम्मानित किए जाने वाले पुलिसकर्मियों के साथ चाय पर चर्चा कर उनके द्वारा किए गए कार्य के बारे में जाना गया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि जिन पुलिसकर्मियों ने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है उन्हें पुलिस आयुक्त ने अपने कार्यालय में

आयुक्त ने पुलिस कर्मियों को 'हीरो ऑफ द वीक' के अंतर्गत प्रशंसा पत्र देकर किया सम्मानित, साथ चाय पी



10472 शिकायतों का गुरुग्राम पुलिस ने किया खुलासा

6 महिला सहित 28 आरोपियों ने की 38.25 करोड़ की टगी

एसीपी साइबर क्राइम प्रियाशु दीवान की अगुवाई में गुरुग्राम के साइबर क्राइम पुलिस थानों की टीमों द्वारा यह कार्यवाही की गई। आरोपी रीयर मार्केट में प्रॉफिट दिलाने के नाम पर टास्क बेस्ड टगी, ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नाम पर जानकार बनकर पैसे ट्रांसफर करवाकर ई धोखाधड़ी कर टगी की वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस ने पहले जांच पड़ताल की और फिर आरोपियों को दबोच लिया।

हरिभूमि न्यूज गुरुग्राम
देश भर से 38.25 करोड़ रुपए की साइबर टगी करने के मामले में साइबर क्राइम पुलिस ने छह महिलाओं सहित 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसीपी साइबर क्राइम प्रियाशु दीवान की अगुवाई में गुरुग्राम के साइबर क्राइम पुलिस थानों की टीमों द्वारा यह कार्यवाही की गई। आरोपी रीयर मार्केट में प्रॉफिट दिलाने के नाम पर टास्क बेस्ड टगी, ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नाम पर जानकार बनकर पैसे ट्रांसफर करवाकर ई धोखाधड़ी कर टगी की वारदातों को अंजाम देते थे। जांच अधिकारी पी/एसआई कमल की टीम ने आरोपी चंदपासा, वरदान अरोड़ा, आशीष, विनोद कुमार उर्फ विक्की, नव्या अरोड़ा (महिला), रोहित सोनी, राहुल गुप्ता व निखिल जैन साइबर टगी को गुरुग्राम में गिरफ्तार किया। इसी थाना में तैनात जांच अधिकारी मुख्य सिपाही वीरेंद्र की टीम ने नई बस्ती के तरुण छानना को व जांच अधिकारी पी/एसआई नवीन की टीम ने अंकित मिश्रा व अभिषेक सिंह को गिरफ्तार किया। साइबर क्राइम वेस्ट थाना में तैनात जांच अधिकारी पी/एसआई विकास की टीम ने प्रमोद कुमार व ललमानी वर्मा को व जांच अधिकारी एसआई हरीश की टीम ने विशाल, उज्ज्वल कुमार, बलराम, वैभव शुक्ला, मोहम्मद वसीम, प्रियांशु, राहुल कुमार, अभय दिल्ली, मोनिका, शिखा ठाकुर, शशि, रचना श्रीवास्तव व बबली भोज को वेस्ट एरिया से गिरफ्तार किया।

ग्रामीणों व बीपीसीएल के अफसरों की बैठक प्याला से जेवर तक पाइपलाइन बिछाने का कार्य रहेगा जारी ग्रामीण से सहयोग की अपील



हरिभूमि न्यूज फरीदाबाद
उपायुक्त विक्रम सिंह ने विधायक नयनपाल रावत के साथ सागरपुर डींग प्रहलादपुर के ग्रामीणों और बीपीसीएल के अधिकारियों की संयुक्त रूप से बैठक ली। बैठक में उन्होंने प्याला से जेवर तक पाइपलाइन बिछाने का कार्य सुचारू रूप से जारी रखने के निर्देश दिए, जिसमें ग्रामीणों से विशेष सहयोग की अपील की। लघु सचिवालय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त विक्रम सिंह ने विस्तार से प्याला बीपीसीएल से जेवर तक पाइप लाइन बिछाने का कार्य की प्रगति रिपोर्ट ली। यह पाइप लाइन प्याला सागरपुर, डींग, प्रहलादपुर से होकर गुजर रही है। इसके मुआवजे को लेकर ग्रामीणों ने उपायुक्त से मांग की, जिसके तहत उपायुक्त ने ग्रामीणों के साथ संबंधित कंपनी के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक ली। बैठक में ग्रामीणों ने मांग की कि गेहूँ, गेहूँ का भूसुरा व मूंग फसलों का मुआवजा वितरित किया जाए, तासरी फसल धान की रोपाई शुरू

हो चुकी है जिसका मुआवजा दिलाए, सर्कल रेट बढ़ने के साथ भूमि मुआवजा में भी बढ़ोतरी इत्यादि मांगें प्रस्तुत की। उपायुक्त ने सभी मांगों की गंभीरता से सुनी व समाधान की दिशा में सफल क्रम बढ़ाए। उन्होंने कंपनी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे फसल मुआवजा संबंधी मामले का रुत समाधान करवाए। यदि कंपनी जिसमें ग्रामीणों से फसल मुआवजा मामले का रुत समाधान कराने के कंपनी को दिए निर्देश प्रदान करें। उपायुक्त विक्रम सिंह ने कहा कि पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण सहयोग दें। इसका विशेष लाभ ग्रामीणों को मिलेगा। इस दौरान विधायक नयनपाल रावत ने भी सुझाव प्रस्तुत किए। बैठक में एसडीएम त्रिलोकचंद, जनरल मैनेजर प्रभारी पाइपलाइन प्रोजेक्ट बीपीसीएल सिगा श्रीनिवास राव, प्रोजेक्ट लीडर विशाल पालीवाल, ग्रामीण रामपाल, दुर्गा, राजकुमार, निरोतम लाल दास, राधेश्याम, रोहाताश आदि ग्रामीणों सहित कंपनी अधिकारियों मौजूद थे।

बेरोजगार पूर्व छात्रों का तैयार किया जा रहा है डाटा

हरिभूमि न्यूज गाजियाबाद
इलाहाबाद विश्वविद्यालय पुरा छात्रसंघ (अउआ) यूनिवर्सिटी के बेरोजगार व अभावग्रस्त पूर्व छात्रों को रोजगार की मुख्यधारा में शामिल कराने के लिए टोस कार्य करने जा रहा है। अउआ की कार्यकारिणी बैठक में इस योजना पर विचार-विमर्श किया गया। संस्था के कुछ बड़े कार्यक्रमों के लिये कमेटीयों का गठन भी किया गया और इसके विस्तार के लिये खास कार्यक्रम चलाने का निर्णय हुआ। बैठक में अध्यक्ष एस्के सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय के उन छात्रों का डाटा तैयार किया जा रहा है, जो अभावग्रस्त और बेरोजगार हैं। पूर्व छात्रों को रोजगार दिलाने के लिए उन संस्थाओं के साथ साझा कार्यक्रम चलाया जाएगा, जो रोजगारपरक सरकारी योजनाओं पर काम कर रही हैं।

अउआ ने बनाया बेरोजगार पूर्व छात्रों के लिए टोस कार्यक्रम

हरिभूमि न्यूज गाजियाबाद
अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार कर विदेशों में भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों को इस योजना में शामिल किया जाएगा, ताकि छात्रों को विदेशों में भी रोजगार दिलाया जा सके।



स्मारिका प्रकाशित का निर्णय
कार्यकारिणी बैठक में स्मारिका त्रिपथागा के प्रकाशन का भी निर्णय लिया और इसके सम्पादन का दायित्व वरिष्ठ पत्रकार अजय औदीय को सौंपा गया। उन्हें सम्पादक मंडल के चयन का अधिकार भी दिया गया। स्मारिका में अउआ के सभी सदस्यों की सूची और देश-विदेश में इसकी शाखा कमेटीयों की लिस्ट भी प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया। सदस्यों की सूची व मोबाइल नंबर अपडेट के लिए पूर्व पीसीएस जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई।

पुलिसकर्मियों ने सड़क के गड्ढे भरकर किए बेहतरीन काम आयुक्त ने एसआई विनोद व टीआई जगबीर को प्रशंसा पत्र प्रदान कर किया प्रोत्साहित



हरिभूमि न्यूज फरीदाबाद
डीसीपी ट्रैफिक उषा के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस ने यातायात प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है जिसमें वाहन चालकों की सुविधा के लिए ट्रैफिक पुलिस सड़क के गड्ढे भर रही है ताकि वाहन चालकों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। पुलिस आयुक्त राकेश कुमार आर्य ने यातायात पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए यातायात थाना प्रबंधक इंस्पेक्टर विनोद कुमार तथा टीआई बल्लभगढ़ इंस्पेक्टर जगबीर सिंह को अपने कार्यालय में बुलाकर प्रशंसा पत्र दिया।

गड्ढों की वजह से वाहन होते हैं दुर्घटना का शिकार

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि ट्रैफिक प्रबंधन में यातायात पुलिस बेहतरीन कार्य कर रही है। फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस के द्वारा यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बरसात के कारण शहर की सड़कों पर होने वाले गड्ढों की वजह से बहुत से वाहन चालक सड़क दुर्घटना का शिकार होते हैं। यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालकों को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गड्ढों को भरवाकर यातायात को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। पुलिस आयुक्त ने पुलिसकर्मियों की कर्तव्यनिष्ठा को देखते हुए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए पुलिस आयुक्त कार्यालय बुलाया और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया तथा इसी प्रकार आमजन की सहायता करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया।

हरियाणा सरकार		निविदा सूचना				
क्र. सं.	बोर्ड/निगम/ प्राधिक. का नाम	कार्य सूचना निविदा का नाम	खुलने की तिथि वर होने की तिथि (समय)	राशि/ईएमपी (लाभ) रु.में	बोर्ड/निगम/ प्राधिक. की वेबसाइट	नोडल अधिकारी/ सयंक विवरण/ई-मेल
1	पंचायती राज फरीदाबाद	गांव लाधोली, ब्लॉक बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद में जलापूर्ति के निकट हॉल को पूरा करना, चौबीयाई + 7 कार्य।	05.07.2024 11.07.2024	124.18 लाख	https://etenders.hry.nic.in	0129-4313645 prexeeng.fbd@hry.nic.in
2	पंचायती राज फरीदाबाद	गांव खंडावाली, ब्लॉक बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद में साइड ड्रेन्स और आईपीबी सहित फिरनी की पेंचमेंट, एचबीवीवाई।	05.06.2024 15.07.2024	82.15 लाख	https://etenders.hry.nic.in	0129-4313645 prexeeng.fbd@hry.nic.in
3	पंचायती राज करनाल	गांव गारासीना, ब्लॉक मुनक, जिला करनाल में फ्लोरिंग, टाइलिंग का निर्माण और दादा पीर खेल स्टेडियम में निर्माण कार्य, एमपीएलएडी + 1 कार्य।	05.07.2024 19.07.2024	13.86 लाख	https://etenders.hry.nic.in	9813805200 prexeeng.krl@hry.nic.in
4	लॉनिवि भ व प करनाल	असंध, जिला करनाल में 100 बिस्तर वाले हस्पताल का निर्माण (आंतरिक ईआई का प्रावधान)।	06.07.2024 16.07.2024	98.80 लाख	https://etenders.hry.nic.in	1842265696 pwd-eeed-kamal@hry.nic.in
5	लॉनिवि भ व प करनाल	पानीपत में लघु सचिवालय परिसर में 24 ट्रांजिट फ्लैट्स का निर्माण (आंतरिक ईआई का प्रावधान केवल) + 1 कार्य।	06.07.2024 13.07.2024	53.17 लाख	https://etenders.hry.nic.in	1842265696 pwd-eeed-kamal@hry.nic.in
6	पंचायती राज करनाल	गांव रोहट पट्टी में शमशान घाट में हैंडपम्प की स्थापना, एससी शमशान घाट में हैंडपम्प की स्थापना, शमशान घाट में हैंडपम्प की स्थापना और गांव सोमली, ब्लॉक निसिंग, जिला करनाल में मानसुर मुल्लाना पट्टी के निकट शमशान घाट में रास्ता का निर्माण और हैंडपम्प की स्थापना + 8 कार्य।	05.07.2024 11.07.2024	216.88 लाख	https://etenders.hry.nic.in	9813805200 prexeeng.krl@hry.nic.in
7	पंचायती राज रोहताक	एमपीएलएडी-2 - गांव काहनी में एससी चौपाल का निर्माण (एमपीएलएडीएस) + 14 कार्य।	05.07.2024 11.07.2024	122.78 लाख	https://etenders.hry.nic.in	1262254150 prexeeng.roh@hry.nic.in
8	पंचायती राज रोहताक	गांव सीतामई (डिंगताना) ब्लॉक नीलोखेड़ी, जिला करनाल में एस.सी. शमशान घाट की चारदिवारी का निर्माण + 3 कार्य।	06.07.2024 22.07.2024	19.94 लाख	https://etenders.hry.nic.in	9813805200 prexeeng.krl@hry.nic.in
9	पंचायती राज पंचकुला	ब्लॉक पिंजौर (नानकपुर, राम नगर और रामपुर जांगी) का शिवधाम नवीनीकरण योजना कार्य + 3 कार्य।	06.07.2024 12.07.2024	77.23 लाख	https://etenders.hry.nic.in	9467807024 prexeeng.pkl@hry.nic.in
10	जिला परिषद पलवल	माला सिंह फार्म से मोहन सिंह की ढाणी तक रोड को चौड़ा करना और मजबूतीकरण, रोड आईडी-783 ब्लॉक बादोली + 6 कार्य।	05.07.2024 16.07.2024	106.11 लाख	https://etenders.hry.nic.in	7015379500 prexeeng.pwl@hry.nic.in
11	पंचायती राज अम्बाला	गांव धनोरा में कब्रिस्तान की चारदिवारी, गांव अकबरपुर माजरा (धनोरा) में शमशान घाट की चारदिवारी, गांव मिल्क शेखा में सामान्य शमशान घाट में शवदाह शैड, गांव फोक्सा में कब्रिस्तान का ब्रिक पेव्ड रास्ता, गांव जफरपुर में कब्रिस्तान की चारदिवारी, गांव शेपुरपुर ब्लॉक बराड़ा में शमशान घाट की चारदिवारी का निर्माण + 3 कार्य।	05.07.2024 12.07.2024	81.04 लाख	https://etenders.hry.nic.in	0171-2551368 prexeeng.amb@hry.nic.in
12	पंचायती राज अम्बाला	गांव विहता में चारदिवारी कब्रिस्तान, ब्रिक पेव्ड रास्ता कब्रिस्तान और सामान्य शमशान घाट की चारदिवारी, गांव नुद में मेन रोड से शमशान घाट तक ब्रिक पेव्ड रास्ता और सामान्य शमशान घाट की चारदिवारी, गांव रामगढ़, ब्लॉक साधा में मेन गोरह से शमशान घाट तक ब्रिक पेव्ड रास्ता का निर्माण + 7 कार्य।	05.07.2024 12.07.2024	174.26 लाख	https://etenders.hry.nic.in	0171-2551368 prexeeng.amb@hry.nic.in
13	पंचायती राज झोड़ू कलां चरखी दादरी	गांव बलाली में आंगनवाड़ी का पुनरोद्धार + 7 कार्य।	04.11.2024 11.07.2024	30.36 लाख	https://etenders.hry.nic.in	9416927275 xenprcharkhidadi@gmail.com
14	पंचायती राज रोहताक	स्टेडियम घुसकानी में मिट्टी भराई + 3 कार्य।	05.07.2024 10.07.2024	76.50 लाख	https://etenders.hry.nic.in	9215555586 girishbatrahotak@gmail.com
15	जिला परिषद होशियार	गांव औरंगाबाद ब्लॉक होशियार, जिला पलवल में बजादा रोड से श्रीचंद के मकान तक आईपीबी रास्ता का निर्माण + 3 कार्य।	03.07.2024 11.07.2024	43.39 लाख	https://etenders.hry.nic.in	9873227860 prexeeng.pwl@hry.nic.in
16	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग हरियाणा, भिवानी	प्लट पुल डीपी सैट का परीक्षण व मरम्मत + 6 अन्य कार्य।	बंद होने की तिथि 12.07.2024	23.28 लाख	https://etenders.hry.nic.in	9812364411 xenmechbhiwani@gmail.com
17	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग हरियाणा, बहादुरगढ़	बाढ़ ऋतु और नहर चलने के दौरान मैनपावर (बेलदार/कैनाल गार्ड) की आपूर्ति करने हेतु आउटसोर्सिंग एजेंसी की नियुक्ति।	बंद होने की तिथि 12.07.2024	बंद होने की तिथि	https://etenders.hry.nic.in	1276298418 wdsdivisionbagarh@gmail.com

खबर संक्षेप

आईएसएस तबादले, जैन महाराजगंज के सीडीओ



लखनऊ। यूपी की योगी सरकार ने फिर आईएसएस अफसरों का तबादला किया है। आईएसएस अनुराग जैन सीडीओ आंबेडकरनगर को महाराजगंज का सीडीओ बनाया गया है। अनुराग जैन इससे पहले आंबेडकरनगर जनपद के सीडीओ थे। अनिल कुमार सिंह ने सीडीओ महाराजगंज का चार्ज नहीं लिया। फिलहाल अनिल कुमार सिंह को वेटिंग में डाला गया।

‘डॉन’ ने पुलिस को 12 राज्यों तक दौड़ाया, काबू कानपुर। शहर में पकड़े गए एक टप्पेबाज ने पुलिस को 12 राज्यों तक दौड़ा डाला। करीब 60 दिन



तक इस शहर से उस शहर की खाक छानने के बाद पुलिस ने उसे मुरे कंपनी पुल के पास से दबोच लिया। हरबंसमोहाल में एक फौजी की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट के बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी अब तक 1200 से 1400 वारदात को अंजाम दे चुका है।

शादी में लाइटिंग के करंट से दो किशोरों की मौत



सुल्तानपुर। धनपतगंज थानाक्षेत्र के पिपरपाप गांव में विवाह के दौरान की गई लाइटिंग के लिए लगाए गए तारों की चपेट में दो किशोर आ गए। करंट से उनकी वहीं मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शादी समारोह में डोजे की धुन पर नाचते हुए केशराम (15) व सुरजीत (15) के पैर जमीन पर गिरे तार के करंट की चपेट में आ गए।


बुजुर्ग पुजारियों व संतों को मानदेय देने की तैयारी में योगी सरकार

यूपी के 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुजारियों और संतों को योगी आदित्यनाथ सरकार मानदेय देने की तैयारी में है। सीएम ने दूसरे राज्यों में इस तरह की व्यवस्था का अध्ययन करके रिपोर्ट देने कहा है।

एजेसी ►► लखनऊ

यूपी के प्रमुख धार्मिक स्थलों, मंदिरों और मठों की जानकारी मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार एक नया पोर्टल बनाएगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुजारियों और संतों को मानदेय भी दिया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पदाधिकारियों को नए सिरे से दूसरे राज्यों में इस तरह की व्यवस्थाओं का अध्ययन कर जल्द से जल्द रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने धर्मार्थ कार्य निदेशालय की ओर से विभिन्न योजनाओं पर प्रस्तुतीकरण दिया गया था। इस दौरान नया पोर्टल बनाने पर विचार विमर्श किया गया। इसके लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि पहले प्रामाणिक जानकारीयां जुटाई जाएं। साथ ही मुख्यमंत्री ने संतों और पुजारियों के लिए मानदेय की नीति ठीक से तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

धार्मिक स्थलों का नया पोर्टल बनेगा



काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों को मिलेगी 90 हजार सैलरी, राज्य कर्मचारियों की तरह भते भी

बैठक में संतों को मानदेय देने के लिए एक बोर्ड बनाने पर भी मंथन हुआ। इसके अलावा सिख और बौद्ध धर्म से जुड़े तीर्थों की यात्रा के लिए अनुदान देने पर भी विचार हुआ। इसके लिए सरकार ने पहले ही बजट में दस-दस लाख रुपये का प्रावधान कर रखा है। इसके अलावा मंदिरों के जीर्णोद्धार पर भी विचार किया गया।

प्रयागराज में सबसे ज्यादा पूजा स्थल

गोरखपुर में हैं सबसे कम
साल 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश में साढ़े तीन लाख पूजा स्थल हैं। 3 लाख 54 हजार 421 पूजा स्थलों में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च शामिल हैं। यूपी के शहरी इलाकों में 59022 पूजा स्थल हैं जबकि ग्रामीण इलाकों में 295399 पूजा स्थल हैं। राज्य में सबसे अधिक पूजा स्थल प्रयागराज जिले में हैं जहां 2011 की जनगणना में इनकी संख्या 12390 मिली थी।

मुख्य अभियंता डिवीजन के होंगे हेड, नियमित तौर पर होगी पुल-पुलियों की जांच बिहार में पुलों का बनेगा हेल्थ कार्ड, सीसीटीवी से होगी निगरानी, ब्रिज में टैनेस पॉलिसी हुई लागू

एजेसी ►► पटना

बिहार में पुलों के रखरखाव की नीति (ब्रिज में टैनेस पॉलिसी) लागू हो गई है। इस नीति के आधार पर पुलों का हेल्थ कार्ड बनेगा और रखरखाव के लिए विशेष प्रभाग (डिविजन) का गठन होगा। मुख्य अभियंता इस डिवीजन के हेड होंगे। इनके साथ ही अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंताओं की टीम होगी। टीम के इंजीनियर नियमित तौर पर पुल-पुलियों की जांच करेंगे। जांच केवल कागजों पर ही नहीं, बल्कि वीडियो व तस्वीर के साथ होगी। जहां भी इन्हें गड़बड़ी मिलेगी, वे इसकी जानकारी तत्काल विभाग को देंगे। अगर रखरखाव में कोताही बरती गई तो उसे चिह्नित कर विभाग सख्त कार्रवाई भी करेगा।

बिहार में पुलों के ढहने की घटनाओं को लेकर रखरखाव नीति यानी (ब्रिज में टैनेस पॉलिसी) लागू की गई है। जिसके तहत पुलों का हेल्थ कार्ड बनेगा। साथ ही स्पेशल डिवीजन का गठन होगा। सीसीटीवी से निगरानी होगी।

खास बातें

- जांच केवल कागज पर नहीं, वीडियोग्राफी और तस्वीरें भी होंगी
- पुलों का रख रखाव तीन चरण में किया जाएगा



पुल निर्माण निगम की ओर से 500 पन्नों की मार्गदर्शिका तैयार

बड़े, मध्यम व छोटे श्रेणी में अलग-अलग बांटेकर पुलों का रखरखाव किया जाएगा ताकि कोई भी पुल समय से पहले क्षतिग्रस्त न हो सके। पथ निर्माण विभाग ने मार्गदर्शिका के रूप में सभी कार्यपालक अभियंताओं को इसकी प्रती भी भेज दी है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की ओर से तैयार इस मार्गदर्शिका में लगभग 500 पन्ने हैं। नई नीति लागू करने का मकसद राज्य में हजारों पुलों को सुरक्षित बनाए रखना है। पुलों के रखरखाव की नीति तैयार करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। हर पुल का अपना हेल्थ कार्ड होगा।

इसमें पुल का पूरा इतिहास होगा। इसी के आधार पर पुलों का रखरखाव होगा। पुलों के स्वास्थ्य के आधार पर ही ट्रैफिक को नियंत्रित किया जाएगा। दरअसल, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सड़कों के साथ ही पुल-पुलियों की भी नियमित जांच की बात कही थी। सीएम ने कहा था कि रेलवे की तरह पुलों के लिए भी अलग से विंग बनाया जाए। सड़क टूट जाने पर आने-जाने में परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर पुल-पुलिया टूट जाए तो काफी नुकसान हो सकता है।

17 सालों में 6210 पुलों का हुआ निर्माण

साल 2005 से लेकर अब तक राज्य में 6200 से अधिक पुलों का निर्माण किया गया है। इसमें लगभग दो दर्जन मेगा पुल हैं। जबकि लगभग 1200 पुल 60 मीटर लंबे हैं। वहीं, पांच हजार से अधिक पुल 60 मीटर से कम लंबाई के हैं। राज्य के अर्धन बारहमासी सड़क सुविधा उपलब्ध करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना की शुरुआत हुई। इसके तहत 5100 से अधिक पुल-पुलियों का निर्माण हुआ।

सीएम ने 4 लाख मुआवजे का किया ऐलान बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से अब तक 9 लोगों की हुई मौत



एजेसी ►► पटना

बिहार में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच वज्रपात की चपेट में आने से नौ लोगों की मौत हो गई। कैमूर में वज्रपात की चपेट में आने से पांच लोगों की मौत हो गई। वहीं सासाराम में तीन और औरंगाबाद में एक व्यक्ति की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। इसके अलावा, आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के झुलसने की भी सूचना है। वज्रपात की चपेट में आए ये सभी लोग बारिश के दौरान खेत में रोपनी और मवेशी चरा रहे थे।

मृतकों की पहचान

कैमूर जिले के मृतकों में भगवानपुर थाना क्षेत्र के 30 वर्षीय रामनिवास बिंद, मुआंव थाना के 45 वर्षीय सुशील पाल व हरहिरपुर डेरा के 53 वर्षीय शिवजी बिंद, रामगढ़ थाना के सिद्धू आं की 14 वर्षीय सैतमुनि, बेलवां थाना के सोनवंत के 16 वर्षीय आशीष कुमार शामिल हैं। वहीं, औरंगाबाद जिले के रफीगंज थाना क्षेत्र के कजपा गांव में खेताने के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से 14 वर्षीय पुत्र अक्षित कुमार की मौत हो गई। रोहतास की चेनारी नगर पंचायत के वनारी नौ, सितौड़ा मोड़ के समीप 35 वर्षीय भगवान राजपति, गेमर ओपी के खरवथ गांव में नोखा थाना के राममूरत राम की पत्नी 35 वर्षीया कुली देवी और करारपुर प्रखंड के खणैया गांव के बहार में ललन यादव की 55 वर्षीया पत्नी झूनी देवी वज्रपात की चपेट में आ गईं।

नीतीश कुमार ने गताया शोक

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वज्रपात की घटना में जान गवाने वालों के परिजनों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मृतकों के आश्रितों को वार-चार लाख रुपये का अनुवाद अनुदान दिए जाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने लोगों से यह अपील की है कि सभी लोग खरब मौसम में पूरी सतर्कता बरते। खरब मौसम होने पर वज्रपात से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सुझावों का अनुपालन करें।

पेज एक का शेष

22वें भारत-रूस...

लिए प्रधानमंत्री ने उन्हें धन्यवाद दिया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मॉस्को पहुंचे हैं। इसका आयोजन रूस द्वारा मंगलवार को किया जाएगा। गौरतलब है कि वर्ष 2022 में यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद यह पहला ऐसा मौका है जब भारत और रूस के राष्ट्राध्यक्ष मॉस्को में एक महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वहीं भारत में हालिया संपन्न हुए आम चुनाव के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद की जा रही पीपुल्स मोदी की यह महत्वपूर्ण विदेश यात्रा है। जिस पर अमेरिका सहित पश्चिम के कई अन्य देशों की निगाहें टिकी हुई हैं। मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 10 जुलाई तक रूस और ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इसमें वह 8 से 9 जुलाई तक रूस में रहेंगे और उसके बाद 9 से 10 जुलाई को ऑस्ट्रिया के वीरे पर रहेंगे।

द्विपक्षीय संबंधों...

राजदूत विनय कुमार ने कहा कि पीएम मोदी की यह यात्रा और राष्ट्रपति पतिन के साथ उनकी वार्ता द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक संबंधों, विज्ञान-प्रौद्योगिकी व अनुसंधान के कुछ क्षेत्रों पर केंद्रित होगी। इस बातचीत से कई क्षेत्रों में ठोस नतीजे निकलेंगे। वहीं विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पीएम की इस यात्रा को लेकर कहा कि यह एक अच्छी परंपरा है, हम दो ऐसे देश हैं। जिनका एक साथ काम करने का मजबूत इतिहास रहा है। हमने वार्षिक शिखर सम्मेलन की आवश्यकता को महत्व दिया।

एक दशक में...

साझा किया जाएगा। हम एक शांत और स्थिर क्षेत्र के लिए सहयोगी और सकारात्मक भूमिका निभाने के इच्छुक हैं। अपनी इस रूस यात्रा के जरिए मुझे वहां रह रहे प्रगतिशील भारतीय समुदाय से मुलाकात करने का अवसर मिलेगा। ऑस्ट्रिया में मैं राष्ट्रपति अलेक्जेंडर बेलेन और चांसलर कार्ल नेहमार से मुलाकात करूंगा। ऑस्ट्रिया भारत का एक उभरता हुआ और भरोसेमंद भागीदार है। दोनों देश लोकतंत्र और बहुपक्षवाद के प्रेरणास्रोत हैं। मालूम हो कि बोते करीब चार दशक में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की यह पहली यात्रा होगी। इस दौरान मेरी कोशिश आपसी भागीदारी को नई ऊंचाई पर ले जाने की होगी। इसमें नवाचार, तकनीक और सतत विकास के पहलू भी शामिल किए जाएंगे। चांसलर नेहमार और मैं दोनों देशों के वाणिज्यिक लीडर्स के साथ विचारों का आदान प्रदान करेंगे। जिससे साझा

रूप से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा मेरा ऑस्ट्रिया में भारतीय समुदाय से मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है।

यह तो साफ...

दौरान प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एनटीए को परीक्षा रद्द करने से रोकने की मांग वाली गुचिका के 50 से अधिक सफल परीक्षार्थियों की याचिका पर भी सुनवाई की। शीफ कोर्ट ने कहा, 'एक बात तो साफ है कि प्रश्न-पत्र लीक हुआ है। सवाल यह है कि इसकी पहुंच कितनी व्यापक है? पेपर लीक होना एक स्वीकार्य तथ्य है। लीक की प्रकृति कुछ ऐसी है, जिसका हम पता लगा रहे हैं। आप केवल इसलिए पूरी परीक्षा रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि दो छात्र धांधली में शामिल थे। इसलिए हमें लीक की प्रकृति के साथ ही सावधान रहना चाहिए। दोबारा परीक्षा का आदेश देने से पहले हमें लीक की सीमा के बारे में जानना होगा। ऐसा इसलिए, क्योंकि हम 23 लाख छात्रों के मामले को सुन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि केंद्र और एनटीए ने इस गड़बड़ी से किन-किन छात्रों को फायदा पहुंचा? यह जानने के लिए क्या कार्रवाई की? इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 11 जुलाई की तारीख तय की।

50 उड़ानें रद्द...

ज्यादा बारिश दर्ज की गई। सड़कों से लेकर रेलवे ट्रैक तक टूट चुके हैं। कई हिस्सों में पानी भर जाने के कारण सड़कों पर ही वाहन फंसे हुए हैं। भारी बारिश की तबाही से मध्य रेलवे को सबअर्बन सेवाएं प्रभावित हुई हैं। मुंबई की 50 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। भारी बारिश के कारण, कुर्ना भांडुप के आसपास जलभराव है और यहां हाबर् लाइन पर, वडाला से मानखुर्द तक, यह बंद है क्योंकि चूनाभट्टी के आसपास बहुत अधिक जलभराव है। ये सेवाएं बाधित हैं। हमने कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया है और कुछ ट्रेनों का मार्ग बदल दिया है।

नड्डा से मिले...

हरियाणा का विधानसभा चुनाव हर हाल में जीतने के लिए कमर कस रही है। भाजपा सूत्रों के अनुसार सैनी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा को हाल ही में उनकी सरकार द्वारा जनहित में लिए गये फैसलों की जानकारी दी। साथ उन्होंने उन घोषणाओं के बारे में बताया जो आम लोगों को फायदा देने के लिए की गई है। गौरतलब है कि हरियाणा में कांग्रेस की बढ़ती ताकत को रोकने तथा विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए भाजपा हाईकमान लगातार रणनीति

बनाने में जुटा है। कुछ दिन पहले गृहमंत्री अमित शाह ने पंचकूला में साफ तौर पर कहा था कि अगला विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में लड़ा जाएगा और वे ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे।

उत्तराखंड कांग्रेस...

मदद कर पाए। दो दिनों के बाद 10 जुलाई को चूँकि सूबे के बद्रिनाथ और मंगलौर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं इसीलिए अभी नेतृत्व ने खामोशी ओढ़ी हुई है। एक वरिष्ठ नेता ने कहा, उत्तराखंड कांग्रेस कमेट्री की कंपलीट ओवरहॉलिंग की योजना आकार ले रही है। गरिष्ठ हो चुके सभी वरिष्ठ नेता सलाहकार मंडली में रहेंगे, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाएगा। उक्त नेता ने आंकड़ों के हवाले से बताया कि नेतृत्व के लिए ये चौकाने वाला गणित है कि जिस कांग्रेस पार्टी को 38 फीसदी वोट विस चुनाव में मिले थे वो घटकर 32.83 फीसदी पर कैसे पहुंच गया? उन्होंने बताया कि राज्य की 70 विस सीटों में कांग्रेस के 19 विधायक जीत कर विधानसभा पहुंचे थे। लोकसभा चुनाव में इन 19 विधानसभा सीटों में से 14 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी बुरी तरह पिछड़े, इसका कारण तो सबे के सभी नेताओं को बताना होगा? जाहिर है कि संगठन में सीरियस लकुना है जिसे समय रहते सुधारा जाना जरूरी है।

भारतीय अंतरिक्ष...

वो भी सिर्फ 15 से 20 दिन के लिए। इसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह कुपोला भी होगा। इसरो की प्लानिंग है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 से ऑपरेशनल हो जाए। इस स्पेस स्टेशन में नए प्रकार का यूनिवर्सल डॉकिंग और बर्थिंग सिस्टम लगाया जाएगा। ताकि, जरूरत पड़ने पर दूसरे देशों के स्पेसक्राफ्ट इसके साथ जुड़ सकें। रोल आउट सोलर ऐरे (रोसा) होगा। जो जरूरत पड़ने पर फोल्ड किया जा सके। ताकि, इसे अंतरिक्ष के कचरे से टकराने से बचाया जा सके।

बिल बोले-2040

को लेना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो साल 2035 तक भारतीय स्पेस स्टेशन बनाने और 2040 तक चांद पर भारतीय एस्ट्रोनाट को पहुंचाने का लक्ष्य दिया है। इसरो इस समय अमेरिका की प्रमुख स्पेस कंपनियों जैसे- बोईंग, ब्लू ऑरिजिन और वॉयजर से भी बातचीत कर रही है। ताकि खास तरह की जरूरतों को इनकी मदद से पूरा किया जा सके। साथ ही भारतीय प्राइवेट स्पेस कंपनियों या एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर सकें।

पीड़ित बच्चों को मिलेगा ढाई हजार प्रतिमाह बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष पहुंचे हाथरस, घायलों से की मुलाकात

एजेसी ►► अलीगढ़

सत्संग हादसे में प्रभावित परिवारों के बच्चों की शिक्षा की चिंता सरकार करेगी। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉ. देवेंद्र शर्मा ने घोषणा की कि इन बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत प्रतिमाह 2500 रूपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। वह हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलने थाना हाथरस गेट क्षेत्र के गांव सोखना आए थे।



से मिलने गांव सोखना पहुंचे। यहां उन्होंने घटना की जानकारी ली और दुख व्यक्त किया।

इसके बाद उन्होंने सदर तहसील सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। हादसे में प्रभावित परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए जिला प्रोबेशन अधिकारी को मृतकों की सूची उपलब्ध कराने की निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हादसे में प्रभावित बच्चों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया जाए।

हाथरस भगदड़: सांसद चंद्रशेखर ने साधा यूपी पुलिस पर निशाना

एजेसी ►► अलीगढ़

हाथरस भगदड़ और अलीगढ़ की घटना का जिक्र करते हुए बिजनौर की नगीना सीट से आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने यूपी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। साथ ही यूपी पुलिस पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हाथरस भगदड़ कांड और अलीगढ़ में अल्पसंख्यक समुदाय

के एक युवक की पीट-पीटकर की गई हत्या से यह साबित हो गया है कि यूपी में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। अलीगढ़ में 18 जून को फरीद उर्फ औरंगजेब की पीट-पीटकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया था। फरीद और गत दो जुलाई को हुए हाथरस भगदड़ कांड में मारे गए लोगों के परिजन से मुलाकात करने आए आजाद ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि दोनों घटना इस बात का स्पष्ट संकेत देती हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस लोगों की सेवा का अपना नैतिक अधिकार खो चुकी है।

पुलिस निर्दोष लोगों को फंसा रही

उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों ही मामलों में पुलिस निर्दोष लोगों को फंसा रही है और दोषी खुलेआम घूम रहे हैं। आजाद ने अलीगढ़ की घटना का जिक्र करते हुए कहा, मृतक के परिजनों ने मुझे बताया कि बबरतापूर पीटाई किए जाने से फरीद के शरीर को 22 हड्डियां टूट गई थीं। उसे लोहे और स्टील की छड़ों से पीटा गया और यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। उन्होंने दावा किया कि इस मामले में नामजद होने के बावजूद 6 से ज्यादा आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं जबकि मृतक के कई परिजनों के खिलाफ डकैती के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है।

संसुर अवध बिहारी सिंह एकीकृत बिहार में रह चुके हैं मंत्री

झारखंड के संताल परगना से पहली बार महिला मंत्री कैबिनेट में हुई शामिल

एजेसी ►► रांची

महागामा विधायक दीपिका पांडेय सिंह संताल परगना की पहली महिला मंत्री बन गई हैं। सोमवार को हेमंत सरकार की कैबिनेट के विस्तार में उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। 2019 में महागामा विस सीट से भाजपा के कदावर नेता अशोक भगत को 12 हजार से अधिक वोटों से हरा कर पहली बार दीपिका पांडेय सिंह विधायक बनीं। वहीं 2024 के लोस चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें गोड्डा सीट से टिकट दिया लेकिन बाद विरोध होने पर कांग्रेस ने यहां उम्मीदवार बदल दिया था। पांडेयाहाट विधायक प्रदीप यादव को गोड्डा सीट से लड़ाया गया। 2024



के लोस चुनाव में महागामा विस से कांग्रेस प्रत्याशी को लीड दिलाने पर दीपिका पांडेय सिंह को मंत्री का तोहफा दिया गया है। दीपिका पांडेय सिंह के संसुर अवध बिहारी सिंह एकीकृत बिहार में मंत्री रह चुके हैं।

विरासत में मिली राजनीति

दीपिका पांडे सिंह का जन्म झारखंड के रांची में एक राजनीतिक परिवार में हुआ था। उनकी मां प्रतिभा पांडे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला शाखा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं। दीपिका ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रांची से की। उन्होंने 1994-97 में सेंट जेवियर्स कॉलेज से जीव विज्ञान में बीएससी की डिग्री प्राप्त की। 1998-2000 में रांची के जेवियर इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंस से सूचना प्रौद्योगिकी में एमबीए की पढ़ाई की। वहीं से 2008-2011 तक कोर्पोरेट कॉलेज, जमशेदपुर से एलएनबी की पढ़ाई की। उनका विवाह रत्नेश कुमार सिंह से हुआ है, जो बिहार सरकार के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री और महागामा से चार बार के विधायक अवध बिहारी सिंह के पुत्र हैं।

खबर संक्षेप



सांसद सिंह का कर्मचारी मंच ने किया स्वागत

भोपाल। सांसद गणेश सिंह का पांचवीं बार विजय हासिल करने पर रविवार को पहली बार भोपाल आगमन पर कर्मचारी मंच के पदाधिकारियों ने फूल-मालाओं से स्वागत किया। मंच के प्रवेशाध्यक्ष को अशोक पांडे ने बताया कि सांसद गणेश सिंह ने कर्मचारी प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया है कि वह जल्द ही कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों को सदन में रखकर निराकरण करने की मांग करेंगे। इस अवसर पर अतुल मालवीय, चांद सिंह, जगदीश शर्मा आदि मौजूद रहे।

उमा बर्नी महिला मोर्चा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष

भोपाल। विश्वकर्मा महापंचायत संगठन के संस्थापक प्रेमनारायण विश्वकर्मा और प्रदेश अध्यक्ष



महिला मोर्चा कविता मालवी की सहमति से करोंद निवासी उमा विश्वकर्मा को श्री विश्वकर्मा महापंचायत

मध्यप्रदेश संगठन में महिला मोर्चा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति से संगठन कार्य का विस्तार होगा एवं कार्य में गति आएगी।

मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती सरकार: उमंग

भोपाल। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने अमरवाड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती है, इसलिए सदन की कार्रवाई अकारण ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार दावा करती है कि हमने घर-घर दौड़ी जाने लगे हैं, घर-घर पीने का पानी पहुंचा दिया, बड़े-बड़े विज्ञापन छपाए जाते हैं।

नाक में मुक्का मार कर किया बेहोश, फिर सिर पर पत्थर पटककर की हत्या

हरिभूमि न्यूज ▶▶ बेमतला


यहां रविवार रात करीब 9.30 बजे शराब पीकर दो दोस्त आपस में भिड़ गए। इसके बाद दोस्त ने ही अपने दोस्त की हत्या कर दी। वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला बेमतला जिले के साजा थाना का है। थाना से मिली जानकारी अनुसार रविवार रात 9.30 बजे मृतक भानूराम यादव पिता स्व.श्रवण यादव (24) व आरोपी मुकेश निर्मलकर पिता देवेन्द्र निर्मलकर (23) एक साथ सड़क किनारे बैठकर शराब पी। इसी दौरान दोनों के बीच में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी मुकेश ने भानूराम के नाक पर मुक्के से वार कर दिया। इससे भानूराम बेहोश होकर गिर गया। फिर उसके सिर पर पत्थर को पटक-कर हत्या कर दी व मौके से फरार हो गया। आसपास से आने-जाने वाले लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। अचेत पड़े भानू को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के कुछ घंटे बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आज सोमवार को मृतक का पीएम बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है।

जल जीवन मिशन योजना के कार्य के लिए स्ट्रक्चर लेकर जा रहा था ट्रैक्टर

हरिभूमि न्यूज ▶▶ बलरामपुर

बलरामपुर रामनृजंग में रविवार को जल जीवन मिशन योजना के कार्य के लिए स्ट्रक्चर ट्रैक्टर में लोड कर ट्रैक्टर राष्ट्रीय राज् मार्ग 343 से होकर ग्राम मितगई जा रहा था, इसी दौरान नगर सेना के आगे तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें एक युवक मौत हो गई और तीन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय ले जाया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर में बलरामपुर से जल जीवन मिशन योजना के लिए स्ट्रक्चर लोड करके ड्राइवर सहित पांच लोग ग्राम मितगई जा रहे थे इसी दौरान शाम 6:30 बजे के करीब तेज रफ्तार ट्रैक्टर के अनियंत्रित होकर पलट जाने से एक की मौत हो गई वहीं तीन लोग घायल हो गए। मृतक का नाम वासीद पिता घूरे खान (30) ग्राम मलीयाना, थाना ट्रांसपोर्टनगर जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश बताया जा रहा है। वहीं घायलों में निशांत मलिक उर्फ छोटू उम (28), जुबेर पिता महबूब दोनों मेरठ हैं। दोनों की स्थिति गंभीर देखते हुए रेफर कर दिया गया। ट्रैक्टर के पलटने के बाद उसके



बलरामपुर में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटने से एक की मौत और तीन लोग घायल हुए।

रवींद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश प्रमारी डॉ. महेन्द्र ने कहा- भाजपा एक आदर्श संगठन

केंद्र-प्रदेश सरकार की योजनाओं को हितग्राही तक पहुंचाने में कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका



हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रमारी डॉ. महेन्द्र सिंह ने रविवार को रवींद्र भवन में आयोजित भाजपा कार्यसमिति की बैठक पूर्ण विजय का ऐतिहासिक प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी राजनीतिक दल का एक आदर्श संगठन होना चाहिए। मध्यप्रदेश में भाजपा संगठन एक आदर्श संगठन है। यहां के संगठन का स्वरूप और कार्य करने की शैली विशिष्ट है। भाजपा संगठन और कार्यकर्ताओं की मेहनत से पहले विधानसभा में ऐतिहासिक सफलता फिर लोकसभा चुनाव में सभी 29 लोकसभा सीटों पर

कांग्रेस के जमाने में 15 पैसे पहुंचते थे, जो आज 100 के 100 पहुंच रहे: यादव

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने संबोधन में कहा कि हमने विधानसभा चुनाव में 163 सीटें जीतीं हैं और लोकसभा चुनाव में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। लेकिन इसका कारण क्या है? अकेली योजनाओं से जीत नहीं मिलती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु और उड़ीसा में भी सत्ताधारी दलों की जीत होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मध्यप्रदेश पार्टी के उन महापुरुषों की धरती है, जिन्होंने संगठन को खड़ा करने के लिए सिर्फ काम किया, अहंकार नहीं किया। हमें जगह की योजनाओं के साथ साफ छवि और अहंकार रहित निरवधार्य कार्यकर्ताओं की टोली की बदौलत यह जीत हासिल हुई है। यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश में कई परिवर्तन लाई है। कांग्रेस के जमाने में जहां सिर्फ 15 पैसे गरीब की जेब में पहुंचते थे, आज सरकार की इमानदारी और नई टेक्नोलॉजी की बदौलत पूरे 100 पैसे खाते में पहुंच रहे हैं। कांग्रेस सुशासन और नीतियों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का मुकाम नहीं कर सकती, वो अब नकारात्मकता के साथ घबडरा रही है। चुनावों के दौरान भी कांग्रेस ने आरक्षण और संविधान को लेकर झूठ फैलाया था। जबकि वास्तविकता यह है कि कांग्रेस हमेशा न्यायालय, चुनाव आयोग पर हमला करती रही है, संसद और लोकतंत्र का मखौल उड़ा रही है।



भारतीय जनता पार्टी में मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने संबोधन में कहा कि हमने विधानसभा चुनाव में 163 सीटें जीतीं हैं और लोकसभा चुनाव में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है।

बेमतला में शराब पीकर भिड़े दो दोस्त, एक ने कर दी दूसरे की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

हरिभूमि न्यूज ▶▶ बेमतला



जगदलपुर। जगदलपुर में दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। इसके बाद दोनों बाइक सवारों के बीच जमकर टिक्कर हो गया। इसके बाद एक ने गुस्से में आकर दूसरे की बाइक में आग लगा दी। घटना पुरानी मंडी रोड की बत्ताई जा रही है। आग लगने वाला आरोपी मौके से फरार बताया हो गया है। पीड़ित युवक ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना का मुआयना कर प्रकरण दर्ज कर लिया। साथ ही अज्ञात युवक की तलाश में जुट गई है।

तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटा एक युवक की मौत, तीन लोग घायल

हरिभूमि न्यूज ▶▶ बलरामपुर



ठीक पीछे रामानृजंग के नरेश रवि एवं बिंदु अपने कार से आ रहे थे वहीं बाइक में मनोज राम थे, उन्होंने सभी घायलों को बाहर निकाल अपने-अपने कार से जिला चिकित्सालय ले जाया गया। वहीं दो घायलों को पिकअप से भेजा गया घटना की जानकारी मिलने पर तत्काल हाईवे पेट्रोलियम की टीम भी पहुंची जिनके द्वारा बीच सड़क पर पलटे ट्रैक्टर एवं स्ट्रक्चर को किनारे करवा यातायात व्यवस्था दुरुस्त कराया। कोतवाली थाना बलरामपुर के द्वारा मृतक के स्वजनों को घटना की जानकारी दी गई।

बलरामपुर में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटने से एक की मौत और तीन लोग घायल हुए।

झूठ बोल रहा इंडी गठबंधन, कांग्रेस 13 राज्यों में खाता भी नहीं खोल पाई: शिवराज

विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सफलता भाजपा और एनडीए गठबंधन को मिली है। कांग्रेस पार्टी इस लोकसभा चुनाव में 13 राज्यों में खाता नहीं खोल पाई है। इंडी गठबंधन इस चुनाव में पूरी तरह से हारा है, लेकिन कांग्रेस हार के बाद भी जश्न मना रही है। कांग्रेस देश में गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है कि वह सफल हुई है। भाजपा कार्यकर्ताओं को यह गलत नैरेटिव सेट नहीं होने देना है। सफलता सिर्फ भाजपा को मिली है, सफल सिर्फ भाजपा हुई है। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण के राज्यों में भी सफलता प्राप्त कर रही है। केरल में पहली बार हमारी पार्टी का खाता



भारतीय जनता पार्टी, मध्यप्रदेश

जहां धर्म होता है, वहीं जीत होती है: सिंधिया

प्रदेश कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है कि वह सफल हुई है। भाजपा कार्यकर्ताओं को यह गलत नैरेटिव सेट नहीं होने देना है। सफलता सिर्फ भाजपा को मिली है, सफल सिर्फ भाजपा हुई है। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण के राज्यों में भी सफलता प्राप्त कर रही है। केरल में पहली बार हमारी पार्टी का खाता

किसान को खेत की जुताई करने पर मिली सालों पुरानी खंडित मूर्ति

हरिभूमि न्यूज ▶▶ गौरैला पेड़ा मरवाही



गौरैला पेड़ा मरवाही में पेड़ा के धनुपुर गांव में किसान की जमीन पर खेत निर्माण और जोताई के दौरान सैकड़ों साल पुरानी खंडित मूर्ति और मंदिर के अवशेष मिले हैं। मामले की जानकारी स्थानीय प्रशासन को भी दे दी गई है, वहीं ग्रामीणों की मानें तो इस इलाके में हमेशा खुदाई के दौरान मूर्ति और मंदिर के अवशेष मिलते हैं और इन्हें सहजने की ज़रूरत है।

पेट्रोल पंप में लगी भीषण, क्रेन समेत 4 चार पाहिया वाहन जले: कुसमुंडा

हरिभूमि न्यूज ▶▶ कुसमुंडा

क्षेत्र अंतर्गत इमली छापर स्थित मुस्कान पेट्रोल पंप में रात लगभग दो बजे वक्त हड़कंप मच गया। जब पंप परिसर में खड़ी चार वाहनों में भीषण आग लग गई। पहले तो पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने अपने स्तर पर उस चारपाहिया वाहन में लगी आग पर काबू पाया। पेट्रोल पंप में रखे अतिव शाकट यंत्र, रेत और पानी से आग पर काबू पाने का प्रयास किया।


उत्तर रेलवे	
खुली ई-निविदा सूचना	
1	कार्य का नाम
2	कार्यस्थल
3	कार्य अवधि
4	विभागीय राशि
5	बयाना राशि
6	ई-निविदा प्रपत्र
7	ई-निविदा प्रपत्र प्राप्त करने का समय
8	ई-निविदा बाँक्स बंद होने की तिथि और समय
9	ई-निविदा खुलने की दिनांक एवं समय
10	ई-निविदा खोलने की स्थान

भारत के राष्ट्रपति, सीनियर डिप्टी जेनरल मैकेनिकल इंजीनियर (समन्वय), उत्तर रेलवे, दिल्ली डिप्टी जेनरल की ओर से अनुमोदित और सक्षम निविदाकर्ताओं से निम्नलिखित कार्य के लिए 'सी एंड डब्ल्यू डिपो एन. बी.एल.एस और ए.एन. वी. टी. में संबद्ध उपकरणों के प्राक्धान के साथ पोर्टल को केबिन की स्थापना और कमीशनिंग के साथ बायो टॉयलेट लेब की स्थापना' पर सीलबंद ई-निविदा आमंत्रित करता है।

उत्तर रेलवे	
ई-निविदा सूचना	
निविदा संख्या	258861DLSLSSBR
कार्य का विवरण	ट्रेनसेट डिपो, शकूरबस्ती में दो वर्ष की अवधि के लिए एफआरपी नोज कम्पनर कभर और एफआरपी साइड दीवारों के पुनर्निर्माण, मरम्मत, पेंटिंग और फिटमेंट का प्राक्धान।
अनुमानित लागत	Rs. 68,93,964.52 (GST-सहित)
बयाना राशि	Rs. 1,37,900/-
कार्य अवधि	02 वर्ष
निविदा प्रपत्र खुलने की तिथि, समय	दिनांक 27.07.2024, 14:00 बजे
निविदा प्रपत्र डाउन लोड करके इंटनेट साइट	उपरोक्त निविदा IREPS साइट पर उपलब्ध है जो कि है www.ireps.gov.in दिनांक 05.07.2024, 16:30 बजे से प्रामाणी है
सं.	258861DLSLSSBR दिनांक 05.07.2024

भाइकों की सेवा में मुस्कान के साथ 2069/24

पहचान की अपील



सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक व्यक्ति (फोटो में दर्शाया गया) जिसका नाम रविंद्र पुत्र रमेश कुमार निवासी मजनु का टीला, (अन्ना) दिल्ली तथा परिवार अन्ना, उम्र लगभग 35 वर्ष, जो दिनांक 05.07.2024 को राजन बाइ टी.बी. अस्पताल, किससे कैम्प, जी.टी.बी. नगर, दिल्ली में मृत पाया गया। इस संदर्भ में एक डीडी नं. 51-ए, दिनांक 05.07.2024 को थाना सिविल लाइंस, उत्तरी जिला, दिल्ली में रिपोर्ट दर्ज है। मृतक के शव को 72 घंटे तक सड़की मण्डी के मुर्दाघर में सुरक्षित रखा गया है। जिसका हुलिया नीचे दिया गया है:-
लिंग: पुरुष, आयु: लगभग 35 वर्ष, कद: 5' 7" फीट, रंग: गेहूँआ, चेहरा: लम्बा, शरीर: पतला, पहचान चिन्ह: बायें गाल पर तिल, पहचानाव: सफेद व नीले रंग की चकदार टी-शर्ट और हरे रंग का लोअर पहना हुआ है।
मृतक के बारे में कोई जानकारी या सुराग रखने वाला कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित पते या टेलीफोन नंबर पर सूचित करें:-
थाना प्रभारी
देवसाइट: <http://cbi.nic.in>
ई-मेल: cic@cbi.gov.in
टेली. नं.: 011-24368638/24368641
फैक्स नं.: 011-24368639
थाना सिविल लाइंस, दिल्ली
फोन: 011-23815444/0633
डो. नं.: 8750870127
DP/8842/N/2024

गुमशुदा की तलाश



सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक लड़की (फोटो में दिखाया गया है) जिसका नाम: शीतल, पुत्री: लाल, निवासी: रोहतक, हरियाणा उम्र: लगभग 6-7 वर्ष, जो कि खामपुर रेड लाईट से 02.07.2024 को सुबह लगभग 9.00 बजे से लापता होने की सूचना मिली है। डीडी नं. 114ए, दिनांक 02.07.2024 के तहत पुलिस स्टेशन अलीपुर, जिला बहारी उत्तर, दिल्ली-110036 में पंजीकृत किया गया। शारीरिक विवरण इस प्रकार है:-
लिंग: लड़की, रंग: साफ, कद: 3 फीट, चेहरा: अण्डाकार, शरीर: दुबला, पहचानाव: काले व सफेद रंग का फ्राक टाईप सूट पहने है।
स्थानीय पुलिस द्वारा हर संभव कोशिश के बाद भी इस लापता लड़की के बारे में कुछ मालूम नहीं हो पाया है। अगर किसी को भी इस लापता लड़की के बारे में कोई जानकारी मिले तो कृपया निम्नलिखित पर सूचित करें।
थाना प्रभारी
पुलिस स्टेशन अलीपुर,
जिला बहारी उत्तर, दिल्ली-110036
फोन: 011-28108771

वैसाइट: <https://cbi.nic.in>
जिला बहारी उत्तर, दिल्ली-110036
DP/8802/ON/2024 फोन: 011-28108771

चिंतन

आतंकवाद के खिलाफ अब निर्णायक एक्शन का वक्त



नई लोकसभा कैप्टन अभिमन्यु

जम्मू-कश्मीर में स्थिति गंभीर होती जा रही है। आतंकियों ने अब कटुआ में सेना के वाहन पर हमला किया, चार जवान शहीद हुए। दो महीने में सेना के वाहन पर यह दूसरा हमला है। इससे पहले 4 मई को पुष्प के शाहसितार इलाके में एयरफोर्स के काफिले पर हमला हुआ था। वहीं दो दिन में यह सेना पर दूसरा हमला है। गत रविवार की सुबह आतंकियों ने राजौरी जिले के मंजाकोट इलाके में एक आर्मी कैंप पर हमला किया था। आतंकियों ने सेना पर यह हमला तब किया जब पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम कटुआ जिले के मचहेड़ी क्षेत्र में तलाशी ले रही थी। इस साल जनवरी से लेकर अब तक जम्मू-कश्मीर में एक के बाद एक कई आतंकी हमले हो चुके हैं। अभी जब केंद्र में मोदी सरकार की तीसरी बार वापसी हुई है, तब से आतंकी हमलों में वृद्धि हुई है। दहशतगर्दी ने इस साल 12 जनवरी को पुंछ में सेना के वाहन पर आतंकी हमला किया था। इससे पहले 21 दिसंबर को सुनारकोट में सेना के काफिले पर आतंकी हमला हुआ। 6 व 7 जुलाई को कुलगाम में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच फायरिंग हुई। इसमें 2 जवान शहीद हुए, 6 आतंकी मारे गए। जून में 7 आतंकी घटना हुई है, जिसमें 9 आतंकी मारे गए। 9 जून से 12 जून के बीच 3 आतंकी हमले हुए। कश्मीर में हो रहे आतंकी हमले में पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट (पीएफएफ), हिब्तुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी गुटों का हाथ बताया जाता है। ये ऐसे आतंकी गुट हैं, जिनके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। जम्मू-कश्मीर में मोदी सरकार के पहले कार्यकाल से ही आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन चल रहा है, एक समय लगा कि घाटी से आतंकवाद का करीब - करीब सफाया हो गया है, आतंकियों की औसत उम्र छह माह से भी कम हो गई थी। पत्थरबाजी पर अंकुश लगा, लेकिन इधर छह महीनों में आतंकी घटनाओं में तेजी आई है। पाक प्रायोजित आतंकी गुटों ने कश्मीर को फिर से अशांत करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान बेशक आर्थिक रूप से चर्जर हो, लेकिन पाक फौज और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम अनवरत जारी रखी हुई हैं। पाक एस्टाब्लिशमेंट की भारत व पाक नियंत्रण रेखा एलओसी (लाइन ऑफ कंट्रोल) पर आतंकियों की भारत में घुसपैठ कराने की हमेशा कोशिश रहती है, कश्मीर में होने वाले अधिकांश आतंकी हमले में पाक घुसपैठिए आतंकवादी शामिल रहते हैं। यह साफ है कि पाकिस्तान अपनी हकतों से बाज नहीं आ रहा है। अभी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में भारत ने आतंकवाद का मुद्दा मुखरता से उठाया था और एससीओ को अपना स्टैंड साफ करने के लिए कहा था। चीन के आधिपत्य वाले एससीओ में भारत व पाकिस्तान भी सदस्य हैं, ऐसे में पाकिस्तान पर भारत के खिलाफ आतंकवाद बंद का दबाव आवश्यक है। हालांकि चीन का पाक के आतंकवाद पर दुलमुल रवैया रहा है। भारत को आतंकवाद के खिलाफ एक्शन को और कठोर बनाना होगा, कश्मीर में दहशतगर्दी के सफाये के साथ पाक में बैठे भारत विरोधी आतंकी गुटों के खिलाफ भी ठोस कार्रवाई करनी होगी। पाकिस्तान पर आतंकवाद के खामे का दबाव बढ़ाना होगा। दूसरी बार देश के गृहमंत्री बनने के बाद अमित शाह ने कहा है कि राजग सरकार आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक एक्शन लेंगी, तो अब वह समय आ गया है।

हंगामा नहीं, विमर्श का समय

आठवीं लोकसभा का आगाज 24 जून को विशेष सत्र से हो चुका है। हमेशा की तरह पहले सदस्यों ने शपथ ली, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संयुक्त सत्र में अभिभाषण हुआ। अभिभाषण पर चर्चा के साथ देश की सबसे बड़ी पंचायत में कामकाज की शुरुआत हो गई। यह संक्षिप्त सत्र था, तो भी विपक्ष ने मर्यादित रहना उचित नहीं समझा। पीएम नरेन्द्र मोदी के धन्यवाद प्रस्ताव संबोधन के दौरान विपक्ष की अनवरत नारेबाजी ने खलल डाला। संसद में विपक्ष के हंगामे को समूचे देश ने देखा। यह चिंता की बात है कि क्या संसद में सुनने-सुनाने का सामान्य शिष्टाचार भी खत्म हो रहा है? अब 22 जुलाई से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। तो क्या इस सत्र में भी विपक्ष का यही रूप रहेगा? जबकि पीएम मोदी की राजग सरकार के लिए अगले पांच साल महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, जिसमें संसद की भी अहम भूमिका होगी। राजग के इसी कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगा। इसी कार्यकाल में 'एक देश एक चुनाव' पर किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश होगी। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर सशक्तिकरण का द्वार भी इसी कार्यकाल में खुलना है। यही कार्यकाल भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प की दशा और दिशा तय करने में भी भूमिका निभाएगा। सवाल है कि क्या नई लोकसभा में हमें विभिन्न दलों में कूड़ कर दिखाने की सामूहिक संकल्प शक्ति प्रदर्शित करने की उम्मीद रखनी चाहिए? यह सवाल बेहद जरूरी है। जरूरी इसलिए कि एक दशक में संसद कामकाज से अधिक हंगामे, शोर-शराबे और जनप्रतिनिधियों-दलों के अवसरवादी आचरण के कारण चर्चा में रही है। संसद में सुचारू कामकाज के संचालन के प्रति दलों में घटती जवाबदेही ने संस्थागत विश्वसनीयता को बेहद कमजोर किया है। आम जनमानस में देश की सबसे बड़ी पंचायत की छवि धूमिल हुई है। ऐसे में यह सवाल प्रासंगिक है कि क्या विभिन्न दल और उसके प्रतिनिधि अतीत से सबक लेते हुए संसद की कम होती जा रही विश्वसनीयता के प्रति चिंता दर्शाएंगे, या फिर भविष्य में नई लोकसभा के पन्ने भी कामकाज, श्रुतिता, प्रतिबद्धता की जगह हंगामे और बेवजह के शोर के अध्वय से भरे पड़े होंगे?

जमा ली है। मसलन पिछली लोकसभा ने सबसे कम बैठकों का कीर्तिमान बनाया। केवल 274 बैठकें हुईं जो औसत 468 बैठकों से बहुत कम है। इस दौरान वित्त विधेयक को छोड़ कर 179 विधेयक पारित किए गए। चिंताजनक तथ्य यह है कि इनमें से 35 प्रतिशत विधेयकों को पारित कराने में एक घंटे से भी कम समय लगा। सिर्फ 30 प्रतिशत विधेयकों पर ही लगभग तीन घंटे से अधिक की चर्चा हुई। जरा सोचिये, संसद में पारित विधेयक कानून का रूप अखंड्यार कर 140 करोड़ लोगों का भविष्य तय



करते हैं। बावजूद इसके विधेयकों पर चंद्र मिनट की चर्चा की औपचारिकता निभाना, देश की सबसे बड़ी पंचायत की कैसी छवि बनाएगा? बात यहीं तक सीमित नहीं है। संसद का सबसे महत्वपूर्ण अंग संसदीय समितियां लगातार निष्प्रभावी होती जा रही हैं। विधेयकों को विचार के लिए समितियों को भेजने का सिलसिला लगातार कम होता जा रहा है। मसलन 14वीं लोकसभा में 60 प्रतिशत, 15वीं में 71 प्रतिशत, 16वीं में 25 प्रतिशत विधेयक संसद में पेश करने से पहले संसदीय समितियों को भेजे गए। पिछली लोकसभा में महज 16 प्रतिशत विधेयक ही संसदीय समितियों को भेजे गए। बीती लोकसभा में 45 में से 11 सत्र समय से पूर्व स्थगित कर दी गईं। हंगामे के कारण कार्यवाही स्थगित होना अब सामान्य बात हो गई है।

अब सवाल है कि आखिर ऐसी परिस्थिति आई क्यों? इसके लिए हम किस जिम्मेदार ठहरा सकते हैं या किस जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? सबसे पहले तो इस तथ्य को सभी दलों को स्वीकार करना होगा कि संसद मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए है। नई परिस्थितियों, नई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए विमर्श के माध्यम से नए कानून बनाने और जरूरत पड़ने पर पुराने कानून में संशोधन करने के लिए है। संसद की स्थापना या गठन का मूल उद्देश्य यही है। समस्या यह है कि राजनीतिक दलों ने संसद को सियासत का माध्यम बना लिया है।

संसद के विशेष सत्र में विपक्ष के हंगामे को समूचे देश ने देखा। अब 22 जुलाई से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। तो क्या इस सत्र में भी विपक्ष का यही रूप रहेगा? एक दशक में संसद कामकाज से अधिक हंगामे, शोर-शराबे और जनप्रतिनिधियों-दलों के अवसरवादी आचरण के कारण चर्चा में रही है। अब सवाल है कि आखिर ऐसी परिस्थिति आई क्यों? इसके लिए हम किस जिम्मेदार ठहरा सकते हैं या किस जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? आखिर तौर पर नकारात्मक राजनीति का लाभ किसी को हासिल नहीं होगा। इसकी कीमत विपक्ष को भी चुकानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री ने सभी दलों से दलहित-निजी हित से ऊपर उठ कर नई लोकसभा में अपना योगदान देने का आह्वान किया है।

बैंकिंग रिफॉर्म आर.के. सिन्हा




साइबर टगों व करप्शन से बचाना होगा बैंकों को

नरेन्द्र मोदी सरकार के केंद्र में लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने के बाद एक उम्मीद पैदा हुई है कि सरकार अब बैंकिंग सेक्टर को अधिक पारदर्शी और बेहतर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाती रहेगी। बीते कुछ सालों के दौरान, भारतीय बैंकों ने जितने उतार-चढ़ाव झेले हैं, शायद किसी अन्य देश ने नहीं झेला होगा। कई भारतीय बैंक अनेक घोटालों-घपलों, ऋण अदायगी न होने, जालसाजियों, अनजर्क परिसम्पत्तियों (नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स) के बढ़ते बोझ, कर्मजाफ़ी की गलत नीतियों आदि के कारण कई बार तो पूरी तरह डूब गए या भारी घाटे में चले गए। इससे निपटने के लिए पूर्ववर्ती केंद्र सरकारों ने कुछ कदम भी उठाए, लेकिन, इनके आधे-अधूरे कार्यान्वयन से आशातीत सफलता नहीं मिली। लेकिन, राहत की बात है कि मोदी सरकार ने पिछले दस वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र में फैली गड़बड़ियों को दूर करने के लिए अनेक फौरी कदम उठाए, जिससे बैंकों की स्थिति में अब धीरे-धीरे सुधार आने लगा है। अनेक बैंक न सिर्फ घाटे से उबर कर लाभ की ओर अग्रसर हैं, बल्कि अनेकों घोटालों पर लगाम भी लगी है। अनेक घोटालेबाजों की सम्पत्ति कुर्क कर ऋण वसूली भी की गई है, बैंकों का पुनर्पूजीकरण किया गया और अनजर्क परिसम्पत्तियों का बोझ काफी कम हुआ है। क्या यह सुखद स्थिति नहीं है कि 2013 से 2017 के बीच बैंकों की अनजर्क परिसम्पत्तियां 12.47 प्रतिशत थी, जो धीरे-धीरे लुप्तकृते हुए सितंबर 2023 में 3.2 प्रतिशत हो गईं, भले ही इसमें सरकार द्वारा बैंकों के पुनर्पूजीकरण का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब सवाल यह है कि क्या बैंकों में सुधार की वर्तमान स्थिति भविष्य में भी जारी रहेगी या "लौट के बुद्ध घर आए" की कहावत चरितार्थ होगी? भारतीय बैंक इस तथ्य के साक्षी हैं कि देश की आजादी से पहले और बाद में भी वे डूबते रहे या भारी घाटा सहते रहे हैं। यह उबड़-खाबड़ स्थिति सोचने को विवश करती है कि जब तक लंबे समय तक सुधार प्रक्रिया जारी नहीं रहेगी, तब तक समस्या का स्थायी निराकरण संभव नहीं है। इस विषय पर वरिष्ठ लेखक श्रीपाल जैन की हालिया प्रकाशित पुस्तक – "भारतीय बैंकों का बदलता चेहरा" उपरोक्त विविध पहलुओं का बखूबी विश्लेषण करती है। आजादी से पहले और बाद में बैंकों में घोटालों, महाघोटालेबाजों, जालसाजी के हथकंडों, बैंकिंग में साइबर अपराधों, येस बैंक के उत्कर्ष एवं पतन, अनजर्क परिसम्पत्तियों के मकड़जाल आदि का विस्तृत विवरण दिया गया है। साथ ही, बैंकों के निजीकरण की गूँज, कृषि ऋणमाफी के अर्थशास्त्र, नोटबंदी, जन-धन योजना, रिजर्व बैंक की स्वायत्तता, डिजिटल बैंकिंग की बढ़ती लोकप्रियता एवं जोखिम आदि की आलोचनात्मक चर्चा की गई है। देश में आजादी के बाद निजी और सरकारी बैंक दोनों थे, लेकिन, उनमें अनेक घोटाले हुए और कई बैंक डूबे भी। फिर भी, सरकारी बैंक अर्थव्यवस्था की प्रगति एवं व्यवसाय में वृद्धि में एक प्रमुख इंजन रहे। निजी बैंक आम लोगों के आसानी से खाते भी नहीं खोलते थे। जुलाई 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण से आम जनता की बैंकों तक पहुंच बढ़ने लगी। इस दौर में अनेक बैंकों का विलय हुआ, जिसके कतिपय सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे। लेकिन धीरे-धीरे सरकारी बैंकों में भ्रष्टाचार, रिश्ततखोरी, राजनीतिक हस्तक्षेप आदि से असली और फर्जी कंपनियों को अनाप-शनाप मात्रा में ऋण दिए गए, जिनमें से कईयों की वसूली नहीं हुई या आंशिक वसूली हो पाई। इससे सरकारी और निजी बैंकों दोनों को भारी घाटा हुआ। 1990 के दशक के आरंभ में उदारीकरण की नीति अपनाई गई और कुछ समय के बाद आधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस (क्रेडिट कार्य, डेबिट कार्य, चेकों का शीघ्र समशोधन, बीमा, म्यूचुअल फंड खोलना आदि) एच.डी.एफ.सी., आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, येस बैंक जैसे निजी बैंक लोकप्रिय हुए। निजी बैंकों के नए उत्पादों, योजनाओं और आधुनिक प्रौद्योगिकी ने सरकारी बैंकों के सामने लगाड़ी प्रतिस्पर्धा पेश कर दी। इससे सरकारी एवं अन्य निजी बैंक भी नए उत्पादों, योजनाओं और आधुनिक प्रौद्योगिकी का सहारा लेने को विवश हुए। नतीजतन, सरकारी एवं निजी बैंकों की स्थिति में कुछ सुधार अवश्य दर्ज किया गया, लेकिन उदारीकरण की लहर में घोटालों-घपलों, रिश्ततखोरी, भ्रष्टाचार, राजनीति हस्तक्षेप का सिलसिला भी आगे बढ़ता गया। हर्षद मेहता, केतन पारिख के घोटाले और ग्लोबल ट्रस्ट जैसे बैंक के डूबने जैसे घटनाक्रम इसी काल में हुए। मोदी सरकार के प्रथम कार्यकाल में पी.एन.बी. बैंक, पी.एम.सी. बैंक एवं अन्य सहकारी बैंकों, येस बैंक के घोटालों, महाघोटालेबाजों के विदेश भागने से भारी संकट पैदा हो गया था।

(लेखक वरिष्ठ जगद्वज, सभ्यकार और पूर्व सांसद हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

शिव कोई नाम नहीं है

सद्गुरु। मनुष्य की प्रकृति को समझने, हर तरह के मनुष्य के लिए एक रास्ता खोजने के अर्थ में, यह वाकई एक शाश्वत या हमेशा बना रहने वाला योगदान है। यह उस युग का या उस युग के लिए योगदान नहीं है। सृष्टि का अर्थ है कि जो कुछ नहीं था, वह एक-दूसरे से मिलकर कुछ बन गया। उन्होंने इस सृष्टि को खोलकर एक शून्य की स्थिति में लाने का तरीका खोजा। इसलिए हमने उन्हें शिव नाम दिया। इसका अर्थ है 'वह जो नहीं है'। जब 'वह जो नहीं है', कुछ या 'जो कुछ है' बन गया, तो हमने उस आयाम को ब्रह्म कहा। शिव को यह नाम इसलिए दिया गया, क्योंकि उन्होंने एक तरीका, एक विधि नहीं, बल्कि हर संभव तरीका बताया कि चरम मुक्ति को कैसे पाएं, जिसका अर्थ है, कुछ से कुछ नहीं तक जाना। शिव कोई नाम नहीं हैं, वह एक वर्णन है। जैसे यह कहना कि कोई डाक्टर है, वकील है या इंजीनियर है, हम कहते हैं कि वह शिव हैं, जोवन को शून्य बनाने वाले। इसे जीवन के विनाशकर्ता के रूप में थोड़ा गलत समझ लिया गया, लेकिन वह भी सही है। बात मात्र यह है कि जब आप 'विनाशकर्ता' शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो लोग उसे बुरा समझ लेते हैं। अगर किसी ने 'मुक्तिदाता' कहा होता तो उसे अच्छा माना जाता। धीरे-धीरे 'शून्य करने वाला', 'विनाशकर्ता' बन गया और लोग यह सोचने लगे कि वह कुरे हैं। आप उन्हें कुछ भी कहिए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता- बुद्धिमत्ता की प्रकृति यही है। अगर आपको बुद्धिमत्ता एक कंचाई पर पहुंच जाती है, तो आपको किसी नैतिकता की जरूरत नहीं होगी।



संकलित **दर्शन**

संतान गुस्सा हो तो शांत करने की कोशिश करें

पुराने समय में एक दिन शिव जी और पार्वती जी ने विचार किया कि अब गणेश और कार्तिकेय का विवाह कर देना चाहिए। ये विचार करने के बाद उन्होंने कार्तिकेय स्वामी और गणेश जी को बुलाया और दोनों से कहा कि आप दोनों में से जो इस संसार की परिक्रमा करके पहले आएगा, हम उसका विवाह पहले कराएंगे। कार्तिकेय स्वामी तो अपने वाहन मोर पर बैठकर तुरंत उड़ गए, लेकिन गणेश जी अपने वाहन चूहे पर बैठे हुए थे। गणेश जी ने ने तुरंत ही माता-पिता की परिक्रमा कर ली और कह दिया कि आप दोनों ही मेरे लिए संसार हैं। दूसरी ओर, कार्तिकेय स्वामी को संसार की परिक्रमा करके लौटने में थोड़ा समय लग गया। जब कार्तिकेय स्वामी परिक्रमा करके लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश का विवाह हो गया है। गणेश जी को विवाहित देखकर कार्तिकेय स्वामी नाराज हो गए। उन्होंने शिव-पार्वती से कहा कि आपने ये सही नहीं किया है। क्रोधित होकर कार्तिकेय स्वामी क्रौंच पर्वत पर चले गए। ये क्रौंच पर्वत आज दक्षिण भारत में कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। इसे श्रीपर्वत भी कहते हैं। शिव जी और देवी पार्वती ने कार्तिकेय स्वामी को समझाने की बहुत कोशिशें कीं, लेकिन कार्तिकेय शांत नहीं हुए। शिव-पार्वती समझ गए कि कार्तिकेय बहुत ज्यादा गुस्से में है और ये वापस भी नहीं आएगा। तब दोनों ने तय कि वे ही कार्तिकेय से मिलने जाते रहेंगे। इसके बाद हर अमावस्या पर शिव जी और पूर्णिमा पर देवी पार्वती कार्तिकेय से मिलने श्रीपर्वत पर आती हैं।

संकलित **प्रेरणा**



अंतर्मन



करंट अफेयर

चिकित्सकों के साथ गतिरोध खत्म करेगा दक्षिण कोरिया

दक्षिण कोरिया ने सोमवार को कहा कि वह देश में लंबे समय से चिकित्सकों के साथ जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए, हड़ताल करे चिकित्सकों के लाइसेंस निलंबित करने की अपनी पहले की योजना वापस लेगा। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार की घोषणा के बाद, हड़ताल कर रहे कितने हजार चिकित्सक काम पर लौटेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जो वयो होंग ने सोमवार को कहा कि सरकार ने हड़ताल कर रहे चिकित्सकों के लाइसेंस निलंबित न करने का फैसला किया है, चाहे वे अपने अस्पतालों में काम पर लौटें या नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार के फैसले का उद्देश्य आपातकालीन तथा गंभीर रूप से बीमार मरीजों का इलाज कर रहे चिकित्सकों की कमी से निपटना है। चिकित्सा प्रशिक्षु और रेजीडेंट के तौर पर काम कर रहे 13,000 से अधिक जूनियर चिकित्सक मंडिकल कॉलेज में दाखिलों में वृद्धि करने की सरकार की योजना के विरोध में फरवरी से हड़ताल पर है। उनकी हड़ताल से अस्पतालों के कामकाज पर काफी असर पड़ा है। उनकी हड़ताल को उस समय झटका लगा जब मई में सियोल की एक अदालत ने सरकार की योजना के समर्थन में फैसला दिया।



ऑफ बीट

16 कीड़ों का होगा सिंगापुर में भोजन के रूप में इस्तेमाल

सिंगापुर के खाद्य नियामक ने मनुष्यों के भोजन के रूप में झींगुर, टिट्टे और टिट्टियों जैसे कीड़ों की लगभग 16 प्रजातियों के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। 'द स्ट्रेट्स टाइम्स' समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार, यह बहुमतीयत घाेषणा उद्योग जगत के उन कारोबारियों के लिए खुशखबरी है जो चीन, थाईलैंड और वियतनाम में मिलने वाले कीड़ों की सिंगापुर में आपूर्ति और खानपान का कारोबार करते हैं। भोजन के लिए स्वीकृत कीड़ों में झींगुर, टिट्टे, टिट्टियां, भीलवर्म (भोजनकृमि) और रेशमकीट की विभिन्न प्रजातियां शामिल हैं। सिंगापुर खाद्य एजेंसी (एसएफए) ने कहा कि जो लोग मानव उपभोग या पशुधन के चारे के लिए कीड़ों का अभाव या पालन करना चाहते हैं, उन्हें एसएफए के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। इन दिशानिर्देशों के तहत, इस बात का दस्तावेजी सबूत मुहैया कराना अनिवार्य है कि आयतित कीड़ों का खाद्य सुरक्षा नियंत्रण से संबंधित विनियमित प्रतिक्रानों में पालन किया गया और इन्हें जंगलों से नहीं लाया गया। एजेंसी ने कहा कि जो कीड़े एसएफए की 16 कीटों की सूची में नहीं हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए आकलन से गुजरना होगा कि वे उपभोग के लिए सुरक्षित हैं।



टैंड

वातावरण के साथ जुड़ाव

ऐसे स्थान है जो हमें याद दिलाते हैं कि हम प्रकृति का हिस्सा हैं। पहाड़, जंगल, नदियाँ और समुद्र तट हमारे भीतर की किसी गहरी चीज को आकर्षित करते हैं। आज जैसे ही मैं समुद्र के किनारे चली, मुझे आस-पास के वातावरण के साथ एक जुड़ाव महसूस हुआ। -द्रौपदी मुर्मु, राष्ट्रपति



मजबूत संबंध

मास्को पहुंच गया हूँ। दोनों देशों के बीच विशेष और विदेशाधिकार प्राप्त राजनीतिक साझेदारी को और अधिक गहरा करने की आशा है, विशेषकर सहयोग के नैतिक क्षेत्रों में। हमारे देशों के बीच मजबूत संबंधों से हमारे लोगों को बहुत लाभ होगा। -नेशनली यादव, प्रधानमंत्री



बजट ही बिगाड़ दिया

कोई एक सखी का नाम बताए जो 45 रुपए किलो से कम हो? आलू, प्याज, टमाटर, मिर्च, हरी मिर्च, गोभी, अदरक, शिमला मिर्च, टर्बूट, बैंगन, लहसुन के भाव आसमान छू रहे हैं। दाल, चावल, जमक, तेल, ग्री की कीमतों ने बढ़तीतरी ने आम आदमी का बजट ही बिगाड़ दिया है। -तेजस्वी यादव, राजद नेता



कोई समस्या नहीं आएंगी

जीवन में बड़ा लक्ष्य बना। हम जैसे ही सत्य और उच्च लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो मार्ग में मान-सम्मान, धरा-अपराध, हानि-लाभ, जय-पराजय जैसी अवस्थाएं स्वाभाविक रूप से आएंगी, किंतु जीवन में कोई भी समस्या बाधित नहीं कर पाती है। -अवधेशानंद, आध्यात्मिक गुरु



अपने विचार हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फ़ैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से : hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

देश के कई राज्यों में भारी बारिश का कहर, आम जनजीवन प्रभावित

महाराष्ट्र में रेलवे ट्रैक पर चलकर विधानसभा पहुंचे मंत्री, असम में 22 लाख लोग बाढ़ की चपेट में, ऋषिकेश में 600 श्रद्धालु फंसे

एजेसी ▶▶ मुंबई

देश के कई राज्यों में लगातार बारिश ने कहर बरपाया है। आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। उत्तराखंड में पिछले 4 दिनों से जारी तेज बारिश के चलते केदारनाथ, बद्रीनाथ हाईवे समेत 115 से ज्यादा सड़कें बंद हो गईं। कई रास्ते लैंडस्लाइड की वजह से तो कुछ बह जाने के कारण बंद हो गए। इसके बाद चार धाम यात्रा रोक दी गई। इससे जगह-जगह 6 हजार श्रद्धालु फंसे हैं। गंगा, समेत 6 नदियां खतरे के निशान के करीब बह रही हैं।

महाराष्ट्र में आम जनता के साथ-साथ मंत्री और एमएलसी भी इससे अछूते नहीं हैं। बारिश के बाद आवागमन बाधित होने के बाद मंत्री और एमएलसी रेलवे ट्रैक पर पैदल चलकर विधानसभा पहुंचे हैं। वहीं ठाणे में पहाड़ी पर भूस्खलन हुआ है, हालांकि गनीमत की बात ये रही की इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। दरअसल, महाराष्ट्र के राहत-पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री अनिल पाटिल और एनसीपी एमएलसी अमोल मित्तकारी के हावड़ा-मुंबई ट्रेन से उतरकर कुछ दूर तक रेल की पटरियों पर चले। वहीं इस मामले में एनसीपी नेता मित्तकारी ने कहा, ट्रेन करीब दो घंटे तक फंसी रही। हम दादर और कुर्ला स्टेशनों के बीच पटरियों पर उतरें थे। मैं रेलवे पटरियों समेत करीब 2 से 2.5 किलोमीटर पैदल चला और नेहरू नगर पुलिस स्टेशन पहुंचा। इस दौरान उन्होंने बताया कि कुछ विधायक भी उसी ट्रेन में फंसे हुए

उत्तराखंड में गंगा समेत 6 नदियां खतरे के निशान पर

तेलंगाना, मप्र, छत्तीसगढ़, बिहार में हवाओं की गति 30-40 किमी प्रति घंटे रहेगी

उप हिमालयी जिलों में 12 जुलाई तक तेज बारिश होगी

आज भी चलेंगी तेज रफ्तार से हवाएं, होगी भारी बारिश

असम: 22 लाख लोग बाढ़ में फंसे, 8 लोगों की मौत



असम में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। बाढ़ में आठ और लोगों की जान चली गई। इससे इस साल की बाढ़, लैंडस्लाइड और तूफान में मरने वालों की संख्या बढ़कर 78 हो गई है। कार्जोरंगा नेशनल पार्क में 128 जानवर जान गंवा चुके हैं। 28 जिलों के 3,446 गांवों में 22.74 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।



उत्तराखंड में बार दिन से जारी बारिश के चलते गंगा, अलकनंदा, मानसरोथी, सारदा, मंदाकिनी और कोसी नदी खतरे के निशान पर बह रही हैं। ऋषिकेश में गंगा नदी का स्तर 339.15 मीटर है, जो खतरे के निशान के बंद करीब है। इसलिए हरिद्वार प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। उधर, लगातार बारिश के चलते बद्रीनाथ, गौरीनाथ से लेकर जोशीमठ तक बिजली ठप हो गई है। ऋषिकेश एआरटीओ मोहित कोठारी के मुताबिक पहाड़ी पर मौसम बहुत खराब है, इसलिए हरिद्वार और ऋषिकेश में 600 श्रद्धालु फंसे गए हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने हरिद्वार से आगे जाने पर रोक लगा दी है। गंगोत्री और यमुनोत्री जा रहे 480 यात्रियों को मद्रकोली चेकपोस्ट पर रोक है। मौसम विभाग के अनुसार 1 जून से अब तक उत्तराखंड में 276.8 मिमी बारिश हो चुकी है, जबकि सामान्य कोटा 259 मिमी है। पूरे मानसून के सीजन में उत्तराखंड में 1162.2 मिमी औसत बारिश को सामान्य मानसून माना जाता है।

हरिद्वार में प्रशासन अलर्ट पर, कई जगहों पर बिजली ठप



उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में तवाघाट में कैलाश यात्रा के यात्रियों को बचाया गया।

हिमाचल प्रदेश: 76 सड़कें बंद, सामान्य से 66% ज्यादा बारिश



हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण 76 सड़कें बंद हो गई हैं। 69 जल आपूर्ति और 34 बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई हैं। राज्य में 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच 72.1 मिमी बारिश हुई है। यह इस अवधि की सामान्य बारिश से 66% ज्यादा है।

देहरादून में मसलाधार बारिश: 'समंदर' बनीं सड़कें, घुटनों तक भरा पानी, डूबते दिखे वाहन



देहरादून में पिछले कई दिनों से रोजाना रक-रक कर बरसात का दौर जारी है। सोमवार को भी दोपहर बाद तेज बरसात शुरू हो गई। बरसात इतनी तेज थी कि सड़कें पानी से खालब हो गईं। रिसूना पुल के समीप मुख्य सड़क पर भारी मात्रा में पानी भर गया। इससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा अजबपुर फ्लाईओवर पर बने अंडरपास में पानी भर गया।

पश्चिम बंगाल: कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात जलपाईगुड़ी में 166 एमएम बारिश

पश्चिम बंगाल के हिमालय की तराई वाले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। जलपाईगुड़ी में शनिवार सुबह 8:30 बजे से रविवार सुबह 8:30 बजे के बीच 166 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि बागडोगरा में 103 मिमी बारिश हुई। बारिश का अलर्ट है।

खबर संक्षेप

गैंगस्टर की इसी ने रद्द की पेरोल

चंडीगढ़। पंजाब के जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के हक में प्रचार कर रहे गैंगस्टर दलजीत सिंह भाना की पेरोल चुनाव आयोग ने रद्द कर दी है। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक पेरोल रद्द करने का निर्देश दिया गया है।

पर्याप्त सबूत मिलने पर दाखिल होगी चार्जशीट

बैंगलूरु। रेणुकास्वामी हत्याकांड मामले में कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा है कि पर्याप्त सबूत होने के बाद ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी। इस हत्याकांड के आरोपी दर्शन ध्रुवदीपा, उनकी करीबी दोस्त पवित्रा और 15 अन्य लोग 18 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में हैं। मामले में किसी को बचाया नहीं जाएगा।

दिल्ली हाई कोर्ट ने तिहाड़ प्रशासन से मांगा जवाब

नई दिल्ली। शराब घोटाला मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर तिहाड़ जेल प्रशासन से जवाब मांगा है। उन्होंने न्यायिक हिरासत अवधि के दौरान वकीलों के साथ दो अतिरिक्त बैठकें करने की मांग की थी।

ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका जारी रहेगी संदेशखाली मामले की सीबीआई जांच, एक को बचाने में क्यों जुटी सरकार?

ईडी अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के निर्लंबित नेता शाहजहां शेख के यहां छापा मारने गए थे, जहां उन पर हमला किया गया था। हाई कोर्ट में ईडी ने पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी जिसके बाद शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपा गया।

एजेसी ▶▶ नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण और जमीन हथियाने व राशन घोटाले से जुड़े सभी मामलों की जांच सीबीआई को सौंप जाने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की अर्जी को खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार किसी शख्स को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि किसी को बचाने में राज्य की रूचि क्यों होनी चाहिए? बेंच ने कहा कि पिछली सुनवाई में जब शीर्ष अदालत ने यह विशेष प्रश्न पूछा था तो राज्य सरकार के वकील ने कहा था कि मामले को स्थगित किया जाए। जजों ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि धन्यवाद। याचिका खारिज की जाती है। 5 मार्च को कलकत्ता हाई कोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि आरोपित शाहजहां शेख काफी प्रभावी व्यक्ति हैं और उसका सत्ताधारी दल से संबंध है। राज्य की पुलिस ने उसे बचाने के लिए लुका-छिपी का खेल खेला।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने दिया निर्णय

ममता सरकार के रवैये पर हाई कोर्ट ने उठाए कई सवाल

5 मार्च को कलकत्ता हाई कोर्ट ने मामला सीबीआई को सौंपने का दिया था आदेश



प्रांतीयों के खरीदार हो रहे धोखाधड़ी के शिकार एक नियम बनाएं

देश भर में बिल्डर और प्रांतीय खरीदारों के बीच डील को लेकर एक ऐसा नियम बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यह बात कही। अदालत ने कहा कि पूरे देश में ही प्रांतीयों के खरीदार धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं। चीफ जस्टिस डीवाइ चंद्रचूड़ की अनुवाइ वाली बेंच ने कहा कि बायर्स पर बिल्डर क्या-क्या चीजें थोप सकते हैं। इसे लेकर एक देशव्यापी नियम होना ही चाहिए। अन्यथा पूरे देश में खरीदारों के साथ बिल्डर धोखा करते रहेंगे। एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय की ओर से 2020 में दाखिल पीआईएल पर सुनवाई करते हुए बेंच ने ये बातें कही। बेंच में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे। अदालत ने इससे पहले जनवरी 2022 में कहा था कि एक 'नेशनल मॉडल बिल्डर-बायर अग्रीमेंट' होना चाहिए।

पूर्व सीजेआई सुलझाएंगे कुलपतियों की नियुक्ति का मसला



सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देश के पूर्व चीफ जस्टिस रह चुके यूसु ललित को पश्चिम बंगाल में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए समिति का प्रमुख नियुक्त किया है। उनके अलावा समिति में पांच सदस्य होंगे, जो हर विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति के लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तीन नामों का पैलल तैयार करेंगे। यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए तीन महीने का समय निर्धारित किया गया है। समिति की सिफारिशें, अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित, सीएम को प्रस्तुत की जाएंगी। दरअसल, बंगाल की टीएमसी सरकार का राज्य के गवर्नर सीवी आनंद बोस के साथ राज्य के विश्वविद्यालयों के संचालन के तरीके को लेकर मतभेद चल रहा है।

सोरेन का शक्ति प्रदर्शन सदन में जीता विश्वास मत विपक्ष ने किया वॉकआउट



एजेसी ▶▶

पूर्व सीएम चंपई सोरेन बने मंत्री

हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो गया है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झामुमो नीत गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं और अन्य सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति में राजभवन में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। पूर्व सीएम चंपई सोरेन को भी मंत्री बनाया गया है। हालांकि हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। इस मंत्रिमंडल में झारखंड नृति मौरा की तरफ से बसंत सोरेन, दीपक बीरुआ, हर्षीजुल हसन अंसारी, बेबी देवी, मिथिलेश ठाकुर, बैद्यनाथ राम को जगह दी गई है। बता दें कि बैद्यनाथ राम को छोड़कर ये सभी नेता हेमंत और चंपई सोरेन सरकार में भी मंत्री पद पर थे। वहीं आरजेडी के कोटे से सत्यानंद मोताता को मंत्री बनाया गया है।

छोटे व सीमांत किसानों को सशक्त करेगी सरकार दिल्ली हाट में एफपीओ मेले में शामिल हुए केंद्रीय कृषि मंत्री

हरिभूमि ब्यूरो ▶▶ नई दिल्ली



केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश के छोटे व सीमांत किसानों को सशक्त बनाने के लिए कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) को एक आंदोलन के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। इसी कड़ी में केंद्र सरकार द्वारा देशभर में एफपीओ मेले लगाए जाएंगे, जिनके माध्यम से किसानों के एफपीओ को प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार का उद्देश्य है कि एफपीओ के माध्यम से हमारे किसान भाई-बहन अपने पैरों पर खड़े हो और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठे। कृषि मंत्री चौहान ने सोमवार को दिल्ली हाट में आयोजित एफपीओ मेले में कहा। कृषि चौहान ने हरेक स्थल पर जाकर एफपीओ संचालकों व किसानों से बात की, एफपीओ के माध्यम से उनकी प्रगति पूछी, साथ ही सुझाव भी लिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने और देश के छोटे किसानों के बढ़ते हुए सामर्थ्य को संगठित रूप देने में

हमारे किसान उत्पाद संगठनों-एफपीओ की बड़ी भूमिका है। सरकार इस बात पर ध्यान दे रही है कि एफपीओ से जुड़े किसानों को भी उनके उत्पाद बेचने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, जिससे उन्हें तो अधिक लाभ होगा ही, उपभोक्ताओं को भी गुणवत्तापूर्ण उत्पाद सही दाम पर मिलेंगे। उन्होंने बताया कि देशभर में 10 हजार नए एफपीओ बनाने की भारत सरकार की योजना बहुत सफलता से आगे बढ़ रही है, जिसके अंतर्गत अभी तक पौने नौ हजार से ज्यादा एफपीओ बनाए जा चुके हैं, एफपीओ का यह बहुत बड़ा एक परिवार है और हम सब मिल-जुलकर साथ में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने एक लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड सहित केंद्र की अन्य योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की।

राहुल गांधी ने असम और मणिपुर का दौरा किया कांग्रेस शांति बहाली के लिए प्रयास करेगी

एजेसी ▶▶ इफाल

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी से मणिपुर में जातीय हिंसा से प्रभावित लोगों को सांत्वना देने के लिए पूर्वोत्तर राज्य का दौरा करने का अनुरोध किया। गांधी ने कहा कि कांग्रेस मणिपुर में शांति बहाली के लिए हरसंभव प्रयास करेगी। पिछले साल मई में मेइती और कुकी समुदायों के बीच भड़की जातीय हिंसा में अब तक मणिपुर में 200 से अधिक लोगों की जान गई है।

राहुल गांधी ने कहा कि पीएम को बहुत पहले ही मणिपुर का दौरा कर लेना चाहिए था। उनका मणिपुर आना बहुत जरूरी है। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वह मणिपुर आएँ और यहां क्या हो रहा है, इसे समझने की कोशिश करें। मणिपुर के लोग ही नहीं, बल्कि संभवतः पूरे देश के लोग चाहते हैं कि पीएम राज्य का दौरा करें।

राहत शिविरों में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की

राज्यपाल अनुसुइया उड़के से भी मिले

असम के सिलचर और कछार जिले में बाढ़ प्रभावितों से मिले



राहुल ने मणिपुर के चुरावांदपुर में मंडप तुईबोंग रिलीफ कैंप और जिरिबाम के हायर सेकेंडरी स्कूल में बसाए गए राहत शिविर में मौजूद लोगों से मुलाकात की थी। उन्होंने फुलेरताल के थलाई इन यूथ केंद्र सेंटर में राहत शिविर का दौरा किया। वे असम के सिलचर और कछार जिले में भी गए और बाढ़ प्रभावित लोगों से मिले। असम में कांग्रेस नेताओं ने बाढ़ से हुए नुकसान और सुआवजे को लेकर राहुल गांधी को ज्ञापन सौंपा। राहुल ने मणिपुर की राज्यपाल अनुसुइया उड़के से लगभग 45 मिनट तक मुलाकात की।

गरीबों से हक छीन रही माजपा: सैलजा कहा, खत्म किए गए 1300 राशन डिपो लाइसेंस तुरंत बहाल करें

हरिभूमि ब्यूरो ▶▶ नई दिल्ली

सांसद कुमारी सैलजा ने आरोप लगाया है कि भाजपा की हरियाणा सरकार गरीबों से उनका हक छीनने की हर संभव कोशिश में जुटी है। इसलिए एक ही झटके में करीब 1300 डिपो संचालकों के लाइसेंस को रद्द कर दिया। ऐसा होने से राशन कार्ड धारकों के सामने तेल-अनाज का इंतजाम करना चुनौती बन गया है। उन्होंने कहा है कि एक साथ इतने लाइसेंस रद्द होने से लाखों गरीबों के सामने राशन को लेकर संकट खड़ा होने लगा है। इनके लाइसेंस तुरंत बहाल

करने के साथ ही सभी 9300 डिपो धारकों का फरवरी से बकाया चल रहा गेहूं वितरण कमीशन भी जारी किया जाए। कुमारी सैलजा ने एक बयान में सोमवार को कहा कि प्रदेश में सस्ते राशन की दुकान के तौर पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने 9300 लोगों का डिपो होल्डर के लाइसेंस दिए हुए हैं। लेकिन, तुगलकी फरमान जारी करते हुए प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी कर 60 साल से अधिक उम्र वाले डिपो होल्डर के लाइसेंस खत्म कर दिए। इसके विरोध में डिपो होल्डर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की शरण में पहुंच गए।

रिपोर्ट में कहा गया, बैंक अभी अच्छी स्थिति में

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विनिवेश को आगे बढ़ाने का समय : एसबीआई रिपोर्ट

एजेसी ►► नई दिल्ली

सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में विनिवेश को आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि वे अच्छी स्थिति में हैं। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के आर्थिक शोध विभाग ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट में यह बात कही है। रिपोर्ट में मौजूदा सरकारी बैंकों को सुदृढ़ करने पर भी जोर दिया गया है।

सरकार को अभी विनिवेश को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। 'केंद्रीय बजट 2024-25 की प्रस्तावना' शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है, 'चूंकि बैंक अच्छी स्थिति में हैं, इसलिए सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विनिवेश को लेकर आगे बढ़ना चाहिए।' इसमें आईडीबीआई बैंक के निजीकरण के संबंध में कहा कि सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) बैंक में लगभग 61 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच रहे हैं।

खास बातें

- आईडीबीआई बैंक का सरकार विनिवेश कर रही
- एलआईसी भी बैंक में अपनी 61 फीसदी हिस्सेदारी बेच रही



2022 में आमंत्रित की गई थी बोलियां

रिपोर्ट के अनुसार, 'उन्होंने अक्टूबर, 2022 में खरीदारों से बोलियां आमंत्रित कीं। निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीएम) को जनवरी, 2023 में पेशकश पर आईडीबीआई बैंक की हिस्सेदारी के लिए कई उच्च पत्र प्राप्त हुए। हमें उम्मीद है कि सरकार बजट में इसे स्पष्ट करेगी।

आईडीबीआई में सरकार की 45 फीसदी हिस्सेदारी

वर्तमान में, आईडीबीआई बैंक में सरकार की 45 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी है और (एलआईसी) की 49.24 प्रतिशत हिस्सेदारी है। रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि सरकार को जमा ब्याज पर कर में बदलाव करना चाहिए और म्यूचुअल फंड तथा शेयर बाजारों के अनुरूप विभिन्न परिपक्वता अवधि वाली जमाओं पर एक जैसा व्यवहार करना चाहिए।

कासा में हो सकेगी वृद्धि

इसमें कहा गया है, 'वित्त वर्ष 2022-23 में घरेलू शुद्ध वित्तीय बचत घटकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 5.3 प्रतिशत हो गई और 2023-24 में इसके 5.4 प्रतिशत पर रहने की उम्मीद है। यह हम म्यूचुअल फंड के अनुरूप जमा दर को आकर्षक बनाते हैं, तो इससे घरेलू वित्तीय बचत और चालू खाता और बचत खाता (कासा) में वृद्धि हो सकती है।

सरकार को अधिक जीएसटी मिलेगा

रिपोर्ट में कहा गया है कि चूंकि यह राशि जमाकर्ताओं के हाथ में होगी, इससे अतिरिक्त खर्च हो सकता है और इस तरह सरकार को अधिक माल एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व मिलेगा। इसमें कहा गया है, बैंक जमा में वृद्धि से न केवल मूल जमा आधार और वित्तीय प्रणाली में स्थिरता आएगी बल्कि घरेलू बचत में भी वित्तीय स्थिरता आएगी।

समाधान तक पहुंचने में समय ज्यादा लग रहा

आईडीबीआई के माध्यम से वसूली वित्त वर्ष 2023-24 में 32 प्रतिशत रही और वित्तीय कर्जदाताओं ने अपने ढाँचों का 68 प्रतिशत गंवाया। इसमें कहा गया है कि समाधान तक पहुंचने में 330 दिनों के बजाय 863 दिन का समय लग रहा है।

मर्सिडीज की इलेक्ट्रिक वाहन उतारने की योजना

एजेसी ►► नई दिल्ली

लकजरी वाहन विनिर्माता मर्सिडीज-बेंज इंडिया पहली बार महंगा वाहन खरीदने की मंशा रखने वाले ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए शुरूआती स्तर के इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) उतारने की योजना बना रही है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। मर्सिडीज-बेंज इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) संतोष अय्यर ने कहा कि वाहन स्वामित्व पर आने वाली बड़ी लागत को देखते हुए कंपनी लकजरी खंड के नए ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए ईक्यूए और



ईक्यूबी मॉडल को बेहतर विकल्प के तौर पर पेश कर रही है। इसके अलावा ईक्यूबी 350 एसयूवी (पांच सीटर) मॉडल की कीमत 77.5 लाख रुपये और ईक्यूबी 250एसएस एसयूवी (सात सीटर) की शोरूम कीमत 70.90 लाख रुपये रखी गई है। अय्यर ने कहा कि कंपनी के नए इलेक्ट्रिक मॉडल ईक्यूए और ईक्यूबी को एक करोड़ रुपये से अधिक आय

वाले युवा ग्राहक खरीदकर लकजरी वाहन का लुफ्त उठा सकते हैं। इसकी वजह यह है कि परंपरागत इंजन वाले मॉडल की तुलना में ईवी मॉडल की स्वामित्व लागत कम पड़ती है। हालांकि, अय्यर ने कहा कि मर्सिडीज-बेंज इंडिया अपने ईवी खंड में शुरूआती स्तर वाले मॉडल के साथ दो टॉप-एंड लकजरी ईवी भी लेकर आने वाली है।

जीतेन्द्र सिंह, एमओएस, साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी ने डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव के सातवें संस्करण को किया सम्बोधित

एजेसी ►► नई दिल्ली

डॉ जीतेन्द्र सिंह, माननीय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, एस एण्ड टी मंत्रालय और धरती विज्ञान मंत्रालय, एमओएस ने प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव के दौरान नैनाकाइड फार्मा के साथ साझेदारी में ल्युपिन द्वारा पावर्ड सम्मेलन पेश किया। इस साल के सम्मेलन का आयोजन 29 जून को नेशनल डॉक्टर्स डे से एक दिन पहले किया गया। इसके माध्यम से भारतीय

चिकित्सा जगत में डॉ बिधान चन्द्र रॉय को श्रद्धांजली दी गई। सम्मेलन के दौरान डॉ सिंह ने विकसित भारत के चिकित्सकों के आधार पर देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। सम्मेलन के दौरान 2018 के बाद से डॉक्टरों एवं स्वास्थ्यकर्मियों के अनूठे योगदान को सम्मानित किया गया। इस साल की थीम 'मिलिट्री मेडिसिन: बिजिग द गैप बिटवीन बैटलफ़ील्ड एण्ड होमफ्रंट' को

ध्यान में रखते हुए पोप्टिनेट जर्नल, अरिदम चैटर्जी, डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज, भारतीय सेना को सम्बोधित किया।

Proclamation Requiring Attendance of Defendant (Order 5, Rule 20 of the Code of Civil Procedure) In the Court of Sh. Surinder S. Raini, District Judge (Commercial Court-03) at Room No. 303, Shahdara Distt. Karkardooma Court, Delhi Case Reg.No. CS (Comm) No. 134/2024 M/s. Suresh ApparelsPlaintiff through it's A.R. & Partner Sh. Bharat Jain Against Amit Kumar @ Amit Sharma,.....Defendant Prop. of M/s. Ganesh Textile 1. Amit Kumar @ Amit Sharma, Prop. of M/s. Ganesh Textile, Shop No.3, 9/5190, Main Road, Shant Mohala, Old Seelampur, Gandhi Nagar, Delhi-110031 Also at: 9/1590, Old Seelampur, Gandhi Nagar, East Delhi-110031 Whereas you are intentionally evading service of summons it is hereby notified that if you shall not defend the case on the 29.07.2024 the day fixed for the final disposal. It will be heard and determined ex-parte. Given under my hand and seal of the court this 21.06.2024. District Judge (Commercial Court-03) Shahdara Karkardooma Court Delhi

आई.टी. क्षेत्र में पतंजलि अब करेगा नई क्रांति : स्वामी रामदेव

हरिद्वार। पतंजलि के आई.टी. संस्थान भरूआ सॉल्यूशन्स के तत्वाधान में पतंजलि विश्वविद्यालय स्थित ऑडिटोरियम में 'कॉरपोरेट ट्रेनिंग फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट/कोर स्किल' विषय पर आयोजित तीन दिवसीय कार्यशाला का समापन हुआ। कार्यशाला के समापन अवसर पर पतंजलि योगपीठ के संस्थापक अध्यक्ष स्वामी रामदेव ने कहा कि आई.टी. क्षेत्र की सभी समस्याओं का समाधान भरूआ में निहित है। पतंजलि के आई.टी. संस्थान भरूआ ने पतंजलि के साथ-साथ कई कम्पनियों में अपनी आई.टी. स्किल्स का लोहा मनवाया है। हाल ही में भरूआ ने कई विख्यात कम्पनियों के साथ आई.टी. क्षेत्र में करार किए हैं, आई.टी.क्षेत्र में पतंजलि अब नई क्रांति करेगा। इस अवसर पर आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि पतंजलि को

प्रोफेशनल डेवलपमेंट/कोर स्किल' विषय पर आयोजित तीन दिवसीय कार्यशाला का समापन अवसर पर पतंजलि योगपीठ के संस्थापक अध्यक्ष स्वामी रामदेव ने कहा कि आई.टी. क्षेत्र की सभी समस्याओं का समाधान भरूआ में निहित है। पतंजलि के आई.टी. संस्थान भरूआ ने पतंजलि के साथ-साथ कई कम्पनियों में अपनी आई.टी. स्किल्स का लोहा मनवाया है। हाल ही में भरूआ ने कई विख्यात कम्पनियों के साथ आई.टी. क्षेत्र में करार किए हैं, आई.टी.क्षेत्र में पतंजलि अब नई क्रांति करेगा। इस अवसर पर आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि पतंजलि को



पूरी बुनियाद योग व आयुर्वेद के संदर्भ में जानती है। हमने भरूआ सॉल्यूशन्स के रूप में आई.टी. के क्षेत्र में कदम रखा है। भरूआ ऐसे ही आई.टी. कम्पनी नहीं बनी, यह पूर्ण समर्पण का परिणाम है। भरूआ की उपलब्धि है कि आज आई.टी. क्षेत्र में भरूआ के 8 पेटेंट हैं। वेल्सपन कम्पनी में भरूआ के प्रोडक्ट ही संचालित हैं। इसी प्रकार मदर डेयरी, अमूल, सिंटेक्स, रेलवे, नई संसद भवन की कैंटीन का सभी काम भरूआ सॉल्यूशन्स द्वारा किया जा रहा है। अभी हाल ही में 26 एयरपोर्ट के डाटा को सेन्ट्रलाइज व मौनितरिंग के लिए भी भरूआ को आर्डर मिला है।

श्रम मंत्रालय ने रोजगार सृजन पर सिटीग्रुप की रिपोर्ट की नकारा

नई दिल्ली। श्रम मंत्रालय ने सोमवार को सिटीग्रुप की हाल में आई उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि भारत को सात प्रतिशत की वृद्धि दर होने पर भी रोजगार के समुचित अवसर पैदा करने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। मंत्रालय ने बयान में कहा कि इस रिपोर्ट को तैयार करते समय 'आवधिक श्रम बल संकषण (पीएलएफएस) और भारतीय रिजर्व बैंक के केएलईएमएस डेटा जैसे आधिकारिक स्रोतों से उपलब्ध व्यापक और सकारात्मक रोजगार आंकड़ों को ध्यान में नहीं रखा गया है। आरबीआई का केएलईएमएस डेटा उत्पादन में पांच प्रमुख बिंदुओं- पूँजी, श्रम, ऊर्जा, सामग्री और सेवाओं के बारे में जानकारी मुहैया कराता है। सिटीग्रुप ने भारत में रोजगार के बारे में हाल में जारी एक रिपोर्ट में अनुमान जताया है कि सात प्रतिशत की दर से वृद्धि करने पर भी भारत को रोजगार के पर्याप्त अवसर मुहैया कराने में समस्या पेश आ सकती है।

ईटी नाओ सफ़ाई चैन मैनेजमेन्ट एण्ड लॉजिस्टिक्स समित 2024 के 11वें संस्करण का हुआ सफल समापन

एजेसी ►► नई दिल्ली

नई दिल्ली में ईटी नाओ सफ़ाई चैन मैनेजमेन्ट एण्ड लॉजिस्टिक्स समित के 11वें संस्करण का सफल समापन हुआ। सम्मेलन का आयोजन महिन्द्रा लॉजिस्टिक्स के सहयोग से किया गया था, इसके स्ट्रेटिजिक पार्टनर ओरेकल थे और इसे डीटीडीसी एक्सप्रेस द्वारा को-प्रेजेंट किया गया। सम्मेलन में देश भर से 800 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इनमें शामिल थे भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा, भारी उद्योग एवं स्टील मंत्री, भारत

सरकार, सुरेन्द्र अहिरवार, संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार; इंडस्ट्री केप्टन जैसे रामप्रवीण स्वामीनाथन, एमडी एवं सीईओ, महिन्द्रा लॉजिस्टिक्स; अभिषेक चक्रवर्ती, सीईओ, डीटीडीसी एक्सप्रेस; कंवर सिंह, सीएफओ, ओरेकल इंडिया, पीयूष कौशिक, वाईएस प्रेजिडेंट- बिजनेस लीडर और हेड ऑफ हेल्थकेयर इन्वेस्टमेंट्स सेंटर, फिलिप्स; कामी विश्वनाथन, प्रेजिडेंट, फेडएक्स आदि। इस अवसर पर कई महत्वपूर्ण सम्बोधन, बातचीत, पैनल चर्चाओं तथा मुख्य विषयों पर मास्टरक्लासिंग का आयोजन हुआ।

सूचना

सभी पाठकों से अनुरोध है कि हरिभूमि समाचार-पत्र में प्रकाशित विज्ञापनों (हिस्पले/दलासीफाईड) में दिए गए तथ्यों/दावों के बारे में अपने विवेक से निर्णय लें और विज्ञापन के दावों की विश्वसनीयता को परखें। हरिभूमि समूह के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की विज्ञापनों के तथ्यों से सम्बन्धित कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

राशिफल

- मेष** किसी अज्ञात भय से परेशान हो सकता है। जीवनसाथी का साथ मिलेगा। घर-परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। भाग-दौड़ अधिक रहेगी।
- वृष** बातचीत में सन्तुलित रहें। नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। अनियोजित खर्च बढ़ेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
- मिथुन** मन प्रसन्न तो रहेगा, परन्तु आत्मसंयत भी रहें। क्रोध से बचें। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। लेखनादि-बौद्धिक कार्यों से मान-सम्मान की प्राप्ति होगी।
- कर्क** परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जाना हो सकता है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भाग-दौड़ बढ़ेगी। लाभ के अवसर मिलेंगे।
- सिंह** मन अशांत रहेगा। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। अफसरों का सहयोग मिलेगा। शैक्षिक कार्यों पर ध्यान दें। सफलता के योग बन रहे हैं।

बजट में कर राहत पर जोर होना चाहिए: उद्योग जगत

नई दिल्ली (भाषा)। वित्त वर्ष 2024-25 के आम बजट में करदाताओं, खासकर निम्न आय वर्ग के लोगों को राहत देने पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि खपत को बढ़ावा मिल सके। उद्योग जगत के लोगों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को यह सुझाव दिया है। सीतारमण 23 जुलाई को 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश करने वाली हैं, जो नयी सरकार का पहला प्रमुख नीति दस्तावेज होगा। उद्योग जगत ने वित्त मंत्री से कॉरपोरेट कर को कम करने, कर छूट को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कर आधार को व्यापक बनाने का भी आग्रह किया। उद्योग मंडली एसोसिएशन ने कहा, 'अनुपालन में सुधार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर प्रणाली को युक्तिसंगत और सरल बनाना चाहिए। कर व्यवस्था को अधिक कुशल और व्यावसायिक बनाने के लिए कॉरपोरेट कर दरों को कम करने, कर छूट को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने और कर आधार को व्यापक बनाने जैसे उपायों पर विचार करना चाहिए।' 'एटिग एजेंसी इंडिया ने कहा कि सरकार 11.1 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय के लक्ष्य के साथ समझौता किए बिना 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 4.9-5 प्रतिशत तय कर सकती है। इससे पहले एक फरवरी को पेश किए गए अंतरिम बजट में सरकार ने इसके 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया था।

मुनाफावसूली से संसेक्स में 36 अंक की मामूली गिरावट

मुंबई। हाल की तेजी के बाद निवेशकों की मुनाफावसूली से बीएसई संसेक्स सोमवार को मामूली 36.22 अंक की हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ। एनएसई निफ्टी भी लगभग स्थिर बंद हुआ। किसी ठोस संकेत के अभाव में निवेशकों ने बाजार से दूरी बनाये रखी। एशिया के अन्य बाजारों में कमजोर रुख से भी घरेलू शेयर बाजार की धारणा प्रभावित हुई। तीस शेरों पर आधारित बीएसई संसेक्स की शुरूआत कमजोर रही। अंत में यह 36.22 अंक की मामूली गिरावट के साथ 79,960.38 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 264.77 अंक तक नीचे चला गया था। निफ्टी भी 3.30 अंक यानी 0.01 प्रतिशत की नाममात्र गिरावट के साथ 24,320.55 अंक पर बंद हुआ। संसेक्स के शेरों में टाइटन, अदाणी पोर्ट्स, टाटा स्टील, जेएलएसडब्ल्यू स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, एशियन पेंट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और बजाज फिनसर्व के शेयर प्रमुख रूप से नुकसान में रहे। दूसरी तरफ आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिटलिवर, नेस्ले, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और टाटा मोटर्स के शेरों में बढ़त का रुख रहा।

सोना 100 रुपए मजबूत, चांदी में 870 रुपए का उछाल

एजेसी ►► नई दिल्ली

अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूत रुख के अनुरूप राष्ट्रीय राजधानी के सरफा बाजार में शुक्रवार को सोना 100 रुपये की तेजी के साथ 73,410 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 73,310 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इसके अलावा चांदी की कीमत भी 870 रुपये बढ़कर 94,270 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। पिछले सत्र में यह 93,400 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। एचडीएफसी सिक्सयोरिटीज के शोध विश्लेषक दिलीप परमार ने कहा, 'दिल्ली के बाजारों में हाजिर सोने की कीमतें (24 कैरेट) 73,410 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहीं, जो पिछले बंद भाव से 100 रुपये अधिक है।' वैश्विक बाजारों में कॉमिक्स में हाजिर सोना 2,373 डॉलर प्रति औंस पर रहा, जो पिछले बंद भाव से 10 डॉलर अधिक है। इसके अलावा चांदी भी बढ़त के साथ 30.93 डॉलर प्रति औंस पर रही।

मुंबई (भाषा)। कृषि, व्यापार और वित्तीय सेवाओं सहित 27 क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की संख्या 2022-23 में सालाना आधार पर 3.31 प्रतिशत बढ़कर 59.66 करोड़ हो गई। सोमवार को प्रकाशित भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। इससे पहले 2021-22 के दौरान इन 27 क्षेत्रों में रोजगार 57.75 करोड़ था। आरबीआई ने अपनी वेबसाइट पर 'उद्योग स्तर पर उत्पादकता मापन - भारत केएलईएमएस आंकड़े' शीर्षक के तहत ये आंकड़े प्रकाशित किए हैं। यहां कोएलईएमएस का आशय पूंजी (के), श्रम (एल), ऊर्जा (ई) सामग्री (एम) और सेवा (एस) से है। आंकड़ों में संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था के 27 उद्योगों को शामिल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 'कृषि, शिकार, वानिकी और मछली' क्षेत्र ने 25.3 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार दिया था। यह आंकड़ा 2021-22 में 24.82 करोड़ था। इसके अलावा उल्लेखीय रोजगार देने वाले क्षेत्रों में निर्माण, व्यापार तथा परिवहन और भंडारण शामिल थे। आरबीआई ने कहा कि दस्तावेज 'भारत केएलईएमएस डेटाबेस संस्करण-2024' को आर्थिक वृद्धि और इसके प्रमुख क्षेत्रों में शोध को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है।

2022-23 में 27 क्षेत्रों में रोजगार 3.31 प्रतिशत बढ़ा: आरबीआई

गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 'कृषि, शिकार, वानिकी और मछली' क्षेत्र ने 25.3 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार दिया था। यह आंकड़ा 2021-22 में 24.82 करोड़ था। इसके अलावा उल्लेखीय रोजगार देने वाले क्षेत्रों में निर्माण, व्यापार तथा परिवहन और भंडारण शामिल थे। आरबीआई ने कहा कि दस्तावेज 'भारत केएलईएमएस डेटाबेस संस्करण-2024' को आर्थिक वृद्धि और इसके प्रमुख क्षेत्रों में शोध को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है।

- कन्या** पठन-पाठन में रुचि रहेगी। लेखनादि-बौद्धिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी। सुखादुःखान-पान में रुचि बढ़ेगी। सेहत का ध्यान रखें। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी।
- तुला** शैक्षिक कार्यों के लिए किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। भागदौड़ अधिक रहेगी। खर्च अधिक रहेगे। तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे।
- वृश्चिक** किसी पैतृक सम्पत्ति के लिए विवाद की स्थिति बन सकती है। वाहन के रख-रखाव पर खर्च बढ़ सकते हैं। नए कारोबार की शुरूआत हो सकती है।
- धनु** मन में उतार-चढ़ाव रहेगा। कारोबार की स्थिति में सुधार होगा। लाभ के अवसर मिल सकते हैं। परिवार में सद्भाव बनाये रखें। क्रोध की अधिकता रहेगी।
- मकर** मन अशांत रहेगा। परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। चिकित्सीय खर्च बढ़ेंगे। भाग-दौड़ अधिक रहेगी। रहन-सहन कष्टमय हो सकता है।
- कुंभ** मन शान्त रहेगा। धार्मिक संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। जीवनसाथी के परिवार के किसी बुजुर्ग से धन की प्राप्ति हो सकती है।
- मीन** संयत रहें। परिवार में शान्ति बनाये रखने के प्रयास करें। परिवार के साथ यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। नए कारोबार की शुरूआत हो सकती है।

शब्द पहेली - 5566

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39			

बाएँ से दायें

- राजीव गांधी की पत्नी का नाम-3,2
- उदरता,बडप्पन-4
- भोजन,खाद्य पदार्थ-2
- प्रहरी,रक्षा करने वाला-3
- अपशिष्ट पदार्थ-2
- कामदेव,चंद्रमा-4
- नाड़ी,नस-2
- जबर्न,जबर्दस्ती-3
- वायदा,वचन-2
- भवन,आलय-3
- आर्ट,हुरन-2
- ख्वाबगाह,आपमगाह,सोने का कमरा-5
- उद्देश्यहीनता-5
- परिणाम-2
- अंजन,नेत्रांजन-3
- सांझ,संध्या-2
- अधीन-3
- निश्चित-2
- निष्ठावन,सत्तानिष्ठ-4
- बेइमान,संधमारा-2

36.दाम,मूल्य-3

- एक छोटी सवारी गाड़ी-2
- मुस्लिम कैलेंडर का एक महीना-4
- अशु,आंसू-5
- ऊपर से नीचे
- स्वर्ण,कनक-2
- गुजर करना-3
- धैर्यवान-3,2
- राशिचक्र की एक राशि-3
- आंशिक भोग हुआ-2
- सामंजस्य-4
- यायावर,बंजारण-5
- चुनाव,वोटिंग-4
- दुख,कष्ट-2
- यज्ञ,होम-3
- कमपर,रूम-2
- उम्मीद,आस-2
- जुड़वा-3
- थाला-2

22.हृदय,हार्ट-2

- निकृष्टतर-4
- बलवान,दमदार-5
- स्वदेशवासी-5
- आलसी,निटल्लू-4
- सुरी आदत-2
- भरोसा,विश्वास-3
- आंचल,पल्लू-3
- अंग्रेजी शराब का एक प्रकार-2
- समय,वक्त-2

शब्द पहेली - 5565 का हल

श	स्म	सु	र	ख	न	की	र
नौ	ब	स	न	ग	म		
ज	प	ह	म	ला	व	र	म
वा	र	न	न				
न	व	क	त	त	अ	न	मो
ल	ह	र	म	खो	र	ह	न
अ	सि	ही	त	ला	ज	मा	न
स	श	त	म	ज	सि	ह	त
म	र	क	म	त	र	त	ह
न	म	ही	ज	इ	ह	ल	क
ग	स	ल	न	क	ग	त	

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्योगपणा

धारा 82 Cr.P.C. देखिए

मेरे सम्बन्धित परियाद किया गया है कि अभियुक्त आरोपी मनीष शुक्ला, पुत्र राजेश कुमार शुक्ला पता: प्लॉट नं. 1309, पीपीसी रोड, टिकरी बॉर्डर, सिरसापुर, दिल्ली FIR No.06/2024 Dt. 02.01.2024, पुलिस थाना स्वरूप नगर, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है), और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त मनीष शुक्ला, मिल नहीं रहा है और नुझे समाधानरूप रूप से दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त मनीष शुक्ला, फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)। इसलिए इसके द्वारा उद्योगपणा की जाती है कि उक्त अभियुक्त मनीष शुक्ला, FIR No.06/2024 Dt. 02.01.2024, पुलिस थाना स्वरूप नगर, दिल्ली से अपेक्षा की जाती है कि वे इस न्यायालय के सम्बन्ध (या मेरे सम्बन्ध) उक्त परियाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 20.08.2024 को या उससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार ज्योति नैन, एल.डी. महानगर दण्डाधिकारी (उत्तरी) कोर्ट कमरा नं. 06, ग्राउंड फ्लोर, रोहिणी कोर्ट, दिल्ली

DP/8736/ON/2024 (Court Matter)

पहचान की अपील

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव जिसका नाम: भूरे, पुत्र: नामालूम, पता: नामालूम, उम्र: लगभग 30 साल, कद: 170 से.मी., रंग: गहुँडा जिससे काले रंग की चेकदार कमीज और काले रंग का शार्टस पहने हुए था। जो जी.टी.बी. अस्पताल, शाहदरा, दिल्ली में मृत पाया गया है। इस संबंध में डी.डी. संख्या 28ए दिनांक 06.07.2024 को थाना जी.टी.बी. एन्क्लेव, दिल्ली में दर्ज है। यदि किसी भी व्यक्ति को इस मृतक के बारे में कोई जानकारी या सुराग मिले तो निम्नलिखित को सूचित करने की कृपा करें:-


थानाध्यक्ष : थाना जी.टी.बी. एन्क्लेव, दिल्ली दूरभाष सं : 011-22137444, 22580947, 7065036031

DP/8830/SHD/2024

हरियाणा सरकार निविदा सूचना

क्र. सं.	बोर्ड/निर्माण प्राधिकार का नाम	कार्य सूचना निविदा का नाम	सूचने की तिथि बंद होने की तिथि (संवर)	गोला/ईंधन (रकम) रु. में	बोर्ड/निर्माण प्राधिकार की वेबसाइट	नेशनल अर्थव्यवस्था / सम्पर्क विवरण/ ई-मेल
1	नगर परिषद झज्जर	वार्ड नं. 2, एम.सी. झज्जर में पालिका बाजार से पीर बाबा तक सीसी गली और अन्य विभिन्न बांध गलियों का निर्माण +23 कार्य।	05.07.2024 15.07.2024	2.72 करोड़	https://haryana.tn.in	9467283967 eoy@haryanapga.in

अधिक जानकारी हेतु कृपया प्यारें : www.haryanaeprocurement.gov.in or www.etenders.hry.nic.in
संवाद-13/2025/40/27573/1/88/7 दि. 08.07.24



टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन भारत के 15 खिलाड़ियों को मिलेंगे 5-5 करोड़, कोच द्रविड़ को 2.5 और रिजर्व प्लेयरों में बंटेंगे 1-1 करोड़

बीसीसीआई ने सौंपा था 125 करोड़ रुपए का चेक

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टी-20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के लिए 125 करोड़ रुपए केश प्राइज देने की घोषणा किया था। इस 125 करोड़ रुपए में से 15 खिलाड़ियों को 5-5 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिनमें तीन ऐसे खिलाड़ी भी शामिल हैं जिन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। चार रिजर्व खिलाड़ी बल्लेबाज रिकू सिंह और शुभमन गिल, तेज गेंदबाज आवेश खान और खलील अहमद को भी 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम ने यादगार प्रदर्शन करते हुए आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीत लिया है। 29 जून 2024 को ब्रिजटाउन के कैम्पिंग ओवल में खेले गए फाइनल में भारत ने साउथ अफ्रीका को 7 रनों से शिकस्त दी थी। भारतीय टीम ने दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता। इससे पहले उसने महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में 2007 के सीजन में टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया था।



कोचिंग स्टाफ के चार मेंबर्स को 2.5-2.5 करोड़ रुपए

मुख्य कोच राहुल द्रविड़ के साथ-साथ बाकी कोचिंग स्टाफ बैटिंग कोच विक्रम राठौर, फील्डिंग कोच टी दीलीप, बॉलिंग कोच पारस महांसे को 2.5-2.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक, बाकी बैकस्टम स्टाफ को भी इनाम दिया जाएगा। तीन फिजियोथेरेपिस्ट, तीन थोडाउन स्पेशलिस्ट्स, दो मसाज थेरेपिस्ट और स्ट्रेथ एंड कंडीशनिंग कोच को 2-2 करोड़ रुपए मिलेंगे। तीन फिजियोथेरेपिस्ट में कमलेश जैन, योगेश परमार और तुलसी राम युवराज शामिल हैं। तीन थोडाउन स्पेशलिस्ट्स राघवेंद्र दयगौ, गुवान उदनेके और दयानंद गराजी हैं। दो मसाज थेरेपिस्ट राजीव कुमार, अरुण कनाडे और सोहम देसाई स्ट्रेथ एंड कंडीशनिंग कोच हैं।

42 सदस्यीय दल

बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप में भाग लेने गए भारतीय दल में कुल 42 लोग थे। इनमें टीम के वीडियो एनालिस्ट, टीम के साथ यात्रा करने वाले बीसीसीआई के स्टाफ मेंबर्स (जिसमें मीडिया अधिकारी भी शामिल हैं) और टीम के लॉजिस्टिक्स मैनेजर भी शामिल हैं। बाकी के 10.5 करोड़ रुपए इनके बीच ही आवंटित होंगे।

15 सदस्यीय भारतीय टीम

रोहित शर्मा (कप्तान), यशरवी जायसवाल, विराट कोहली, सुरकुमार यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या (उप-कप्तान), रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अश्वीन सिंह, युजवेंद्र चहल, संजु सैमसन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज। टैलेंट रिजर्व: रिकू सिंह, खलील अहमद, आवेश खान, शुभमन गिल।

खबर संक्षेप



जयसूर्या श्रीलंका के अंतरिम कोच नियुक्त

कोलंबो। श्रीलंका के पूर्व कप्तान सनत जयसूर्या को इस महीने के अंत में भारत के खिलाफ होने वाली सीमित ओवरों की घरेलू श्रृंखला से पहले टीम का अंतरिम मुख्य कोच नामित किया गया है। देश के बोर्ड का कहना है कि अगले कुछ महीनों में 'स्थायी समाधान' मिलने तक वह टीम का मार्गदर्शन करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति हैं। भारतीय टीम 27 जुलाई से शुरू होने वाले तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय और इतने ही वनडे मैचों के लिए श्रीलंका का दौरा करेगी।

रेहान पेशेवर टूर्नामेंट में शीर्ष 10 में शामिल

रबात। भारत के रेहान शॉमस ने 20 लाख डॉलर इनामी इंटरनेशनल सीरीज मोरक्को गोल्फ टूर्नामेंट में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए अपनी दूसरी पेशेवर प्रतियोगिता में ही शीर्ष 10 में जगह बनाई। दुबई में रहने वाले इस भारतीय खिलाड़ी ने चार दौर में 69-73-69-72 का स्कोर बनाया। उनका कुल योग नौ अंडर रहा जिससे वह संयुक्त आठवें स्थान पर रहे। इस प्रतियोगिता में भारत के 16 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था जिनमें से केवल पांच खिलाड़ी कट में जगह बना पाए थे। भारतीय खिलाड़ियों में रेहान का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा।

अमित-जेना को 15-15 लाख देने की घोषणा

भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सोमवार को हॉकी खिलाड़ी अमित रोहिदास और दिग्गज भाला फेंक खिलाड़ी किशोर जेना के लिए 15-15 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की। ये दोनों पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। एक आधिकारिक बयान के अनुसार माझी ने उम्मीद जताई कि प्रोत्साहन राशि ओडिशा के दो खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने और देश को गौरवावित करने के लिए प्रेरित करेगी।

उमा छेत्री कड़ी मेहनत करने वाली क्रिकेटर

चेन्नई। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के क्षेत्ररक्षण कोच मुनीशा बाली ने उमा छेत्री की कड़ी मेहनत करते हुए कहा कि यह युवा विकेटकीपर 'वास्तव में कड़ी मेहनत करने वाली क्रिकेटर है।' इक्कीस वर्षीय छेत्री ने रविवार को यहां दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बारिश के कारण रुक कर दिए गए दूसरे मैच में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया। उन्होंने दीपिका शर्मा की गेंद पर तेजमिन्न ब्रिड्स को स्टंप आउट किया। इससे पहले वह इसी बल्लेबाज को स्टंप के आगे से गेंद पकड़ने के कारण जीवनदान दे चुकी थी।

अभिषेक के लिए फिट शुभ साबित हुआ शुभमन का बल्ला

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने पदार्पण मैच में शून्य पर आउट होने के बाद भारत के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने जिंबाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में जिस बल्ले से शतक जड़ा, वह उन्होंने कप्तान शुभमन गिल से लिया था, जो जूनियर क्रिकेट के दिनों की तरह यहां भी उनके लिए शुभ साबित हुआ। अभिषेक ने 47 गेंद पर 100 रन की तूफानी पारी खेली। उन्होंने कहा, 'शुभमन का विशेष आभार जो उन्होंने सही समय पर मुझे अपना बल्ला दिया। मेरे लिए और टीम के लिए इस पारी की सख्त जरूरत थी। ऐसा अंडर-14 के दिनों से हो रहा है। मैं जब भी उनके बल्ले से खेला मैंने अच्छा प्रदर्शन किया और आज भी ऐसा हुआ।'



अभिषेक के लिए फिट शुभ साबित हुआ शुभमन का बल्ला। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने पदार्पण मैच में शून्य पर आउट होने के बाद भारत के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने जिंबाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में जिस बल्ले से शतक जड़ा, वह उन्होंने कप्तान शुभमन गिल से लिया था, जो जूनियर क्रिकेट के दिनों की तरह यहां भी उनके लिए शुभ साबित हुआ। अभिषेक ने 47 गेंद पर 100 रन की तूफानी पारी खेली। उन्होंने कहा, 'शुभमन का विशेष आभार जो उन्होंने सही समय पर मुझे अपना बल्ला दिया। मेरे लिए और टीम के लिए इस पारी की सख्त जरूरत थी। ऐसा अंडर-14 के दिनों से हो रहा है। मैं जब भी उनके बल्ले से खेला मैंने अच्छा प्रदर्शन किया और आज भी ऐसा हुआ।'

विंबलडन : 14वीं वरीयता प्राप्त बेन शेल्टन के खिलाफ दर्ज की जीत

विंबलडन : सिनर अंतिम-8 में, लुलु सन का रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन, गॉफ बाहर

एजेसी ▶ लंदन
ऑस्ट्रेलियाई ओपन चैंपियन यानिक सिनर ने सीधे सेटों में जीत दर्ज करके विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। महिला वर्ग में कोको गॉफ को बाहर का रास्ता देखना पड़ा। सिनर ने 14वीं वरीयता प्राप्त बेन शेल्टन के खिलाफ 6-2, 6-4, 7-6 (9) से जीत दर्ज की। उनका अगला मुकाबला दानिल मेदवेदेव से होगा। एक अन्य क्वार्टर फाइनल मैच कार्लोस अल्काराज और टॉमी पॉल के बीच खेला जाएगा। गत चैंपियन अल्काराज ने 16वें वरीय उगो हम्बर्ट को 6-3, 6-4, 1-6, 7-5 से पराजित किया। पॉल ने रॉबर्टो बांतिस्ता अगुट को 6-2, 7-6 (3), 6-2 से हरा कर पहली बार विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मेदवेदेव ने ग्रिगोर दिमित्रोव के पहले सेट में पांच पर चोट लग जाने के कारण बाहर हो जाने से अंतिम आठ में प्रवेश किया।



लुलु सन ने एम्मा राडुकानू को 6-2, 5-7, 6-2 से हराया

14 साल में पहली बार कोई क्वालीफायर क्वार्टर में पहुंची

क्वालीफायर लुलु सन भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है जहां उनका मुकाबला डोना वैकिच से होगा। सन ने 2021 की अमेरिकी ओपन चैंपियन एम्मा राडुकानू को 6-2, 5-7, 6-2 से हराया। यह 2010 के बाद पहला अवसर है जबकि महिला वर्ग में किसी क्वालीफायर ने अंतिम आठ में प्रवेश किया। वैकिच ने बारिश से प्रभावित एक अन्य मैच में पाउला बडोसा को 6-2, 1-6, 6-4 से हराया।

कीज हटी, जीती नवारो



महिला वर्ग में मेडिसन कीज के तीसरे सेट में 5-5 के स्कोर पर हट जाने के कारण जैस्मीन पाओलिनी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। पाओलिनी का अगला मुकाबला एम्मा नवारो से होगा, जिन्होंने मौजूदा अमेरिकी ओपन चैंपियन गॉफ को 6-4, 6-3 से हराया।

अभिषेक का खुलासा शून्य पर आउट हुआ तो हंसे युवराज, शतक पर दी बधाई



एजेसी ▶ मुंबई
हरारे। भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने खुलासा किया कि जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण मैच में जब वह शून्य पर आउट हो गए थे तो उनके मेंटर युवराज सिंह काफी खुश थे क्योंकि इस पूर्व ऑलराउंडर का मानना था कि यह अच्छी शुरुआत है। अभिषेक भारत की तरफ से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करते हुए खाता नहीं खोल पाए थे। अभिषेक ने हालांकि शानदार वापसी करते दूसरे मैच में 47 गेंद पर 100 रन बनाए जिससे भारत यह मैच 100 रन से जीतने में सफल रहा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें अभिषेक ने कहा, 'मैंने शनिवार को उनसे (युवराज) बात की और मैं नहीं जानता कि जब मैं शून्य पर आउट हुआ तो वह क्यों बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि यह अच्छी शुरुआत है लेकिन अब वह मेरे परिवार की तरह खुश होंगे और उन्हें मुझ पर गर्व होगा। मैं आज जो भी हूँ उसमें उनकी काफी अहम भूमिका रही है। उन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाने में कड़ी मेहनत की। उन्होंने न सिर्फ क्रिकेट मैदान पर मेरा कौशल निखारा बल्कि मैदान के बाहर की जिंदगी में भी मेरी मदद की।' रविवार को खेले गए मैच के बाद अभिषेक ने युवराज से बात की और वह इस युवा बल्लेबाज के प्रदर्शन से काफी खुश थे। युवराज ने कहा, 'शाबास, मुझे तुम पर गर्व है। तुम इसके हकदार थे। यह तो अभी शुरुआत है। आगे अभी इस तरह की कई पारियां खेलेंगे।'

अभिषेक के लिए फिट शुभ साबित हुआ शुभमन का बल्ला। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने पदार्पण मैच में शून्य पर आउट होने के बाद भारत के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने जिंबाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में जिस बल्ले से शतक जड़ा, वह उन्होंने कप्तान शुभमन गिल से लिया था, जो जूनियर क्रिकेट के दिनों की तरह यहां भी उनके लिए शुभ साबित हुआ। अभिषेक ने 47 गेंद पर 100 रन की तूफानी पारी खेली। उन्होंने कहा, 'शुभमन का विशेष आभार जो उन्होंने सही समय पर मुझे अपना बल्ला दिया। मेरे लिए और टीम के लिए इस पारी की सख्त जरूरत थी। ऐसा अंडर-14 के दिनों से हो रहा है। मैं जब भी उनके बल्ले से खेला मैंने अच्छा प्रदर्शन किया और आज भी ऐसा हुआ।'

पेरिस ओलंपिक में भारत के मिशन प्रमुख होंगे नारंग, सिंधू और कमल ध्वजवाहक

एजेसी ▶ नई दिल्ली
लंदन ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता निशानेबाज गगन नारंग ने सोमवार को पेरिस ओलंपिक के लिए भारत के मिशन प्रमुख के रूप में मुक्केबाज मेरीकोम की जगह ली। पेरिस खेलों के उद्घाटन समारोह में दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधू भारत की महिला ध्वजवाहक होंगी। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की अध्यक्ष पीटी उषा ने बताया कि मेरीकोम के इस्तीफे के बाद उप मिशन प्रमुख नारंग को मिशन प्रमुख बनाया जाना स्वतः पसंद था। उषा ने विज्ञापित में कहा, 'मैं अपने दल की अगुआई के लिए ओलंपिक पदक विजेता को दूढ़ रही थी और मेरे युवा साथी मेरीकोम के उपयुक्त विकल्प हैं।' नारंग भारतीय दल का मिशन प्रमुख बनने की दौड़ में शामिल हैं। उषा ने कहा, 'मुझे यह घोषणा करते हुए भी खुशी हो रही है कि दो ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी पीवी सिंधू उद्घाटन समारोह में टेबल टेनिस खिलाड़ी ए शरत कमल के साथ महिला ध्वजवाहक होंगी।' उन्होंने कहा, 'मुझे विश्वास है कि हमारे खिलाड़ी पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों में भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने के लिए अच्छी तरह तैयार हैं।' छह बार की विश्व चैंपियन मेरीकोम ने अप्रैल में पद से यह कहकर इस्तीफा दे दिया था कि निजी कारणों से उनके पास इसका अलावा कोई चारा नहीं है। मिशन प्रमुख महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद है। मिशन प्रमुख खिलाड़ियों की जरूरतों का ध्यान रखने के साथ आयोजन समिति के साथ संपर्क सूत्र का भी काम करता है।

महिला क्रिकेट टीम के सामने सीरीज 1-1 से बराबर करने की चुनौती

अफ्रीका के खिलाफ भारत की निर्णायक जंग आज

एजेसी ▶ चेन्नई
भारतीय महिला टीम तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला में मंगलवार को यहां आखिरी मैच में जब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैदान में उतरेंगी तब उसके सामने जीत दर्ज कर इसे 1-1 से बराबर करने की चुनौती होगी। इसके लिए हालांकि भारतीय गेंदबाजों को अपने प्रदर्शन के स्तर को ऊंचा उठाना होगा जिसके खिलाफ दक्षिण अफ्रीका ने पहले मैच में नौ विकेट पर 189 रन बनाकर 12 रन से जीत दर्ज की। दूसरे मैच में बारिश के कारण भारत को बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला लेकिन गेंदबाजों ने इस मुकाबले में भी छह विकेट पर 177 रन लुटाए थे। तीसरे टी20 में भी खराब मौसम का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि मंगलवार को भी बारिश की 30 से 40 प्रतिशत संभावना है।

क्रिकेटर अश्विन ने खरीदी ग्लोबल चेस लीग में टीम

एजेसी ▶ नई दिल्ली
भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन अमेरिकन गैम्बिट्स टीम के सह मालिक बन गए हैं जो ग्लोबल चेस लीग के दूसरे सत्र में हिस्सा लेने वाली नई टीम है। जीसीएल टैक महिंद्र और अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ के संयुक्त स्वामित्व वाली लीग है। लंदन में तीन से 12 अक्टूबर तक होने वाले दूसरे सत्र के लिए लीग ने सोमवार को छह फ्रैंचाइजी को पेश किया। जाने माने व्यवसायी प्रचुर पीपी, वेंकट के नारायण और अश्विन के स्वामित्व वाली अमेरिकन गैम्बिट्स टूर्नामेंट में चिंगारी गल्फ टाइटंस की जगह लेगी। एक प्रेस विज्ञापित में अश्विन के हवाले से कहा गया, 'हम अमेरिका गैम्बिट्स को शतरंज जगत के सामने पेश करके रोमांचित हैं। रणनीतिक प्रतिभा और अटूट दृढ़ संकल्प के मिश्रण के साथ हमारी टीम खेल को फिर से परिभाषित करने का लक्ष्य रखती है। सह मालिक के रूप में मैं उनकी यात्रा का गवाह बनने और उनकी सफलता में योगदान देने के लिए उत्साहित हूँ।'

भारतीय महिला टीम और ग्यांमा में मैत्री मैच आज

नई दिल्ली। भारतीय महिला फुटबॉल टीम मंगलवार को यांगून में होने वाले दोस्ताना मैच में अपने से ऊंची रैंकिंग वाली ग्यांमा टीम पर जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेंगी। विश्व रैंकिंग में 67वें स्थान पर काबिज भारत ने 54वीं रैंकिंग वाली ग्यांमा के खिलाफ अब तक पांच में से एक भी मैच नहीं जीता है। चार मैच हारे और एक ड्रॉ रहा। दोनों टीमों के बीच आखिरी मुकाबला 2019 में एएफसी महिला ओलंपिक क्वालीफायर में हुआ था जो 3-3 से ड्रॉ रहा। संस्था रंगनाथन, संजू और एच रतनबाबाला देवी सभी उस टीम का हिस्सा थीं और मौजूदा टीम में भी हैं। इन्होंने उस मैच में गोल दाखे थे।

मालदीव जश्न मनाते आए टी20 चैंपियन भारतीय टीम



एजेसी ▶ माले
मालदीव के पर्यटन संघ और उसके विपणन एवं जनसंपर्क निगम ने हाल ही में टी20 विश्व चैंपियन बनी भारतीय क्रिकेट टीम को जीत का जश्न मनाने के लिए अपने देश आमंत्रित किया है। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने बारबडोस में 29 जून को फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को सात रन से हराकर ट्रॉफी जीती थी। दोनों निकायों ने एक संयुक्त बयान में कहा, 'मालदीव मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशंस कॉर्पोरेशन' ने 'मालदीव एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री' के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को एक विशेष और खुला निमंत्रण दिया है। एमएमपीआरसी मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक इब्राहिम शिउरी और एमएटीआई के महासचिव अहमद नजीर ने संयुक्त बयान में कहा कि वे टीम की मेजबानी के लिए उत्सुक हैं। इस बयान में कहा गया, 'हमें आपकी मेजबानी करने और आपके प्रवास के दौरान यादगार क्षणों, विश्राम और बेहतरीन अनुभवों को सुनिश्चित करने में गर्व महसूस होगा।'

कुछ दिनों से सपनों में जी रहा हूँ : बुमराह

नई दिल्ली। भारतीय खिलाड़ियों के टी20 विश्व कप का चैंपियन बनने के बाद स्वदेश में मिले शानदार स्वागत के लिए आभार व्यक्त करने की कड़ी में वेदबाजी के अलुआ जसप्रीत बुमराह ने कहा कि वह पिछले कुछ दिनों से सपनों में जी रहे हैं। बुमराह ने टी20 विश्व कप में भारत की 17 साल बाद खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई। बुमराह ने एक्स पर पोस्ट किया, 'मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत आभारी हूँ। मैं सपनों में जी रहा हूँ और इसने मुझे खुशी और कृतज्ञता से भर दिया है।'

दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन की बढ़ती आक्रामकता के बीच होगा 'मालाबार' युद्धाभ्यास

हरिभूमि ब्यूरो नई दिल्ली
हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर में लगातार बढ़ती चीन की आक्रामकता के बीच इस वर्ष भारत महत्वपूर्ण 'मालाबार-2024' नौसैन्य युद्धाभ्यास की मेजबानी करेगा। इसमें भारतीय नौसेना के अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं भी भाग लेंगी।
रक्षा सूत्रों ने बताया कि वर्ष 2024 में भारत की अध्यक्षता में मालाबार युद्धाभ्यास बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाएगा। यह मालाबार का 28वां संस्करण होगा। संभवतः अक्टूबर महीने में

इसका आयोजन किया जाएगा। युद्धाभ्यास में चारों देशों की नौसेनाओं के बीच जटिल सतही हवाई युद्ध विरोधी अभियान से लेकर समुद्री अवरोधन अभियान, पनडुब्बी रोधी युद्ध, गोताखोरी बचाव अभियान, समुद्री डकैती विरोधी अभियान, क्रॉस डैक हेलीकॉप्टर लैंडिंग के अलावा भागीदार नौसेनाएं परस्पर अंतर संचालनीयता, युद्ध कौशल और उससे जुड़ी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए शामिल होंगी। मालाबार अभ्यास को चतुष्कोणीय क्वाड समूह (अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया) की एक महत्वपूर्ण गतिविधि माना जाता है।



2007 में जापान, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया मालाबार का हिस्सा बने
1992 में हुई थी शुरुआत
गौरतलब है कि मालाबार युद्धाभ्यास की शुरुआत वर्ष 1992 में भारत के मालाबार तट पर हुई थी। इसके साथ ही इसका नामकरण मालाबार के रूप में हो गया। उस वक्त यह भारत और अमेरिका के बीच किया जाने वाला एक द्विपक्षीय अभ्यास था। इसके करीब डेढ़ दशक बाद यानी 2007 में जापान, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया मालाबार का हिस्सा बने। 2015 में जापान मालाबार युद्धाभ्यास का एक स्थायी भागीदार सदस्य बना। लेकिन चीन के दबाव में उसने मालाबार से अपने कदम कुछ पीछे खींच लिए थे। लेकिन वर्ष 2020 में जब ऑस्ट्रेलिया और चीन के संबंधों में लकड़ी आई तो ऑस्ट्रेलिया पुनः मालाबार युद्धाभ्यास में शामिल हो गया और अब उसकी ये भागीदारी लगातार बनी हुई है।
चीन को लगेगी मर्जी
जानकारी का कहना है कि चीन की विस्तारवादी नीति के तहत जारी आक्रामकता के बीच उसके पड़ोस में भारत के बंगाल की खाड़ी के इलाके में मालाबार युद्धाभ्यास के आयोजन से उसे मर्जी लगना तय है। इसके पीछे की एक सबसे बड़ी वजह इस युद्धाभ्यास के भागीदार देश हैं। सभी के साथ चीन का किसी न किसी रूप में विवाद चल रहा है। भारत के साथ चीन पूर्वी लद्दाख में एलएसी विवाद में उलझा हुआ है। जापान के साथ उसका पूर्वी चीन सागर में विवाद जारी है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के साथ उसका विस्तारवादी नीति की वजह से तनाव जारी है। व्लाड स्मूथ को चीन एशियाई नाटो की सहा देता है और कहता है कि इसके जरिए अमेरिका एशिया महाद्वीप का नैव्यीकरण करने में लगा हुआ है। इससे क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा। ड्रैगन के इस कथन को हालांकि क्वाड देश पूरी तरह से खारिज करते हैं।

आतंकी संगठन के लिए बहुत बड़ा झटका कश्मीर में छह आतंकियों के मारे जाने से हिजबुल मुजाहिदीन की टूटी कमर: ब्रिगेडियर चौहान

हरिभूमि ब्यूरो नई दिल्ली
जम्मू-कश्मीर के कुलगाम (भोदरगाम, चिनिगाम) में हालिया हुई दो अलग-अलग मुठभेड़ में सुरक्षाबलों द्वारा ढेर किए गए छह आतंकवादियों के बाद घाटी में सक्रिय पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन (एचएम) की कमर टूट गई है और उसे बहुत बड़ा झटका लगा है। हालांकि आतंकियों के सफाए के लिए दक्षिण कश्मीर में चलाए गए विशेष अभियान में भारतीय सेना के दो जवान शहीद हो गए। इनमें से एक सिपाही प्रवीण जंजाल प्रभाकर और दूसरा लॉस नायक प्रदीप कुमार है। बीते रविवार को सेना की 15वीं कोर (चिनार कोर) के कमांडर, केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के प्रमुख सचिव सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने दोनों जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। यह जानकारी सोमवार को इलाके में सुरक्षा की ज़िम्मेदारी संभालने वाली सेना की एक सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स (आरआर) के कमांडर ब्रिगेडियर पृथ्वीराज चौहान और दक्षिण कश्मीर के उप पुलिस महानिरीक्षक (डीआईजी) जावेद अहमद मट्टू ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दी।

नष्ट की 6 किग्रा आईईडी, बरामद किए हथियार
ब्रिगेडियर चौहान ने बताया कि हमें 6 जुलाई को चिनिगाम क्षेत्र में आतंकवादियों की गतिविधियों के बारे में जानकारी मिली थी। शाम करीब चार बजे के आसपास सेना के एक जवान ने आतंकियों की इस गतिविधि को देखा। इसके बाद जब हमने उन्हें ललकारा तो उन्होंने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाब में सेना सहित अन्य सुरक्षा बलों ने इसका करारा जवाब दिया। मुठभेड़ के दौरान भारतीय सेना के एक जवान प्रभाकर प्रदीप ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। अभियान समाप्त होने पर सुरक्षा बलों ने 6 किगोरा आईईडी को तुरंत नष्ट कर दिया। सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई में छह आतंकियों का मारा जाना हिजबुल मुजाहिदीन के लिए एक बड़ा झटका है। मुठभेड़ स्थलों से सुरक्षा बलों ने एक एके राइफल, एक हथगोला और काफी मात्रा में हथियार और गोला बारूद का बड़ा खजाना बरामद किया है। इससे साफ होता है कि आतंकियों द्वारा इन जगहों को काफी समय से इस्तेमाल किया जा रहा था।

कुलगाम में ढेर किए एचएम के टॉप आतंकी: मट्टू
उधर, कुलगाम मुठभेड़ के बारे में बताते हुए जम्मू-कश्मीर के उप पुलिस महानिरीक्षक जावेद अहमद मट्टू ने कहा कि 6 से 7 जुलाई तक चलाए गए दो अभियानों में शुरुआत में दो आतंकी मारे गए। इसमें एक आदिल था। जिसके खिलाफ कई पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज थी। दूसरी मुठभेड़ चिनिगाम में विशेष सूचना के आधार पर की गई थी। इसमें सुरक्षाबलों ने चार आतंकियों को मार गिराया। इसमें एक 'ए' श्रेणी का आतंकी यादव बंशर डार था। जबकि अन्य की पहचान तैहीद अहमद, शकील अहमद वानी और जहीर अहमद डार के रूप में हुई है।
मौसम में बदलाव जिम्मेदार
सेना ने कहा कि बीते कुछ दिनों से जम्मू से लेकर एलओसी से लगे इलाकों में बढ़ते आतंकी हमलों के पीछे मौसम में हो रहा बदलाव एक बड़ा कारण है। इलाके में पड़ने वाली प्रचंड सर्दियों के बाद अब गर्मी का आगमन हो रहा है। पहाड़ों पर जमी बर्फ पिघल रही है, रास्ते खुल रहे हैं। इसलिए अलग-अलग जगहों पर छिपे हुए आतंकी जम्मू-कश्मीर में हिंसा-रक्तपात के अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए तेजी से सामने आ रहे हैं।
अमरनाथ यात्रा में विघ्न डालना भी आतंकियों का एक बड़ा मकसद है। वहीं इसमें कोई देर नहीं कि इन आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तान की साजिश है। इनके जरिए वो जम्मू-कश्मीर को एक बार फिर से अंतरराष्ट्रीय मानचित्र के केंद्र में लाना चाहता है। क्योंकि इससे वह अपने खुद के मुक्त की डांडाडोल होती स्थिति से दुनिया का ध्यान भटकाने की कोशिश करने में लगा हुआ है।

इस साल अब तक मारे गए 27 आतंकी
सेना के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में इस वर्ष अब तक सुरक्षा बलों द्वारा कुल 27 आतंकवादियों को मार गिराया जा चुका है। इसमें 25 आतंकी जम्मू-कश्मीर के भीतरी इलाकों में मारे गए हैं। जबकि 2 आतंकवादी भारत और पाकिस्तान नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर मारे गए। पिछले साल 2023 में सुरक्षा बलों ने 76 आतंकियों को मार गिराया था। 2022 में यह आंकड़ा 186 और 2021 में 180 था। आतंकी हमलों की घटनाओं को देखते तो इस वर्ष ऐसी करीब दर्जन भर घटनाएं हो चुकी हैं। जबकि पिछले साल जम्मू-कश्मीर में हुई आतंकी घटनाओं का आंकड़ा 27 था। इससे पहले वर्ष 2022 में 105 और 2021 में ऐसी 180 घटनाएं हुई थीं।

हमलावर ने बरसाई गोलियां, 2 की मौत
वाशिंगटन। अमेरिका में एक बार फिर गोलीबारी की घटना सामने आई है। डेट्रोइट में एक ब्लॉक पार्टी में हमलावर ने तांबड़ोतड़ गोलियां बरसा दीं, जिससे दो लोगों की मौत हो गई। जबकि, 19 अन्य लोग घायल हो गए। सोमवार को घटना के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जीवित बचे पीड़ितों को विभिन्न चोटें आई हैं। चोटों की प्रकृति, जिसमें गोली लगाने के घावों की संख्या और अन्य प्रकार की चोटें शामिल हैं। के बारे में विशिष्ट विवरण अभी भी अस्पष्ट हैं।
बाइडेन की दावेदारी पर उठ रहे सवाल जो पर लटकी तलवार, कमला बन सकती हैं राष्ट्रपति पद की दावेदार

देर से राष्ट्रपति चुनाव कराने की याचिका खारिज
कोलंबो। श्रीलंका में रविवार को राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के अध्यक्ष आर एम ए एल रत्नायके ने बताया कि देश में 17 जुलाई के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा की जा सकती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति चुनाव देर से कराने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई है जिसे पांच सदस्यों की पीठ ने अर्दोर्नी जनरल की दलीलों के आधार पर आगे बढ़ने की अनुमति दिए याचिका खारिज कर दी है।
बहस में पिछड़ने के बाद बाइडेन की बढ़ती उम्र
बीते दिनों अटलांटा में हुई राष्ट्रपति पद की पहली बहस में जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप के सामने कमजोर साबित हुए थे। बहस के दौरान कई बार बाइडेन की जुबान लड़खड़ाई और जिस तरह से उन्होंने जवाब दिए, उसके बाद से उनकी बढ़ती उम्र की चर्चा फिर से तेज हो गई थी। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो डेमोक्रेट पार्टी के भीतर एक वर्ग कमला हैरिस को जो बाइडेन के संभावित विकल्प के रूप में देख रहा है। कमला हैरिस और उनकी प्रचार टीम अभी सार्वजनिक रूप से बाइडेन का ही समर्थन कर रही है, लेकिन हाल के दिनों में उनके प्रचार अभियान में जो सूक्ष्म बदलाव आए हैं।
चुनाव अभियान ने अटकलों को किया खारिज
कमला हैरिस अपने बयानों में डोनाल्ड ट्रंप पर ज्यादा आक्रामक होकर हमला कर रही हैं। पार्टी के भीतर जो बाइडेन को मनाने की कोशिशें चल रही हैं कि वह कमला हैरिस का समर्थन करें। डेमोक्रेट पार्टी में एक वर्ग ऐसा भी है जो कमला हैरिस के नेतृत्व में चुनाव लड़ने को लेकर आशंकित है। इन चर्चाओं के बीच बाइडेन के चुनाव अभियान के प्रवक्ता केविन मुनोज ने सभी अटकलों को सिर से खारिज कर दिया।

मिग, सुखोई, टी-90... भारत-रूस की दोस्ती के प्रतीक हैं ये सारे हथियार

एजेसी नई दिल्ली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस की दो दिवसीय यात्रा पर मॉस्को पहुंचे हैं। वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर मॉस्को में 22वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत और रूस की दोस्ती की दुनिया में मिसाल दी जाती है। ऐसे में जानें रूस ने कौन-कौन से हथियार दिए हैं, जिसने भारतीय सेना को शक्तिशाली बनाया है।

एस-400 मिसाइल सिस्टम
भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस के साथ एस-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की पांच इकाइयों खरीदने के लिए 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। इनमें से तीन यूनिट की डिलीवरी हो चुकी है। जबकि बाकी की दो इस साल के अंत तक भारत आ सकती हैं। एस-400 को दुनिया का सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है।

ब्रह्मोस मिसाइल
ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भारत और रूस ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। यह दुनिया की एकमात्र मिसाइल है, जिसे जल-थल-नम से फायर किया जा सकता है। इस मिसाइल से अमेरिका भी खौफ खाता है। क्योंकि इसको रोकने की ताकत दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है।

संसदीय चुनाव में नतीजों के बाद हिंसा भड़की, पीएम ब्रिगेडियल ने पद से इस्तीफा सौंपा फ्रांस: गठबंधन सरकार के आसार, वामपंथी गठबंधन को सबसे ज्यादा 182 सीटें

एजेसी पेरिस
फ्रांस में रविवार को हुए संसदीय चुनाव के नतीजों में राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों की रेंनेसां पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। गृह मंत्रालय ने सोमवार को आंकड़े जारी करते हुए बताया कि कुल 577 सीटों में से वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट गठबंधन को 182 सीटें मिलीं। दूसरे नंबर पर रेंनेसां पार्टी रही। इसे 163 सीटें मिलीं। वहीं, दक्षिणपंथी नेशनल रैली गठबंधन को 143 सीटें हासिल करने में कामयाब रही। नेशनल असेंबली में बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को 289 सीटें जीतना जरूरी है। ऐसे में अब किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं है। विशेषज्ञों ने अनुमान जताया है कि अब पार्टियां गठबंधन के सहारे बहुमत पाने की कोशिश करेंगी। हार की जिम्मेदारी लेते हुए रविवार को प्रधानमंत्री गैब्रियल अट्टुल ने कहा कि सोमवार को राष्ट्रपति मैक्रों को इस्तीफा सौंप दिया है। इसके अलावा जब तक कोई नया प्रधानमंत्री नहीं बन जाता तब तक वे प्रधानमंत्री बने रहेंगे।

न्यू पॉपुलर फ्रंट तीसरे नंबर पर रहा
फ्रांस में अति दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली को रोकने के लिए दूसरे चरण के चुनाव में मैक्रों की रेंनेसां पार्टी और उसने शामिल गठबंधन दलों (इनसेबल) और वामपंथी पार्टी न्यू पॉपुलर फ्रंट ने गठबंधन कर लिया था। इसके तहत दोनों समूहों ने 217 उम्मीदवारों को मैदान से हटा दिया था। फ्रांस के चुनाव में पहले चरण में किसी उम्मीदवार को 12.5% वोट मिला हो तो वह दूसरे चरण में लड़ सकता है। ऐसे में इस गठबंधन ने एक स्टैटजी के तहत तीसरे नंबर पर रहे उम्मीदवार को हटा दिया।
आंसू गैस के गोले दागे
संसदीय चुनाव में शुरुआती नतीजों के बाद हिंसा भड़क गई। दक्षिणपंथी नेशनल रैली ने लोग सड़क पर आ गए और प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान पुलिस ने सेंट्रल पेरिस में लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे, जिसमें कई लोग घायल हो गए। दरअसल इससे पहले 30 जून को हुए चुनाव हुआ था। इसमें दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली (एनआर) को सबसे ज्यादा 35.15% वोट मिले, जिसके बाद अनुमान था कि पार्टी को 230-280 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन आज आए नतीजों में इसका उलटा हुआ।

हार के बाद भी पद पर बने रहेंगे मैक्रों
नेशनल असेंबली के चुनाव में मैक्रों की रेंनेसां पार्टी हार चुकी है, लेकिन मैक्रों पद पर बने रहेंगे। मैक्रों ने पहले ही यह कहा दिया है कि वह कोई भी जीत जाए वे राष्ट्रपति पद से इस्तीफा नहीं देंगे। दरअसल, यूरोपीय संघ के चुनाव में हार के बाद अगर मैक्रों की पार्टी संसद में भी हार जाती है। तो उन पर राष्ट्रपति पद छोड़ने का दबाव बन सकता है। इसलिए मैक्रों ने पहले ही साफ कर दिया है कि वे अपना पद नहीं छोड़ेंगे।

मज़बूत इरादों के साथ सेहत का पहला कदम
डा. आर्थो एक्वूप्रेशर स्लिपर

एक्वूप्रेशर स्लिपर के फायदे:

- ब्लड सर्कुलेशन में सहायक
- सारा दिन पहनने के लिए आरामदायक
- प्रीमियम क्वालिटी, जो दे चलने का सुखद अनुभव
- PVC या प्लास्टिक फुटवियर की तुलना में बेहतर

पसीना रोधी
फिसलन रोधी
नरम और आरामदायक
रोज़ाना इस्तेमाल

डा. आर्थो
All day wear **Acupressure Slippers**

A Step towards pain-free life with Acupressure

Contact For Dealership
85588 07777 • dealership@divisa.in